

# **TIGHT BINDING BOOK**

UNIVERSAL  
LIBRARY

**OU\_184326**

UNIVERSAL  
LIBRARY



OUP—43—30-1-71—5,000

**OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY**

Call No.

**S181-48**

Accession No.

**P. G. S2AAE**

Author

**श्री वसुदेव**

Title

**वैदिक वर्णनालय 1888**

This book should be returned on or before the date last marked below.

---



॥ श्रीः ॥

पं० शिवसहायकृत-

# वेदान्त रामायण ।

भाषाटीका सहित ।

Digitized by srujanika@gmail.com

जिसको

गङ्गाविष्णु श्रीकृष्णदास

अध्यक्ष 'लक्ष्मीवेंकटेश्वर' छापेखानमें  
मेनेजर पं० शिवदुलारे वाजपेयीने मालिकके लिये  
छापकर प्रकाशित किया.

शके १८३८ संवत् १२७३ ।

कल्याण-मुंबई.

सब हक यन्त्राधिकारीने अपने आधीन रखते हैं।



श्रीः ।

## वेदान्तरामायण रचनेका कारण ।

वेदांतार्थानि गूढानि शीघ्रं सर्वैर्न ज्ञायते ॥

अतः सर्वार्थमाहत्य जीवानां मोक्षहेतवे ॥ १ ॥

भाषा—वेदान्तका अर्थ बहुत कठिन है सब जीवोंसे जलदी नहीं मालूम होवेगा जो जीव अनेक जन्मसे अध्यास किया होगा उसको तो किंचित् मालूम भी पडेगा. औरको कुछ नहीं मालूम पडेगा. इस कारणसे सब ग्रंथोंका अर्थ लेके अपनी बुद्धिमानिक मोक्ष होनेवास्ते ॥ १ ॥

रचितोऽयं मया ग्रंथो रामरावणकारणात् ॥

टीकाज्ञानार्णवीयुक्तः सर्वस्मान् मुक्तिदायकः ॥ २ ॥

भाषा—राम रावणके कारणसे यह ग्रंथको मैंने बनाया है और ज्ञानार्णवी टीकासे युक्त है इससे यह ग्रन्थ सब मनुष्योंको मुक्ति देनेवाला है ॥ २ ॥

## अथ मया स्वकुलप्रस्तावः क्रियते ।

श्रीब्रह्मसरश्च्युतोत्तरतटे ये सन्ति वै ब्राह्मणास्तेषां पादरजोभि-  
गाहनरतं मेऽभूत्कुलं निर्मलम् ॥ औपाध्यायमितीरितं क्षितितले-  
तस्मिन्प्रजातो बुधो टीकाराम इति प्रवृद्धिविभवस्तस्यात्मजो  
बुद्धिमान् ॥ १ ॥

भाषा—बहुत सुंदर मानससरोवरसे निकसी जो सरयू नदी तिसके उत्तर-देशमें जो द्विज बसते हैं जिन्होंको देशभाषामें सरवरिया ब्राह्मण कहते हैं उन सबकी चरणरजकी सेवामें निषुण मेरा कुल होता भया भूमितलमें मेरे कुलको उपाध्याय कहते हैं तिस उपाध्यायकुलमें बड़े पंडित और बड़ा है ऐश्वर्य जिन्होंका ऐसे टीकारामजी जन्मते भये तिनके पुत्र बड़े बुद्धिमान् ॥ १ ॥

इच्छारामेति विख्यातो बुधस्तस्यात्मजः सुधीः ॥

हरीरामेति मतिमान् बुधश्चैव तदात्मजः ॥ २ ॥

भाषा—इच्छारामजी पंडित ऐसे नामसे विख्यात भये तिसके पुत्र सुंदर हैं  
बुद्धि जिन्होंकी बड़े ऐश्वर्यमान् पं० हीरारामजी भये तिनके पुत्र ॥ २ ॥

विश्वरामश्च तस्यासन्सुता निर्मलचेतसः ॥

शिवनारायणश्रेष्ठस्ततश्चाहं ममानुजः ॥

श्रीदद्तश्च त्रयाणां नो षट् पुत्राः पितृवल्लभाः ॥ ३ ॥

भाषा—पं० विश्वराम भये उनके तीन पुत्र भये बडे पं० शिवनारायणजी  
तिन्होंका किंकर छोटा भाई मैं हूँ मेरा छोटा भाई श्रीदत्त है मेरे तीन भाईयोंके  
छः पुत्र हैं कैसे पुत्र हैं पिताके प्यारे हैं ॥ ३ ॥

या लक्ष्मणस्य नगरी तत्पूर्वे सुलतापुरम् ॥

तस्य दक्षिणदिग्भागे क्रोशे युग्ममिते मम ॥

वासयामेति विमलो लोदीपुरमितीरितम् ॥ ४ ॥

भाषा—लक्ष्मणकी नगरी जिसको लखनौ कहते हैं तिसके पूर्व तरफ सुलता-  
पुर है तिसके दक्षिणदिशामें दो कोसपर मेरा वास करनेवाला ग्राम है उसका  
लोदीपुर नाम है ॥ ४ ॥

इति मम कुलप्रस्तावः ।



श्रीः ।

## अथ वेदान्तरामायण प्रारम्भः ।

श्रीचंद्रशेखरं नमः ।

सन्नम्य विश्वेशततुं स्वमानसे सुखाकरं ज्ञानविवेकसत्तरूपम् ॥  
कामादिवैश्वानरशुद्धवारिदं वेदान्तरामायणमादिशास्त्रजम् ॥ १ ॥

**भाषा-** निर्विघ्नपूर्वक ग्रंथकी समाप्ति होनेवास्ते ग्रन्थकार आदिमें जगदीश्वरको नमस्काररूप मंगल करता है. शिवसहाय पंडित मैं जो हौं सो वेदान्तरामायणको करता हूं क्या करके जगत्के ईश भगवान्‌की मूर्त्तिको अपने मनमें नमस्कार करके कैसा वेदान्तरामायण है मोक्षरूप सुखको करनेवाला ज्ञान विवेकके दुःखको नाश करनेमें कल्यवृक्ष है काम क्रोध लोभ आदि जो अग्नि है तिसको बुझानेवास्ते सुन्दर मेघ है आदिशास्त्र जो महासांख्य तिससे उत्पन्न है ॥ १ ॥

कुर्वे जगच्छेतनकारकं प्रभुं शुद्धं सदानन्दमयं निरंजनम् ॥

यदीह्या विश्वमिदं चराघरं प्रफुल्लितं वारिकणोर्मिमचंचलम् ॥ २ ॥

**भाषा-** जडरूप संसारकूं चेतन करनेवाले प्रभुको इंद्रियके रोगोंसे शुद्धको नित्य आनंदरूपको प्राप्तचरहितको नमस्कार करके वेदान्तरामायण करताहूं जिस भगवान्‌की छायासे यह संसार प्रफुल्लित होरहा है कैसा संसार है जलविंदुकी उहरि सरीखा चंचल है ॥ २ ॥

तं वै नमस्कृत्य विभुं निजाथ्रयं सञ्जित्समानन्दमयं गुणारणिम् ॥

गता न चायान्ति पुनर्भवं नरा यत्तत्स्वरूपं पतितावतारकम् ॥ ३ ॥

**भाषा-** बहुत शोभायमान अपने आधीन जीव देह दोनोंको संभाल करनेमें आनंदरूप रजोगुण तमोगुण सत्त्वगुणको जलाने वास्ते अग्निस्वरूप ऐसे भगवान्‌को नमस्कार करिके वेदान्तरामायणको करता हूं जिस प्रभुके रूपको श्राप हुआ जो जीव सो संसारको कभी नहीं आता कैसा रूप है पतितजीवोंको उद्धार करनेवाला ॥ ३ ॥

निर्द्वन्द्वमत्यद्गुतमुज्ज्वलं शुभं वेदाद्यगम्यं मुनियोगिभिर्नुतम् ॥  
स्वेच्छारमन्तं तनुभावनिर्गमं स्वानन्दतुष्टं समवारिधिं हरिम् ॥ ४ ॥

भाषा—सुखदुःखसे हीन बहुत अद्भुत असंख्य सूर्यसे दीपिमान् शुभरूप चारिहूं वेदोंसे नहीं प्राप्त होनेयोग्य मुनि योगी जनोंसे नमस्कार योग्य अपना इच्छामें रमित देहके लक्षणसे रहित अपने आनंदमें संतोष समको समुद्र जन्म-बाधा हरनेवाला ऐसे भगवान् को नमस्कार करके वेदान्तरामायण करताहूं ॥ ४ ॥

विद्वांच्छ्वसहायोऽहं सञ्चिदानन्दमद्ययम् ॥

निराकारं निराधारं निरूपाधिं निराश्रयम् ॥ ५ ॥

भाषा—जीवदेहको चैतन्यरूप आनंद देनेवाले आकारसे रहित आधारसे वर्जित संसारके प्रपञ्चसे हीन आशासे हीन ऐसे भगवान् को नमस्कार है ॥ ५ ॥

पञ्चमिः कुलकम् । इतिहासपुराणानां वेदवेदान्तयोरपि ॥

सर्वशास्त्रमतं गृह्ण कुर्वैऽहमिदमुत्तमम् ॥ ६ ॥

भाषा—इतिहासको पुराणको वेदको वेदान्तको सब शास्त्रको मत ग्रहण करिके यह वेदान्तरामायणको मैं करता हूं ॥ ६ ॥

वेदान्तरामायणमेतदुज्ज्वलं संसारतापापहमद्गुतं शिवम् ॥

प्रयान्ति यच्छ्रुत्य मुमुक्षवः पदं तद्यत्स्वयंज्योतिमकल्पमषं शुभम् ॥ ७ ॥

भाषा—कैसा वेदान्तरामायण है बहुत शोभित संसारके तापको नाश करनेवाला अद्भुत है कल्याणको वृद्धि करता है जिस वेदान्तरामायणको सुनके संसारसे मोक्षकी इच्छा करनेवाले जो जीव हैं सो उस स्वरूपमें मिलेंगे कि जो स्वरूप आपसे प्रकाश होताहै सब पापोंसे रहित है शुभ है ॥ ७ ॥

गत्वा न चायान्ति कदापि योगिनो यद्यच्यानशून्यं गहनं सुदुस्तरम् ॥

अनेकजन्मार्जितचिन्तनापैरस्तदप्यगम्यं मुनिवृद्दसनुतम् ॥ ८ ॥

भाषा—कैसा स्वरूप है कि ध्यानमें नहीं आसक्ता बहुत जन्मसे एकदा किया जो विचार जिसमें चतुर जो प्राणी तिनसेभी नहीं प्राप्त होने योग्य बहुत मुनियों करके नमस्कार किया है ऐसे स्वरूपको गये हुए योगी जन हैं सो संसारमें कभी नहीं आवैंगे ॥ ८ ॥

पुनर्भवं मोहजलभिपूरितं तृष्णोर्मिणा चंचलमूहयान्वितम् ॥  
वितर्कयुक्तं बहुमानगर्वितं प्रचंडमायार्णवदुस्तरं घनम् ॥ ९ ॥

भाषा—कैसा संसार है मोहजल जलसे भरा है तृष्णाकी लहरि करके चला-  
यमान है तर्क वितर्कसे युक्त है बहुत अभिमान अहंकार करि रहा है बड़ी  
जबर्दस्त मायाके प्रभाव समुद्र करिके दुःखसे पार जाने जोग्य है बड़ा  
कठिन है ॥ ९ ॥

ब्रह्मावर्ते सुरम्ये विधिकृतविभवे ब्रह्मयज्ञो बभूव  
तत्रागुर्भूमिसंस्था वितलतलगता नाकलोकाश्रिताद्याः ॥  
ब्रह्मष्ट्याद्या मुनीशाः सुरपतिसीहितास्सुज्ञदेवर्षयो वै  
राजर्षीशा रमेशो विधिपवनभुजौ पार्वतीप्राणलम्बः ॥ १० ॥

भाषा—बहुत रमणीय ब्रह्मकी बनाये ऐश्वर्य संयुक्त ऐसे ब्रह्मावर्त क्षेत्रमें  
सत्संगियोंने ब्रह्म निरूपण यज्ञ करते हुए तिस यज्ञमें तीन लोक चौदह भुवनके  
बसनेवाला जो ब्रह्मऋषि मुनीश बडे बडे जो ज्ञानी देवर्षि राजर्षि इंद्र आदि  
देवतासहित भगवान् विधि शेष महादेव ये सब आते हुए ॥ १० ॥

एते चान्ये समायाता बहवो धर्मलिप्सवः ॥

पूजिता दानमानभ्यां सत्कृता ब्रह्मतत्परैः ॥ ११ ॥

भाषा—इन सबसे औरभी बहुत धर्मके ग्रहण करनेवाले सज्जन आते हुए  
ब्रह्मके जानेवाले मुनियोंने दान मान आदरसे सबका पूजन किया ॥ ११ ॥

ब्रह्मविज्ञानकुशलाः सर्वे भूपाः समाययुः ॥

आजगाम महाबुद्धिर्विद्हो मिथिलापातिः ॥ १२ ॥

भाषा—जो भूमितलमें ब्रह्मके जानेवाले राजा हैं सो भी सब आते हुए  
बडे बुद्धिमान् जनकभी आये कैसे जनक हैं देहके अभिमानसे राहित हैं ॥ १२ ॥

यथायोग्यं स्थितास्तत्र समाजे ब्रह्मनिर्मिते ॥

परस्परं कथाश्वकुर्विविधा धर्मतत्पराः ॥ १३ ॥

भाषा—ब्रह्मज्ञानसे बनाई हुई समाजमें यथायोग्य सब बैठते हुए अपने  
अपने धर्ममें तत्पर होकरके बहुत प्रकारकी कथा करने लगे ॥ १३ ॥

**पौराणिकाः पुराणज्ञा वैदिका वेदपाठिनः ॥**

**धार्मिका धर्मशास्त्रज्ञा वेदान्तज्ञाः सदुद्ध वाः ॥ १४ ॥**

**भाषा—**पुराणी लोगोंने पुराणकी कथा वेदपाठी वेदकी कथा धर्मशास्त्रवाले धर्मशास्त्रकी कथा वेदान्तवाले सतज्ञानसे उत्पन्न कथा इस प्रकारसे सब कथा करते हुए ॥ १४ ॥

**एवं समेघमाने तु महानन्दे सुप्रियतरे ॥**

**मुनिः पप्रच्छ सम्वतो वरतन्तु महामतिम् ॥ १५ ॥**

**भाषा—**इस प्रकारसे वडे आनंदकी वृद्धि होरही है. बहुत प्रकारसे ऐसी समयमें संवर्त नाम मुनि जो हैं सो वडी है वृद्धि जिनकी सो वरतन्तु मुनिसे पूछते हुए ॥ १५ ॥

### संवर्त उवाच ।

**को रावणोऽतिप्रबलोऽरिहन्ता कः कुम्भकर्णो मदपानमत्तः ॥**

**किं तन्मदं यस्तु सकृत्पर्पात्वा अवन्ति मत्ताः सलु ज्ञानवार्जिताः ॥ १६ ॥**

**भाषा—**संवर्त मुनि बोलते भये हे गुरुमहाराज ! वडे बलवान् वैरीको नाश करनेवाला रावण कौन है, मदको पिके रातदिन मत्त रहना ऐसा कुम्भकर्ण कौन है, जिस प्रदको एकदफे पीकर देत्यलोग निश्चय करके ज्ञानसे रहित और मत्त होजाते हैं. सो मद क्या है ? मो कहो ॥ १६ ॥

**विभीषणः कश्च सुरेशजेता का कैकसी कश्च मुनिर्मरीचिः ॥**

**को वै पुलस्त्यः समचित्तवर्ती को विश्रवा विश्वसैकट्टाषिः ॥**

**खरादयः के च प्रचंडवीर्याः का सूर्पविंशा भुवनत्रयश्च किम् ॥ १७ ॥**

**भाषा—**विभीषण क्या है, इंद्रजित क्या है, कैकसी क्या है, मरीचमुनि कौन है, सुखदुःखमें बरोबर चिन जिनको ऐसे पुलस्त्य मुनि कौन हैं, संसारमें भगवान् को रूप देखनेवाले विश्रवा मुनि कौन हैं, खर आदि करके संसारमें जितने राक्षस हैं सो कौन हैं, शूर्पणखा क्या है, तीन भुवन क्या हैं ॥ १७ ॥

मन्दोदरी रावणवल्लभा च का चान्याः प्रियाश्वैव दशाननस्य काः ॥  
किन्तच्छिरो यदशसंख्यान्वितम्भुजाश्च के विशमितास्तु तस्य वै ॥

भाषा—रावणकी प्यारी मन्दोदरी क्या है, और जो बहुत रावणकी स्त्री हैं सो क्या है, रावणके दश मस्तक क्या हैं, रावणके वीस हाथ क्या हैं ॥ १८ ॥

लंका च का तत्परिखा च सिन्धुः कः को विरचिर्वरदानदाता ॥

कावस्त्रशस्त्रौ विविधौ रथं किं के वाजिनो ह्युतमगर्दभाश्च के ॥ १९ ॥

भाषा—लंका क्या है लंकाकी खाई क्या है मसुद्र कौन है रावणको वरदान देनेवाला ब्रह्मा कौन है, रावणके बहुत प्रकारके अन्न शस्त्र क्या है रावणके रथ घोड़े खचर ये सब क्या हैं ॥ १९ ॥

शक्तिश्च का किं सुमनोविमानं को वै कुवेरो जननी च तस्य का ॥

कः शंकरो यस्य करोति सेवनं दशाननः कानि मुखानि तस्य वै ॥ २० ॥

भाषा—रावणकी सांग जिसमे लक्ष्मणकूँ मारा सो क्या है पुष्पकविमान क्या है, कुवेरकी माता क्या है, कुवेर क्या है, शंकर क्या है, जिनका रावण नित्य मेघन करता है, रावणके दस मुख क्या हैं ॥ २० ॥

कः सारथिर्वाजिविचालनं च किं किं वाजिरंहोतिरजश्च किम्मुने ॥

कौद्वौ रथाङ्गो रथकूवरं च किं किं रश्मिवद्धं गमनाश्रयध्वं किम् ॥ २१ ॥

भाषा—रावणका सारथी वोडोंको हांकनेवाला, चाउक, वोडोंकी दोड और धूलि हे मुनिराज ! ये सब क्या हैं, रथके दो पैदा रथमें बैठनेकी जगा रथकूँ बांधनेकी रसी, रथकूँ चलाना ये सब क्या हैं ॥ २१ ॥

के रावणस्यैव सुतासुतानां तत्पुत्रपौत्रागणना न येपाम् ॥

एपां स्त्रियः का भुवनत्रयाद्वकाः द्वयोरथान्ये भुवि राक्षसाश्च के ॥ २२ ॥

भाषा—रावणके लड़का लड़कोंका लड़का तिनोंके पोता पड़पोता आदि जिनोंकी गिनती नहीं है ये सब क्या हैं इन सबोंकी स्त्रियें क्या हैं कुंभकर्णकी स्त्री पुत्र क्या हैं और सब राक्षस जो रावणके कुलमें थे इनकी स्त्री पुत्र क्या हैं ॥ २२ ॥

किमामिषं तदुधिरं च तेषां का वारुणी तद्यजनञ्ज किं मुने ॥

तेषां गुरुर्वै भृगुनन्दनश्च को निकुंभिला का हृष्णस्थलं च किम् ॥२३॥

भाषा—राक्षसोंका भोजन मांस रुधिर क्या है, मदिरा क्या है, रावणका यज्ञ क्या है राक्षसोंके गुरु शुक्राचार्य कौन हैं, निकुंभिला देवी कौन है, होमका स्थान क्या है ॥ २३ ॥

कः पावको हृव्यविलक्षणाश्च के कौ दारुमंत्रौ विजयं च किम्मुने ॥

दृसीश्वरी का विजटा च वाटिका काशोकवृक्षैः परिवारिता च या २४ ॥

भाषा—अथि होमकी सामग्री क्या है, लकड़ी, मंत्र, क्या हैं, रावणकी विजय क्या है, दासियोंमें मालिक विजटा क्या है, अशोक नाम बगीचा अशोक वृक्षोंसहित क्या है ॥ २४ ॥

सर्वाणि चान्यानि च यानि तेषां द्रव्याणि मे प्रश्नविवर्जितानि ॥

वदस्व चित्तम्मम कौतुकाकुल श्रुत्वा पुराणानि मुनीश्च तानि च ॥२५॥

भाषा—हे मुनिजी ! जो मैं पूँछाहूँ और मेरे पूँछनेसे बाकी जो प्रश्न रहा होवे रावणादि राक्षसोंकी वार्ता सो विस्तार करके कहो हे गुरु ! पुराणोंमें रावणका चरित्र सुनके मेरा चित्त घबराय रहा है ॥ २५ ॥

इति श्रीवेदान्तरामायणे बांलकांडे शिवसहायबुधविरचिते संवर्तवरतन्तुसंवादे रावणविभूतिप्रश्ने प्रथमो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ १ ॥

## संवर्त उवाच ।

के वेदशास्त्रावलिसंहितादयो ये पीडिता विंशतिबाहुनानिशम् ॥

के ब्राह्मणा ब्रह्मविदां वरिष्ठ गावश्च का वेद मखं च किम्मुने ॥ १ ॥

भाषा—संवर्त सुनि फेर पूँछते हैं हे मुनिजी ! वेद, शास्त्र, पुराण संहिता बहुतसे बहुत कौन हैं कि जिनकूँ वारंवार रावण दुःख देता था हे मुनिजी ! ब्रह्मज्ञानियोंमें आप बड़े हो गो ब्राह्मण वेद यज्ञ क्या है जिनको रावण नाश करता था ॥ १ ॥

के ते पुराणा हरिकीर्तिवर्धना ये नष्टभावं गमिता निवारिताः ॥

दृशानने नातिप्रचंडतेजसा भूमिश्च का के सुरसत्तमाश्च ये ॥ २ ॥

भाषा—भगवान् की कीर्ति बढ़ानेवाले पुराण क्या हैं. जिन्होंको बड़ा तेजमान रावणने नाशको प्राप्त करदिया और भूमिदेवता क्या हैं जिन्होंको रावणने बहुत दुःख दिया ॥ २ ॥

गंगादयः काः सरितो मुनीश्च विष्णुश्च को ब्रह्मसुतो वसिष्ठः ॥

पुरी त्वयोध्या रविवंशरक्षिता का सा च के तत्कुलसंभवा नृपाः ॥ ३ ॥

भाषा—हे मुनिराज ! गंगा आदि लेके नदी, विष्णु ब्रह्माको पुत्र वसिष्ठ सूर्य-वंशी राजों करके रक्षित अयोध्यापुरी और सूर्यवंशमें जन्मे जो राजा ये सब कौन हैं ॥ ३ ॥

कश्चाजसूनुर्बहुकामुको नृपः का कौशला का मगधेशनन्दिनी ॥

का कैकयी कश्च विभांडकात्मजो यज्ञश्च कः को हुतभुजुनीश ॥ ४ ॥

भाषा—अजराजाको पुत्र बड़ा कामी राजा दशरथ क्या है और कौसल्या सुमित्रा कैकयी और स्त्री दशरथकी क्या हैं और शंगीक्रषि तथा यज्ञकी अग्नि कौन हैं ॥ ४ ॥

कौदारुमन्त्रौ हृवनस्य द्रव्याः के यज्ञकुण्डं किमु पावकार्चिः ॥

किं पावकेनापि नृपाय दत्तन्तद्वक्षणं दोहदलक्षणञ्च किम् ॥ ५ ॥

भाषा—यज्ञकी लकडी, मंत्र होम सामग्री यज्ञको कुण्ड अग्निज्वाला ये सब क्या हैं दशरथको अग्निने प्रसन्न होके क्या वस्तु दिया उस वस्तुको भक्षण रानियोंने किया सो क्या है और गर्भका लक्षण क्या है ॥ ५ ॥

का सा प्रसूतिस्मुखदायिनी या को रामचन्द्रः खलु लक्षणश्च कः ॥

कौ ब्रातरौ द्वौ शुभलक्षणान्वितौ शत्रुघ्नकैर्यसुतौ सुनिर्मलौ ॥ ६ ॥

भाषा—जो सुखको देनेवाला जन्म उत्सव क्या है रामचंद्र अरु लक्ष्मण क्या हैं सुंदर लक्षणयुक्त मलसे रहित दोभाई शत्रुघ्न और कैकयीका पुत्र भरत ये दोनों कौन हैं ॥ ६ ॥

रामस्य किं क्रीडनकौतुकमुने कश्शवेतप्रासादखगोऽजिरं च किम् ॥  
का धूलिराशिः सरयूस रित्का कौ तीरतोयौ पुरवासिनश्च के ॥ ७ ॥

भाषा—हे मुनिजी ! दशरथराजाकी सफेद महल आकाशको मानो छूने चाहती है सो क्या है और रामके बालपनेका खेल तमासा क्या है और धूलिकी समूह सरयनदी तथा तटजल पुरवासी प्रजा ये सब क्या हैं ॥ ७ ॥

किं रामचन्द्रस्य धनुश्च खड़ं के वै शराः काविषुधी मुषूर्णे ॥  
तद्वत्सुमित्रातनयस्य सर्वं किं शश्ववृदं वद तनुने मम ॥ ८ ॥

भाषा—राम लक्ष्मणका धनुषबाण तरकस खड़ और अस्त्र क्या है मुनिजी कहो ॥ ८ ॥

संस्कारथ्रेष्ठा मुनिना कृताश्च मुनिश्च को गाधिसुतो महामतिः ॥

तस्यापि को यज्ञसमुत्सवो मुने का ताडका यज्ञविनाशकारिणी ॥ ९ ॥

भाषा—वसिष्ठजीने राजाके पुत्रोंका संस्कार क्या किया और गाधिपुत्र बडे उद्धिमान् विश्वामित्र कौन हैं विश्वामित्रकी यज्ञका उत्सव क्या है और यज्ञकी नाश करनेवाली ताडका क्या है ॥ ९ ॥

कौ राक्षसौ द्वावतिदुर्मती मुने सुबाहुमारीचसमास्यसंयुतौ ॥

विद्या च सा का मुनिना प्रदत्ता या रामचन्द्राय प्रसन्नचेतसा ॥ १० ॥

भाषा—हे मुनिजी ! सुबाहु मारीच बडे दुष्टमति कौन हैं विश्वामित्र मुनि प्रसन्न चिन्तसे रामचंद्रको विद्या क्या दिया ॥ १० ॥

को गौतमः का गृहिणी च तस्य वै नामाप्यहल्या मुरनायकश्च कः ॥

को जारिणीजारसमुद्धवो रसो किन्तद्रजो येन विनिर्गता च सा ॥ ११ ॥

भाषा—गौतम मुनि अरु उनकी स्त्री जिसका अहल्या नाम ये दोनों कौन है इन्द्र कौन है जारसे उत्पन्न भया जो रस सो क्या है वो धूलि क्या है, जिसके छुएसे अहल्या तर गई ॥ ११ ॥

का सादिश्ला यन्मिलिता च कामिनी को मैथिलेशो नगरी च तस्य का ॥  
स्वयंवरं किं नृवराश्च के ते का जानकी तद्वनुरुत्तमश्च किम् ॥ १२ ॥

भाषा—जिस शिलामें अहल्या मिलगई थी वो शिला क्या है जनक राजा कौन है जनककी नगरी क्या है स्वयंवर क्या है जो राजा स्वयंवरमें आये थे वो सब कौन हैं और जानकी क्या है जो धनुषकी पण जनकने किया सो धनुष क्या है ॥ १२ ॥

किं त्रोटनन्तद्वनुषो मुनीन्द्र भो को भार्गवस्तद्वनुरोपणञ्च किम् ॥

को वै विवाहो जनतासमागमं गजाश्वसेनादिसुखासनञ्च किम् ॥ १३ ॥

भाषा—हे मुनीन्द्रजी ! धनुष तोड़ना क्या है, परशुरामजी कौन हैं, परशुराम-जीका धनुष रोपण क्या है और हाथी घोड़ा पालकी फौज इत्यादि बरात आई सो क्या है ॥ १३ ॥

काश्वोर्मिलाद्यास्तनुजा विदेहयोर्द्योः सुकेत्वोर्जनकस्य चोर्मिला ॥

विवाहितारामसहोदराणां कास्ताश्चुभानन्दक्षमास्मुलेचनाः ॥ १४ ॥

भाषा—जनक सुकेतु ये दोनों विदेहोंकी उर्मिला आदि कन्या क्या हैं जो रामके भाइयोंको भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न इनके संग विवाह भया ये कौन है शुभ आनन्द क्षमायुक्त ॥ १४ ॥

मुनीन्द्र को रामसहोदराणां विदेहजानां च विवाहकौतुकः ॥

रामस्य चैवम्पृथिवीसुताया विवाहहर्षोत्सवमंगलं च किम् ॥ १५ ॥

भाषा—हे सुनि ! रामके भाइयों समेत विवाहका तमासा क्या है तथा रामजीके विवाहमें हर्ष उत्सव मंगल भया सो क्या है ॥ १५ ॥

कानि प्रदत्तानि सुताविवाहे राजा विदेहेन विचक्षणेन ॥

किं वै प्रयाणं च क्षितीश्वरस्य संगृह्यपुत्राञ्छुभकन्यकाभिः ॥ १६ ॥

भाषा—कन्याविवाहमें जनकने दायज दिया सो क्या है, पुत्रसहित तथा जो शुभ पुत्रोंकी स्त्री तिनकूं ग्रहण करके दशरथने प्रयाण किया सो क्या है ॥ १६ ॥

ससैन्ययुक्तस्य नृपोत्तमस्य पुनस्स्वभाय्यैस्सुतैस्सुखान्वितैः ॥

मुनीश्वरैः किं गमनं स्वपुर्याश्रोत्कण्ठभावो मिथिलाधिपस्य कः ॥ १७ ॥

भाषा—फेर विवाहसे विदा होके सेनासहित राजोंमें उत्तम जो दशरथ सो अपनी अपनी स्त्रियोंसहित पुत्रोंको सुखयुक्त मुनीश्वर सहित पुरी अयोध्याको आये सो क्या है और जनक विद्वल हुए सो क्या है ॥ १७ ॥

कः सौख्यवासो रघुनन्दनस्य राज्ञो विचारश्च पटाभिषेकः ॥

का मन्थरा तद्विपरीतचारिणी कलंकभावं च विचक्षणश्च किम् ॥ १८ ॥

भाषा—अयोध्यामें रामचंद्र सुखसे रहे सो क्या ह. दशरथको विचार तथा राज्य देना ये दोनों क्या हैं, रामके राज्यमें विद्व करनेवाली मन्थरा क्या है, कैकेयीको सिखाया ऐसा कलंक क्या है ॥ १८ ॥

का कूरबुद्धिर्भरतरस्य मातुर्विलापसिन्धुर्नृपतेर्मुने कः ॥

आज्ञा च का भूपतिसम्प्रदत्ता किं काननं कश्च रथो हयाश्च के ॥ १९ ॥

भाषा—भरतकी माताकी खोटी बुद्धि क्या है, दशरथको दुःखसमुद सरीके क्या है, दशरथने रामचंद्रको क्या आज्ञा दिया वन जानेकी जिस वनकूँ रामचंद्रजी गये वह वन क्या है रामचंद्रके रथ घोड़ा क्या हैं ॥ १९ ॥

को वै सुमंतो रुदनं च किं मुने रथस्य द्रव्याणि च कानि रंहः ॥

एतत्समाज्ञाहि द्विजेन्द्र निश्चितं का वै सरिद्या तमसेति शब्दिता ॥ २० ॥

भाषा—हे मुनि ! सुमंत सारथी कौन है, रामजीको वन जाने देखके रुदन हुआ सो क्या है, रथकी सामग्री क्या है, रथका वेग क्या है, हे मुनिजी ! यह संपूर्ण वार्ता निश्चय करिके कहो तमसा नदी क्या है ॥ २० ॥

तत्तीरवासो रघुनन्दनस्य को हयाशनं किम्पुरवासिनश्च के ॥

का तत्र निद्रा पुरवासिनाश्च किं रामवाक्यं भ्रमणं रथस्य ॥ २१ ॥

भाषा—तमसाके तीर रामचन्द्र बसेथे सो क्या है, घोड़ोंको क्या चारा खिलाया, पुरवासी कौन हैं पुरवासियोंके निद्रा आईं सो क्या है, रामकी वाक्य क्या है, रथभ्रमण किया सो क्या है ॥ २१ ॥

आन्त्वा पुनस्तद्मनं च किम्मुने निवर्तनं किम्पुरवासिनाम्पुनः ॥

पुरीं समागम्य विलापकारणं किं वेद दिग्वर्षकृतम्प्रमाणकम् ॥ २२ ॥

भाषा—रथके भ्रमण करके रामजी चलेगये सो क्या है पुरवासीलोग पीछे अयोध्यामें आये सो क्या है पुरवासी लोग अयोध्यामें आके विलाप किया सो क्या है और रामजीको बनवास चौदहवर्ष प्रमाण किया सो क्या है॥ २२॥

वनेचरः को रघुवीरमित्रः किं शृंगवेरं द्विज शिंशिपञ्च कः ॥  
किमासनं दर्भविनिर्मितम्मुने के ते कुशाः का च गुहस्य भावना २३॥

भाषा—हे ब्राह्मणजी ! वनमें भ्रमण करनेवाले रामजीका मित्र क्या है, शृंगवेरपुर शिंशिपा वृक्ष क्या है, यहने रामजीको कुशका आसन बना दिया सो क्या है कुश क्या है, यहकी भक्ति क्या है॥ २३॥

तिरस्कृतं यत्खलु लक्ष्मणेन वै किम्भूषणम्भूमिनिपातितं तथा ॥  
के भूषणा वस्त्रसमन्विता मुने त्यक्ताश्च ये राघवमूर्नुना वै ॥ २४॥

भाषा—जो गहना लक्ष्मणने अनादर करिके पृथिवीमें रखदिया सो क्या है, वो वस्त्र गहना क्या है जिसकूं दशरथके पुत्र रामजीने त्याग दिया ॥ २४॥

का सा जटायाविबबंध रामः का जाह्नवी पातकपुंजहारिणी ॥  
कः स्वप्रभावो रघुनन्दनस्य वा विदेहजायाससहितस्य भो मुने ॥ २५॥

भाषा—हे मुनिजी ! वो जटा क्या है जिसको रामजीने शिरपर बांधी बहुत पाप नाश करनेवाली गंगाजी क्या है, जानकीसहित रामजी सोये सो क्या है॥ २५॥

संवादसंजागरणौ द्वयोः कौ बभूवतुर्लक्ष्मणराममित्रयोः ॥

श्रीजाह्नवीतोयतटोर्मयः के का नौरुहस्यैव च वंशयष्टिः ॥ २६॥

भाषा—लक्ष्मण तथा रामजीका मित्र यह ये दोनों रातको जागे तथा वार्ता किया सो क्या हैं गङ्गाजीके तीर, जल और लहर क्या है नाव क्या है यहकी बांस क्या है खेवनेवाले क्या है॥ २६॥

किं तारणं किञ्च प्रयागकाननं का सा त्रिवेणी यमुना सरस्वती ॥

एकत्र संगं मिलिता प्रयागे या लोकलोकैः सततं विसेव्यते ॥ २७॥

भाषा—रामचंद्रको गुह गंगाके पार लेगया सो क्या है, प्रयागजीका वन क्या है, यमुना सरस्वती गंगा प्रयागमें इकट्ठा भई जिनकूँ सब लोक सेवन नित्य-प्रति करतेहैं सो त्रिवेणी क्या है ॥ २७ ॥

वटश्च को यः प्रलयेऽपि नाशं न याति कश्चिन्मुनिवर्य मे श्रुतम् ॥  
मुने भरद्वाजमुनिश्च को वै संसेवितो येन विदेहजापतिः ॥ २८ ॥

भाषा—हे मुनिश्रेष्ठ ! मैंने ऐसा सुना है कि प्रयागमें एक वटका वृक्ष है उसका नाश प्रलयमेंभी नहीं होता वह वट क्या है, भरद्वाज मुनि कौन हैं जिनोंने जानकीपतिका पूजन किया ॥ २८ ॥

प्रीत्या स्वयं लक्ष्मणजानकीभ्यां युतोऽतिप्रेम्णा मुनिभिस्समाहितः ॥  
को वै मुने स्नानविधिस्त्रिवेण्या कृतस्त्रिभी रामप्रियासहोदरैः ॥ २९ ॥

भाषा—प्रीतिसे अपने हाथसे प्रेम करके आदरसे मुनियोंको संग लेके लक्ष्मण जानकी सहित रामजीको पूजन किया त्रिवेणीमें जानकी लक्ष्मणसहित रामचंद्रने स्नान किया सो स्नानकी विधि क्या है ॥ २९ ॥

वाल्मीकिनान्नेति मुनिर्महामतिर्भविष्यवत्का मुनिसत्तमश्च कः ॥  
मंदाकिनी का सरितां वरा मुने कश्चित्कूटो मुनयश्च के ते ॥ ३० ॥

भाषा—अगाड़ी होनेवाली बात कहनेवाले बड़े बुद्धिमान् मुनियोंमें श्रेष्ठ ऐसे वाल्मीकि मुनि कौन हैं, नदियोंमें बड़ी मंदाकिनी नदी चित्रकूट पर्वत क्या है मुनिलोग कौन हैं ॥ ३० ॥

वनेचराः के रघुनन्दनप्रियाः कौ तौ कुटीरौ वसतिश्च तत्र का ॥  
किन्तत्र सौख्यं रघुनन्दनेन प्राप्तं प्रियाप्रातृसमन्वितेन ॥ ३१ ॥

भाषा—जो मुनि रामजीके बडे प्यारे वनमें विचरते हैं रामचंद्र लक्ष्मणकी दो पर्णकुटी बनी सो क्या हैं, इन दोनोंकी बात क्या है. लक्ष्मण जानकीसाहित चित्रकूटपर वास करनेसे क्या सुख प्राप्त हुआ ॥ ३१ ॥

युनसुमन्तागमनश्च किञ्च्चभो पुरीमयोध्यां सरयूसमन्विताम् ॥  
मृते नृपे कः प्रमदाविलापः के दूतवर्या मुनिना सुप्रेरिताः ॥ ३२ ॥

भाषा—हे प्रभुजी ! रामजीको विदा करिके सुमंत अयोध्यापुरीको आये सो क्या है, कैसी अयोध्या है सरयू नदी पास बहती है दशरथके मरण हुए पर श्रियोने रुदन किया सो क्या है, वसिष्ठजीने दूत भेजा सो दूत क्या है ॥ ३२ ॥

सद्योगताः केकयपत्तनं किं कः केकयेऽशो वचनं किमूचुः ॥

द्रुतं गृहीत्वा भरतं सहानुजं तौ द्वौ च कौ राजपुरीम्प्रयातौ ॥ ३३ ॥

भाषा—दूत शीघ्रही कश्मीरको गए सो कश्मीरनगर क्या है, कश्मीरका राजा कौन है, राजासे दूत क्या बोले, जलदीसे भरत शत्रुघ्नको लेके अयोध्यामें आये सो भरत शत्रुघ्न कौन हैं ॥ ३३ ॥

आश्वासितौ द्वौ मुनिना प्रचक्तुर्विरोदनं किञ्च किमाश्वसाशनम् ॥

किमूचुः कोशलनन्दिनीम्प्रति विभर्त्यामास किमुत्स्वमातरम् ॥३४॥

भाषा—वसिष्ठजीसे भरत शत्रुघ्नने विश्वास पायके रोते भए सो क्या है, वसिष्ठजीने विश्वास दिया सो क्या है, भरत शत्रुघ्न कौशल्यासे क्या बोले और अपनी जो माता कैकेयी उसको त्रास दिया सो क्या है ॥ ३४ ॥

किं च प्रयाणं भरतेन वै कृतं सैन्यमत्रानुजबांधवैस्सह ॥

गुहेन संवादनिवासनौ च कौ स्वसैन्यविश्वासनमेव किमुने ॥

सुखेन गंगोत्तरणं किमद्भुतं प्रयागराजे मुनिसादरं च किम् ॥ ३५ ॥

भाषा—माता गुरु कुदुंब सेनासहित भरत रामके पास चले सो क्या है, गुहके संग भरतका संवाद हुवा तथा गुहने भरतको डेरा दिया और अपनी सब सेनाको विश्वास दिया सुखसे गंगाके पार भये प्रयागमें भरद्वाज मुनिने सेनासहित भरतकी मिहमानी किया ये सब क्या हैं ॥ ३५ ॥

इति श्रीवेदान्तरामायणे बालकांडे शिवसहायबुधविरचिते संवर्तवरतंतुसंवादे भर-  
तागमने भरद्वाजाश्रमनिवासो नाम द्वितीयो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ २ ॥

### संवर्त उवाच ॥

किं चित्रकूटे च समागममुने परस्परं किं वचनं च तेषाम् ॥

के पादुके पादतलावरक्षिते श्रीरामदत्ते भरताय निर्मले ॥ १ ॥

भाषा—संवर्त सुनि पूँछते भये हे मुनिजी ! चित्रकूटपर सब मंडलीको मिलाप राम आदि लेके भरत वसिष्ठ और जो आये थे जिन्होंने आपुसमें बोले सो क्या हैं, रामजीने अपनी पादुका भरतकूँ दिया सो क्या हैं कैसी पादुका हैं पगकी रक्षा करनेवाली परम सुंदर हैं ॥ १ ॥

ये धृत्वा शिरसा प्रेमणा ससैन्यो गुरुणा सह ॥

शटुम्भेन युतश्शीघ्रं पुनरायात्पुरीम्प्रति ॥ २ ॥

भाषा—जो पादुका भरतने प्रेमसे अपने शिरपर धरके वसिष्ठ शत्रुघ्न फौज संग लेके फिर अयोध्या पुरीको आये सो क्या है ॥ २ ॥

भरतस्य च का सेना यामादायागतः पुनः ॥

नन्दियामञ्च किम्प्रोक्तं पादुकासेवनं च किम् ॥ ३ ॥

भाषा—रामजीके पाससे फौज संग लेके भरतजी फिर अयोध्यामें आये सो फौज क्या है, नन्दियाम क्या है, पादुका सेवन भरतने किया सो क्या है ॥ ३ ॥

किमयोध्यापुरीराज्यं चकार भरतस्मुद्धीः ॥

किम्प्रजारक्षणं विप्र किं मृगाहरणं गिरौ ॥ ४ ॥

भाषा—बडे बुद्धिमान् भरत अयोध्याका राज किया सो क्या है, हे मुनिजी ! भरतने प्रजाकी रक्षा किया सो क्या है ॥ ४ ॥

रामेण लक्ष्मणेनैव चित्रकूटे कृतम्भुने ॥

किं जयन्तापराधं च जानकीचरणार्दनम् ॥ ५ ॥

भाषा—राम लक्ष्मण दोनों चित्रकूटपर नित्य मृग मारते रहे सो क्या है, जानकीके पगमें जयन्तनाम कागने चोंच मारा सो क्या है ॥ ५ ॥

रामेण त्यक्तः को बाण किमेकाक्षिनिपातनम् ॥

किं जयंतस्य भ्रमणं राक्षसागमनं च किम् ॥ ६ ॥

भाषा—रामजीने जयन्तको मारनेके बास्ते बाण छोड़ा सो क्या है, जयंतकी एक आंख काणी कर दिया सो क्या है, काकने सब लोकोंमें फिरता फिरा सो क्या है, चित्रकूटपर बहुत राक्षस आनेको लगे सो क्या है ॥ ६ ॥

उद्देगश्च मुनीनां को येन तत्याज राघवः ॥

चित्रकूटस्य किं त्यागः कोऽत्रिस्तस्याश्रमं च किम् ॥ ७ ॥

भाषा—मुनि लोगोंको दुःख भया सो क्या है, जिस दुःखसे चित्रकूटकूं रामजी त्यागते भये सो क्या है; अत्रिमुनि कौन हैं, अत्रिका आश्रम क्या है ॥ ७ ॥

अनसूया च का देवी जानकी शिक्षिता यया ॥

पूजनं रामचंद्रस्य किमत्रिः कृतवान्मुने ॥ ८ ॥

भाषा—अत्रिकी श्री अनुसूयादेवी जिन्हेंने जानकीको पतिव्रता धर्म सिखाया सो क्या है, रामजीका पूजन अत्रिमुनिने किया सो क्या है ॥ ८ ॥

को विराधो महाकूरो जानकी येन संहृता ॥

शीत्रं जघान यं रामो बाणेऽदृष्टिकृन्तनैः ॥ ९ ॥

भाषा—विराध नाम राक्षस कौन है, जो जानकीको हर लेगया जिसको राम-जीने शीत्र बाणोंसे शरीर काटके मार डाला ॥ ९ ॥

मोक्षं प्राप तदा रक्षशरभङ्गो मुनिश्च कः ॥

किन्ध्यानं स्तवनं का च चिता तस्य स्वमाश्रमे ॥ १० ॥

भाषा—तब राक्षस मोक्षकूं गया सो क्या है, शरभंग मुनिने रामजीका ध्यान स्तुति करके अपने घरपर चिता बनायके स्वर्गको गया सो कौन है ॥ १० ॥

कोऽग्निर्ददाह तं यस्तु कस्तुतीक्ष्णो महामुनिः ।

तेन संभाषणं किञ्च कः कुंभजसहोदरः ॥ ११ ॥

भाषा—शरभंगको जो अग्निने जलाया सो अग्नि क्या है सुतीक्ष्णमुनि कौन हैं सुतीक्ष्ण रामजीका संवाद भया सो क्या है, अगस्त्य मुनिके भाई क्या हैं ॥ ११ ॥

कोऽगस्त्यः का च तत्पत्नी लोपामुद्रा मुनीश्वर ॥

किं रामागस्त्यसंवादं धनुरैन्द्रं च किमुने ॥ १२ ॥

भाषा—हे मुनिजी ! अगस्त्य मुनि कौन हैं, अगस्त्यकी श्री लोपामुद्रा

जिसका नाम सो कौन है, हे मुनिजी ! रामजीको और अगस्त्य मुनिको संवाद हुवा सो क्या है इंद्रका धनुष क्या है ॥ १२ ॥

**प्राप्तं रामेण तत्रैव सरिद्वोदावरी च का ॥**

**के तत्तीरजले शुश्रे कुटीरौ कौ च द्वौ तयोः ॥ १३ ॥**

भाषा—जो धनुष रामजीको अगस्त्य मुनिने दिया सो क्या है गोदावरी नदी क्या है, गोदावरीका तट जल क्या है, रामचंद्र लक्ष्मणकी दो पर्णकुटी ये क्या हैं ॥ १३ ॥

**ज्ञानस्य का कथा तत्र रामचन्द्रेण वर्णिता ॥**

**लक्ष्मणं प्रति भो देव सुखेन वसताऽनिशम् ॥ १४ ॥**

भाषा—हे मुनिजी ! सुखसमेत ठहरे जो राम हैं सो वारंवार लक्ष्मणकूर्म ज्ञानकथा कही सो क्या है ॥ १४ ॥

**दुःखिता केन कामेन रावणस्य सहोदरा ॥**

**आगता स्वपतिं कर्तुं श्रीरामं रतिवल्लभा ॥ १५ ॥**

भाषा—रावणकी बहिनी रतिकूर्म प्यारी मानिके रामचंद्रको अपना पति बनानेके बास्ते कामसे दुःखित होके आई सो काम क्या है ॥ १५ ॥

**रामेण ब्राह्मिता तत्र सा ययौ लक्ष्मणान्तिकम् ॥**

**का ब्रह्मिस्तस्य रामेण कृता तस्यातिहास्यतः ॥ १६ ॥**

भाषा—रामजीके बचनकूर्म मानके लक्ष्मणके पास गई तिस राक्षसीके संग हास्य करके इधर उधर भ्रमाते भये सो क्या है ॥ १६ ॥

**तस्याः के नासिकाकर्णे ये च्छन्ने लक्ष्मणेन वै ॥**

**किं तद्विधिरवृन्दं च रक्तांगी येन संकृता ॥ १७ ॥**

भाषा—शूर्पणखाके नाक कान लक्ष्मणने काट लिये सो नाक कान क्या हैं, बहुत रक्त आया जिस रक्तसे शूर्पणखाकी देह लाल होगई ॥ १७ ॥

**तरसा गमनं तेषां किन्तयोक्तम्बचश्च किम् ॥**

**हृता रामेण ते सर्वे सर्वेन्या राघवेण वै ॥ १८ ॥**

भाषा—खर दूषण त्रिशीरा इन्होंकूँ शूर्पणखा क्या वचन कहती भई राक्षस-लोग बहुत जलदी रामजीसे युद्ध करनेको आये सो क्या है, सेनासहित राम-जीने सब राक्षसोंका नाश किया सो क्या है ॥ १८ ॥

भयाद्यां जानकी प्राप्ता सा गुहा का मुनीश्वर ।

सहोदर्या सभां गत्वा रावणस्य च सन्निधौ ॥

यज्ञोक्तं वचनं किन्तव्यछृत्वा राक्षसोत्तमः ॥ १९ ॥

भाषा—हे मुनिजी ! भयसे रामजीने जानकीको गुहामें भेजी सो गुहा क्या है, रावणकी बहिनीने रावणकी सभामें जाय रावणके सामने खड़ी होके जो वचन बोली सो क्या है, तिस वचनकूँ सुनके राक्षसोंमें उत्तम जो रावण है ॥ १९ ॥

कः कामो मोहितो येन मारीचान्तिकमाययौ ॥

कः संवादो द्वयोस्तत्र को मृगो यस्य रूपधृक् ॥ २० ॥

भाषा—तुरंत कापसे मोहित हुवा सो काम क्या है मारीचके सामने रावण गया सो मारीच रावणसंशाद क्या है, और मारीचने मृगको रूप धारण किया सो मृग क्या है ॥ २० ॥

किं विचित्रमृगतनौ चंचला का गतिर्मुने ॥

को मोहो रामचन्द्रस्य वैदेहीलोभनं च किम् ॥ २१ ॥

भाषा—हे मुनिजी ! मृगके शरीरपर चित्रविचित्र क्या रहा, मृगका बहुत आगना क्या है मृगको देखके रामजी मोहित भये सो मोह कौन है और जानकीको लोभ हुवा सो क्या है ॥ २१ ॥

निवारणं च सौमित्रेः रामचन्द्रस्य किम्मुने ॥

हतो रामेण तेनोक्तं किं लक्ष्मण इतीरितम् ॥ २२ ॥

भाषा—रामचंद्रको लक्ष्मणने मना किया मत जावो ये मृग नहीं राक्षस है सो क्या है, रामजीने मारीचको मात्या सो जमीनमें पड़ते बखत मारीचने हा लक्ष्मण ! ऐसा बोला सो क्या है ॥ २२ ॥

जानकीलक्ष्मणस्यैव किं विवादं च निष्ठुरम् ॥  
सौमित्रौ विगते दूरे किं धृतं रावणेन वै ॥ २३ ॥

**भाषा—**जानकी लक्ष्मणका बहुत विवाद हुआ सो क्या है, लक्ष्मणको दूर गया जानके रावणने रूप धारण किया सो क्या है ॥ २३ ॥

परिव्राजकवेषं च किं तत्साहित्यमंडलम् ॥  
वैदेह्या कानि दत्तानि कंदमूलानि साधवे ॥ २४ ॥

**भाषा—**संन्यासीको भेष रावण बनायके जानकीके पास आया गेहुका कपड़ा विभूति कमंडलु आदि और जो संन्यासीलोग धारण करते हैं सो रावणने क्या धारण किया जानकीने साथु जानके कंद मूल फल दिया सो क्या है ॥ २४ ॥

संवादः कूरवचसा कस्तत्र मुनिसत्तम् ॥

जानकी स्वरथे स्थाप्य गन्तुकामस्त्वपत्तनम् ॥ २५ ॥

**भाषा—**हे मुनिजी ! जानकीको खोटी बात रावणने कही रावणकूं खोटी बात जानकीने कही सो क्या है, जानकीको रावणने अपने रथपर बैठायके लंकाको ले चला सो क्या है ॥ २५ ॥

को गृद्धस्तस्य को तुंडौ पक्षौ च रावणादितौ ॥

पातितो रावणेनैव जानकीं हृत्य संगतः ॥ २६ ॥

**भाषा—**जिस गृद्धके पक्ष चोंचको रावणेन काटके जमीनमें गिरा दिया जानकीको लेके लंकाकूं गया सो गीध कौन है ॥ २६ ॥

का दास्यस्तस्य दुष्टस्य यासाम्मध्ये च जानकी ॥

स्थापिता रक्षणं तत्र किं कृतं रक्षसीगणैः ॥ २७ ॥

**भाषा—**रावणदुष्टकी दासी क्या हैं, जिन दासियोंके बीच जानकीको बैठाया रक्षसियोंने जानकीकी क्या रक्षा किया ॥ २७ ॥

जानकीहरणं दृढ़ा रामलक्ष्मणयोरपि ॥

को विलापो मुनिश्रेष्ठं गृद्धसन्तारणं च किम् ॥ २८ ॥

भाषा—हे मुनिराज ! जानकीको हरी देखके राम लक्ष्मणने विलाप किया तथा गीथको संसारसे तारते भये सो क्या है ॥ २८ ॥

कः कबंधो भुजौ तस्य यौ रामेण निपातितौ ॥

का चिता तस्य को दाहः कवंधवचनं च किम् ॥ २९ ॥

भाषा—कबंध नाम राक्षस कौन है, कबंधकी भुजा क्या है, जिस भुजाकूँ रामजी काटते भए और कबंधको जलाने वास्ते रामजीने चिता बनाया सो क्या है कबंधने रामजीसे बचन बोला सो क्या है ॥ २९ ॥

येनोत्तो रामचन्द्रस्तु तत्क्षणे शबरीङ्गतः ॥

का सा मुनिवरश्रेष्ठ यार्चित्वा रघुनन्दनम् ॥

कथित्वा कपिसद्वावं कां गतिम्प्रापिता सती ॥ ३० ॥

भाषा—जिस बचनकूँ मानके रामजी उसी समय शबरीके पास गये हे मुनिजी ! सो शबरी क्या है, जो शबरी रामजीको पूजन करिके तथा रामजी-को कहा आप सुग्रीवकूँ मिलोगे तो सब काम हो जायगा ऐसा कहिके किस लोककूँ गई ॥ ३० ॥

का पंपा नलिनीश्रेष्ठा कस्सरश्च तदुद्धवः ॥

का किञ्चिकन्धा पुरी रव्याता के ते वै कपयस्समृताः ॥ ३१ ॥

भाषा—तलाइयोंमें बड़ी जो पंपानाम तलाई सो क्या है, उसी पंपा तलाईसे निकला जो पंपानाम तलाव सो क्या है, किञ्चिकन्धा पुरी क्या है, जो कपियोंने रामजीकी सहायता किया ये सब बंदर कौन हैं सो निश्चय करके कहो ॥ ३१ ॥

को वालिः कश्च सुग्रीवो जाम्बवान् हनुमांस्तथा ।

नलनीलादयः सर्वेऽप्यंगदाद्याः कपीश्वराः ॥ ३२ ॥

भाषा—वाली सुग्रीव, जाम्बवान्, हनुमान्, नल, नील अंगद आदि बड़े बड़े बलवान् बंदर ये सब कौन हैं ॥ ३२ ॥

तारारूमे च के रव्याते दुन्दुभिः कश्च राक्षसः ॥

का सा गुहा दुन्दुभेश्च सुग्रीवो यत्र संस्थितः ॥ ३३ ॥

भाषा—तारा रुमा ये दोनों कौन हैं, दुंदुभी नाम राक्षस कौन है, दुंदुभीकी गुफा क्या है, जिसके दरवजेपर सुग्रीव खड़ा रहा ॥ ३३ ॥

को मासश्च कपेर्वासः किं सृतज्ञानमेव च ॥

का राज्यप्राप्तिस्मुग्रीवे किं सुखं प्रापितश्च तत् ॥ ३४ ॥

भाषा—एक महीना सुग्रीव गुफाके द्वारपर खड़ा रहा सो महीना क्या है, बालि मरगया ऐसा सुग्रीवने जाना सो क्या है, सुग्रीवको राज मिला तिसका सुख भया सो क्या है ॥ ३४ ॥

को दुन्दुभिवधश्चैव वालिनिर्यापणं च किम् ॥

सुग्रीवस्य प्रवासं च कृतं तद्वालिना च किम् ॥ ३५ ॥

भाषा—दुंदुभीको बालीने मारा मारके अपने घरकूँ आया ये दोनों क्या हैं, सुग्रीवको बालीने घरसे निकाल दिया सो क्या है ॥ ३५ ॥

किं सुग्रीवस्य भ्रमणं को मातंगो मुनिस्तथा ॥

किं शिरो वालिनाक्षितं सरक्तं मुनिमंडले ॥ ३६ ॥

भाषा—सब देश सुग्रीव फिरा सो क्या है, मातंगमुनि कौन हैं, मुनिकी पर्ण-कुटीके सामने बालीने रक्षसहित राक्षसका शिर फेंका वो शिर क्या है ॥ ३६ ॥

को रक्तो रंजितं येन मुनेराथ्रममण्डलम् ॥

कः शापो मुनिना दत्तो भूधरः कः प्रवर्षणः ॥ ३७ ॥

भाषा—जिस रक्षसे मुनिकी पर्णकुटी भष्ट हुई सो रक्त क्या है मुनिने बालीको शाप दिया सो क्या है, प्रवर्षण नाम पर्वत सो क्या है ॥ ३७ ॥

सुग्रीवक्य च को वासो गिरौ मंत्रिगणैः सह ॥

रामचन्द्रमिलापः को भूषणं वसनं च किम् ॥ ३८ ॥

भाषा—प्रवर्षण ऊपर सुग्रीव बसते थे सो वास क्या है, राम सुग्रीवकी मित्रता हुई सो क्या है, गहना वस्त्र क्या हैं ॥ ३८ ॥

त्यक्तं मैथिलराजस्य कन्यया किं प्रदर्शितम् ॥

का प्रतिज्ञा वालिवधे रामचन्द्रेण वै कृता ॥ ३९ ॥

भाषा—जो जानकीने सुश्रीवकूं देखके गहना वस्त्र त्याग दिया वह गहना वस्त्र सुश्रीवने रामजीको दिखाया सो क्या है, वालीको मारनेवास्ते रामजीने प्रण किया सो क्या है ॥ ३९ ॥

जानकीशोधने चैव कपिना का कृता मुने ॥

के सप्ततालाः किं शुष्कं दुन्दुभेः शिर एव च ॥ ४० ॥

भाषा—हे मुनिजी ! जानकीके शोधनेवास्ते सुश्रीवने प्रण किया सो क्या है, सात तालके वृक्ष तथा दुन्दुभीका सूखा शिर क्या है ॥ ४० ॥

किमंगुष्ठं किमद्वयं यमाश्रित्य रघूत्तमः ॥

जघान कपिराजं वै द्वंद्युद्धकरं शठम् ॥ ४१ ॥

भाषा—रवुंशरमें श्रेष्ठ रामजीने जिस अंगूठेसे दुन्दुभीके शिरको उठायके दूर फेंक दिया सो अंगूठा क्या है जिस वृक्षकी आडमें होकर रामजीने दोके संग युद्ध करनेवाला शठ ऐसे वालीको मार डाला वो वृक्ष कौन है ॥ ४१ ॥

का पुष्पमाला तत्रासीत् चिह्नितो विहतो यया ॥

तारांगदविलापः कः का वालिदुहनक्रिया ॥ ४२ ॥

भाषा—जिस फूलकी माला सुश्रीवको पहराया पिछानके वास्ते फिर रामजीने युद्ध करनेकूं भेजा सो माला क्या है तारा अंगदको विलाप तथा वालिकी दाह-क्रिया क्या है ॥ ४२ ॥

सुश्रीवराज्यप्राप्तिः का तस्य किम्मदवर्द्धनम् ॥

रामस्य गिरिवासः को लक्ष्मणेन युतस्य च ॥ ४३ ॥

भाषा—सुश्रीवको राज मिला सो क्या है, राज मिलनेसे अभिमान भया सो क्या है, रामजी लक्ष्मणसहित पर्वतपर बसे सो क्या है ॥ ४३ ॥

के चत्वारो गता मासा वार्षिकाः सुमनोहराः ॥

विलापो रामचन्द्रस्य पुनः को जानकीकृते ॥ ४४ ॥

भाषा—सुंदर मनको हरण करनेयोग्य ऐसे जो चारमास वर्षा क्रतुके गये सो क्या हैं फिर जानकीके वास्ते रामचंद्रजीने विलाप किया सो क्या है ॥ ४४ ॥

सुग्रीवत्रासनं किं च लक्ष्मणेन कृतं तथा ॥

राघवान्तिकमागत्य प्रेरयामास सो कपीन् ॥ ४५ ॥

भाषा—लक्ष्मणजीने सुग्रीवको त्रास दिया सो क्या है सुग्रीवने रामजीके सामने आयके कपियोंको भेजा सो क्या है ॥ ४५ ॥

चतुर्दिश्कु महावीरान्सुग्रीवस्तत्त्वं किम्मुने ॥

किमंगुलीयकन्दत्तं रामेण वायुजे कपौ ॥ ४६ ॥

भाषा—बडे बली वानरोंको चारों दिशाको सुग्रीवने भेजा सो क्या है, राम-जीने हनुमानकूँ मुंदरी दिया सो क्या है ॥ ४६ ॥

इति श्रीवैदान्तरामायणे बालकाण्डे शिवसहाय्यबुधविरचिते सीताशोधने तृतीयो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ ३ ॥

### संवर्त उवाच ।

कावधिर्मासिका दत्ता शोधित्वा च त्रयो दिशः ॥

अप्राप्तिं पुनराचर्व्युर्जनक्यास्तत्त्वं किम्मुने ॥ १ ॥

भाषा—सम्वर्तसुनि फिर पूँछते हैं कि सुग्रीवने सब वानरोंको एक मासका प्रमाण करके भेजा सो क्या है, कपियोंने तीन दिशा शोधके आय कहा कि जानकी नहीं मिली सो क्या है ॥ १ ॥

योगिनी का समाख्याता पातालविवरं च किम् ॥

कः सम्पातिः पक्षिराजो यद्वाक्यमनुमान्य च ॥ २ ॥

भाषा—हनुमान आदि वानरोंको योगिनी मिली सो क्या है, पातालका रस्ता देख पड़ा सो क्या है, संपाति गीध पक्षियोंका राजा क्या है, जिसके बचन हनुमानजीने माने ॥ २ ॥

यदा रुरोह हनुमान्समुद्गलं घनोद्यतः ॥

सगिरिः को पदापीङ्घ पारं गन्तुं मनो दधे ॥ ३ ॥

भाषा—जिस परबतको हनुमान् चढ़ते भए पगसे दाबिके समुद्रको कूदके उस पार जानेको विचार किया सो पर्वत क्या है ॥ ३ ॥

सिंहिका का जलचरा छाया का वा हनुमतः ॥

मारिता क्रोधयुक्तेन वीरेण मुष्ठिना कथम् ॥ ४ ॥

भाषा—जलमें रहनेवाली सिंहिका क्या है हनुमानकी छाया क्या है और क्रोध करके हनुमान् वीरने हाथकी मुष्ठी बांधके मारा सो मुष्ठी क्या है ॥ ४ ॥

सुरसा का समाख्याता द्रयोः किम्मुखवर्द्धनम् ॥

किम्प्रविश्य गतः पारं विचारं किं हनुमतः ॥ ५ ॥

भाषा—सुरसाने मुख बढ़ाया और हनुमान् जीने देह बढ़ाया सो दोनों क्या हैं, सुरसाके मुखमें बैठके हनुमान् समुद्रके पार गये सो मुख क्या है ॥ हनुमान् ने सिंधुके दक्षिण तीर बैठके विचार किया सो क्या है ॥ ५ ॥

किं धृतं लघुरूपं च का लंका मुष्ठिपातनम् ॥

विलोकिता समस्ता पूर्ण दृष्टा जानकीति किम् ॥ ६ ॥

भाषा—हनुमानने छोटा रूप धारण किया सो क्या है, हाथकी मुष्ठी बांधके लंकानाम राक्षसीको मारा सो क्या है, तमाम लंकापुरीमें हनुमान् फिरे जानकीकूँ नहीं देखे सो क्या है ॥ ६ ॥

पश्चादृष्टा जनकजा किं तरस्थेन तेन वै ॥

किमागमनवेगञ्च रावणस्य तदा मुने ॥ ७ ॥

भाषा—हे मुनिजी ! पीछे वृक्षपर बैठके जानकीकूँ देखे सो क्या है, तब शीघ्र रावण आया सो क्या है ॥ ७ ॥

गते दुष्टे राक्षसीभिस्तर्जनं किं कृतन्तथा ॥

त्रिजटाश्वासृनञ्चके जानक्याः किं तदामुने ॥ ८ ॥

भाषा—हे मुनिजी ! रावण दुष्टके गये पीछे राक्षसियोंने जानकीको ढरवाती भईं सो क्या है त्रिजटाने जानकीकूँ विश्वास दिया सो क्या है सो कहो ॥ ८ ॥

किमूचे रामचरितं हनुमान्तरसंस्थितः ॥

तेनोक्तं वचनं श्रुत्वा विश्वासं प्राप सा च किम् ॥ ९ ॥

**भाषा—**वृक्षपर बैठके रामजीके चरित्रकूँ हनुमान् कहने लगे तथा कपिकी वाक्य सुनके जानकीके मन विश्वास भया ये दोनों क्या हैं ॥ ९ ॥

**दत्तांगुलीयं संगृह्य संवादमभवत्योः ॥**

**का सा क्षुधा ययातौऽभूद्धनुमान्कपिसत्तमः ॥ १० ॥**

**भाषा—**रामजीकी मुंदरी हनुमानने जानकीको दिया जानकी लेके खुसी भई दोनों माता पुत्र बात करनेलगे सो क्या है जिस भूखसे हनुमान् दुःखी भए वह भूख क्या है ॥ १० ॥

**किं फलन्तरवः के च भक्षित्वोत्पाटितास्तथा ॥**

**राक्षसीभिः किमुक्तश्च रावणो मानगर्वितः ॥ ११ ॥**

**भाषा—**जो फल हनुमानने खाये वृक्षोंको तोडे सो फल और वृक्ष क्या हैं। रावणको राक्षसियोंने क्या कहा ॥ ११ ॥

**प्रेरयामास तनयं स्वस्याक्षं राक्षसोत्तमः ॥**

**हतो हनुमताक्षश्च बद्धश्चेद्रजिता च कः ॥ १२ ॥**

**भाषा—**राक्षसोंमें उत्तम जो रावण है सो अपने अक्ष नाम पुत्रको भेजता हुआ तिस अक्षको हनुमानजीने मारडाला सो क्या है इन्द्रजीतने हनुमानके बांधा सो क्या है ॥ १२ ॥

**लंकाविदाहनं किञ्च ताडनम्पुच्छबंधनम् ॥**

**प्रमणं हसनं चैव किन्तौलं रज्जु किम्मुने ॥ १३ ॥**

**भाषा—**हनुमानकी पूँछ बांधते भये, सारी लंकापुरीमें फिराय हंसी किये और तेल रसी कपड़ा ये सब क्या हैं ॥ १३ ॥

**कोक्तिर्दशाननस्यैव वीरस्यैव बभूव ह ॥**

**राक्षसीनां प्रलापं किं किम्पुच्छशीतलन्तथा ॥ १४ ॥**

**भाषा—**रावणकी हनुमानकी बाँतें भई सो क्या हैं, लंका जलती देखके राक्षसियोंने विलाप किया सो क्या है, हनुमानने पूँछ बुझायके ठंडी किया सो क्या है ॥ १४ ॥

जानक्या या मणिर्दत्ता रामविश्वासकारणे ॥

गृहीता कपिना सो का जानक्याश्वासनञ्च किम् ॥ १६ ॥

भाषा—रामजीको विश्वास होनेवास्ते हनुमान् कूँ मणि जानकीने दिया सो क्या है, कपिने मणिलेके जानकीको विश्वास दिया सो क्या है ॥ १६ ॥

किम्पुनर्लंघनं सिन्धोरङ्गदाश्वासनं च किम् ॥

किं तन्मधुबनं शुद्धं तैः फलं किम्प्रभाक्षितम् ॥ १७ ॥

भाषा—फिर हनुमान् समुद्र कूदके पार उतर आये सो क्या है अंगदको आश्वास किया सो क्या है. सुंदर सुश्रीवके मधुबनमें प्रवेश करके कपियोंने फल खाये सो मधुबन क्या है ॥ १७ ॥

तर्जिता वनपाः के च कपीशाय निवेदनम् ॥

को हर्षः कपिराजस्य रामप्रश्नं च किम्मुने ॥ १८ ॥

भाषा—बनके रखवालोंको मारा वे सुश्रीवसे जा पुकारे सुश्रीवको हर्ष भया सुश्रीवसे रामजीने पूँछा ये सब क्या हैं ॥ १८ ॥

आगत्य हनुमानूचे तस्याप्यादरभावना ॥

सेनासंयोजना का च समुद्रतटसंस्थितिः ॥ १९ ॥

भाषा—हनुमान् आयके सब हाल रामजीसे कहे हनुमान् का आदर राम-जीने क्या किया फौजको इकड़ी करके चलते हुए सो क्या है, समुद्रके तीर सेनासहित रामजीने डेरा किया सो क्या है ॥ १९ ॥

विभीषणस्य धिक्कारः किं कृतं रावणे वै ॥

के विभीषणमंत्रज्ञास्तैः सार्द्धं रामसन्निधिम् ॥ २० ॥

भाषा—रावणने विभीषणको कहा कि तेरेको धिक्कार है ऐसी बानी क्या है विभीषणका मंत्री कौन है जिनोंको संग लेके रामजीके पास आये ॥ २० ॥

आययौ कपयश्चकुः किन्तस्य विनिवारणम् ॥

विभीषणाय किं दत्तं राज्यं रामेण वै तदा ॥ २० ॥

भाषा—आया जब कपियोंने आने नहीं दिया सो क्या है, तब रामजीने विभीषणको राज दिया सो क्या है ॥ २० ॥

समुद्रतरणे चैव को विचारश्च तैः कृतः ॥

किं च दर्भासनन्तत्र त्रिदिनं राघवस्य ह ॥ २१ ॥

भाषा—समुद्रके पार जानेके वास्ते विचार किया सो क्या है, हे मुनिजी ! रामजीका कुश आसन क्या है ॥ २१ ॥

त्यक्ता मूलफले रामो निराहारो वभूव च ॥

किम्मूलं किम्फलं चैव किमयाचत सागरम् ॥ २२ ॥

भाषा—मूलफलको रामजीने त्यागिके निराहार रहे सो मल फल क्या हैं, समुद्रसे रामजीने याचना किया सो क्या है ॥ २२ ॥

कः क्रोधो रामचंद्रस्य किं सागरविशोषणम् ॥

के वै जलचराः सर्वे व्यथिताः शरकर्पणे ॥ २३ ॥

भाषा—रामजीने क्रोध किया सो क्या है, समुद्रकू शोष लेनेकू मन किया सो क्या है, समुद्रशोषणे वास्ते धनुषपर बाण चढायके खेंचा तब जलजीव बहुत दुःख पाये सो क्या है ॥ २३ ॥

किं सागरधृतं रूपं ब्राह्मणस्यातिकौतुकम् ॥

का पात्री के च ते रत्नाः समानीताश्च सिन्धुना ॥ २४ ॥

भाषा—समुद्रने तमाशा सरीके ब्राह्मणका रूप धारण किया सो क्या है, सिंधु थालीमें रब धरिके रामजीकी विनती किया सो रब तथा थाली ये सब क्या हैं ॥ २४ ॥

स्तवनं किञ्चकाराशु रामचंद्रस्य सागरः ॥

कश्चोत्तरतटस्थश्च सिन्धुशङ्कर्निपातितः ॥ २५ ॥

भाषा—समुद्रने रामजीकी स्तुति किया सो क्या है, समुद्रके उत्तर तीरमें समुद्रका बैरी सो रामजीने मारा सो क्या है ॥ २५ ॥

कः सेतुः कश्च पाषाणः के चान्ये सेतुबन्धने ॥

साहित्याश्रैव रामेण दुःखितेन सुखाय च ॥ २६ ॥

भाषा—बडे दुःखी रामजीने सुख होनेवास्ते पुल बांधते भए सो पुल क्या है, पुलकी सामग्री क्या है ॥ २६ ॥

कश्च रामेश्वरो देवः स्थापितः पूजितोनिशम् ॥

किं सैन्योत्तारणं तस्य का सेना गणना तथा ॥ २७ ॥

भाषा—रामजीने अपना कुलदेव जानके रामेश्वरजीकी स्थापन किया और बारंबार पूजन किया सो क्या है, फौजकूँ समुद्रके पार जाना तथा गिनती किया सो क्या है ॥ २७ ॥

कः सुवेलो गिरिर्ब्रह्मन् सैन्यानां का स्थितिस्तथा ॥

चतुर्षु द्वारदेशेषु लंकायाश्च चतुर्दिशः ॥ २८ ॥

भाषा—हे ब्राह्मणजी ! सुवेल पर्वत और सुवेलके ऊपर फौज टिकी ये दोनों क्या हैं, लंकाके चारों तरफ तथा चारों दरवाजोंको रोका सो क्या है ॥ २८ ॥

रोधनं किम्मुने ब्रूहि कोतरे राघवस्थितिः ॥

किं युद्धं रावणादीनां राक्षसानां परस्परम् ॥ २९ ॥

भाषा—हे मुनिजी ! चारों दरवाजोंको धेर लेते भए सो क्या हैं, उत्तर दरवाजापर रघुनंदन आप खडे हुए सो क्या हैं, रामजीके तथा रावण आदि गिणती नहीं जिन राक्षसोंकी जिसमें परस्पर युद्ध बहुत भया सो क्या है ॥ २९ ॥

कपीनां रामचन्द्रेण प्रेरितानां मुहुर्मुहुः ॥ (?)

रामस्य लक्ष्मणस्यैव राक्षसैश्च महाहवम् ॥ ३० ॥

भाषा—रामजीकी आज्ञा पायके बानरों तथा राक्षसोंका बडा प्रलय युद्ध भया तथा रामलक्ष्मणसे और राक्षसोंसे बडा युद्ध भया सो क्या है ॥ ३० ॥

किं शिरोवर्द्धनं छिन्ने रामेण रावणस्य च ॥

का माया राक्षसेन्द्रेण संग्रामे दीर्घिता मुहुः ॥ ३१ ॥

भाषा—बारंबार रामजीने रावणका शिर काटकाटके जमीनमें पट दिया और

रावणके शिर फिर दूसरे तैयार होते भए उसीतरह शिरोंकी वृद्धि. होती भई सो क्या है, युद्धमें रावणने बहुत माया दिखाई सो माया क्या है ॥ ३१ ॥

का निद्रा कुंभकर्णस्य किं वै जागरणं तथा ॥

शत्र्या विचातिते तत्र लक्ष्मणे पतिते क्षितौ ॥ ३२ ॥

भाषा—कुंभकर्णकी निद्रा क्या है, रावणने कुंभकर्णको जगाया सो क्या है, इन्द्रजीतने लक्ष्मणको शक्तिसे मारा लक्ष्मण भूमिपर पड़गये सो क्या है ॥ ३२ ॥

को रामस्य विलापश्च कपीनाञ्चैव सर्वशः ॥

कः सुषेणो गिरिद्रोणो को मार्गः कश्च तापसः ॥ ३३ ॥

भाषा—तब रामजीने और सब वानरोंने बड़ा विलाप किया सो क्या है, सुषेण तथा द्रोणपर्वत क्या है, जिसके मार्गमें राक्षस कपटमुनि होके हनुमान्को विनाश करने वास्ते बैठा सो रास्ता और मुनि कौन हैं ॥ ३३ ॥

किं कमंडलुतोयं च दर्शितस्तेन कः शरः ॥

का छाया कपिना मृत्युं प्राता का गुरुदक्षिणा ॥ ३४ ॥

भाषा—दुष्ट मुनिने हनुमान्को अपने कमंडलुका जल देने लगा सो जल तथा कमंडल क्या है, हनुमान्ने कमंडलुका जल नहीं पिया तो दुष्टने तलाव बताया सो तलाव क्या है, हनुमान् तलावमें जल पीने लगे तो छाया हनुमान्के खाने वास्ते आई उसको हनुमान्नने मार डाला सो छाया क्या है, दुष्ट मुनिने गुरुदक्षिणा मांगी सो गुरुदक्षिणा क्या है ॥ ३४ ॥

वनस्पतेरविज्ञानः को द्रोणोत्पाटनञ्च किम् ॥

किं पुनः स्थापनं तस्य लक्ष्मणोऽजीवनन्त्यथा ॥ ३५ ॥

भाषा—हनुमान्नने औषधी नहीं पिछानी तो द्रोणपर्वतको मूल सहित उखाड़के सेनामें ले आये सो उखाड़ना क्या है, लक्ष्मणको चैतन्य भए पीछे पर्वतकूँ उसी जगहपर रख आये सो क्या है ॥ ३५ ॥

का रात्रिः किं दिनं युद्धं नागपाशविबन्धनम् ॥

रामलक्ष्मणयोः कश्च गरुडागमनञ्च किम् ॥ ३६ ॥

भाषा—रामजीका रावणसे रातदिन युद्ध भया सो रातदिन क्या है, मेघनादने रामलक्ष्मणको नागपाशमें बांध लिया सो क्या है, गरुडने आयके छुड़ाये सो क्या है ॥ ३६ ॥

स्वास्थ्रियं जानकीं कर्तुं रावणश्च भृशं मुने ॥  
लोभादयः के कथिता रावणेन तदन्तिके ॥ ३७ ॥

भाषा—रावणने जानकीको अपनी द्वी बनानेके वास्ते वारंवार लोभ आदि दिखाता भया सो क्या है ॥ ३७ ॥

को जानकीविलापश्च मासे चैकादशे मुहुः ॥  
विजटाश्वसनं किं वै मन्दोदर्याः शुचश्च काः ॥ ३८ ॥

भाषा—११ मास वारंवार जानकीने विलाप किया सो क्या है, जानकीको विजटाने विश्वास दिया सो क्या है, मंदोदरीको शोच भया सो क्या है ॥ ३८ ॥

मेघनादादिसर्वेषु हतेषु पुत्रब्रातृषु ॥  
विलापो दशकंठस्य को बभूव मुनीश्वर ॥ ३९ ॥

भाषा—हे मुनियोंके ईश्वर ! मेघनाद आदि लेके गिनती करने योग्य, नहीं जो रावणके पुत्र, प्रपुत्र, भाई, राक्षस इन्होंके मरे पीछे रावणने विलाप किया सो क्या है ॥ ३९ ॥

यज्ञस्थिते दशग्रीवे को विनो वानरैः कृतः ॥  
रामरावणयोर्युद्धे ये चान्ये भूरिकौतुकाः ॥  
के ते सर्वे यथायोग्यं वदस्व मुनिसत्तम ॥ ४० ॥

भाषा—रावणने शत्रु जीतनेके वास्ते यज्ञ करनेकूँ बैठा तब वानरोंने विद्व किया ये दोनों क्या हैं, रामरावणके युद्धमें और जो बहुत चरित्र भया सो क्या है हे मुनिजी ! ये सब बात यथायोग्य कहो ॥ ४० ॥

रावणे सकुटुंबे च सामात्यपुत्रपौत्रके ॥  
इते रामेण कपिभिर्लक्ष्मणे नावशेषिते ॥ ४१ ॥

भाषा—रावणके पुत्र पौत्र भाई कुदुंब मंत्री सहित रामने मारे और जो बाकी रहे सो कपि और लक्ष्मणने मारे सो क्या है ॥ ४१ ॥

राक्षसीनां विलापः को लंकाराज्यं विभीषणे ॥

दत्तं किं रामचंद्रेण सैन्यानां जीवनं च किम् ॥ ४२ ॥

भाषा—राक्षसियोंका विलाप क्या है. लंकाका राज्य विभीषणकूँ दिया सो क्या है, और अपनी सेना मरी पड़ी थी उसको जियाते भये ये सब काम राम-जीने किया सो क्या है ॥ ४२ ॥

का स्तुती रामचंद्रस्य कृता सर्वैश्चराचरैः ॥

जानक्या रामचंद्रस्य को मिलापोऽतिसौख्यदः ॥ ४३ ॥

भाषा—देवोंसहित तीन लोक चौदह भुवनने रामजीकी स्तुति किया तथा बहुत सुख देनेवाला मिलाप रामचंद्र जानकीका भया सो क्या है ॥ ४३ ॥

पुष्पके च समारूह्य रामः सर्वान्कर्पोस्तथा ॥

लक्ष्मणं जानकीं चैव किं रणस्थलदर्शनम् ॥ ४४ ॥

भाषा—रामजीने पुष्पक विमानमें लक्ष्मण जानकी तृष्णा सब वानरोंको बैठाएंके अयोध्याकूँ चले तब ऊपरसे रणभूमि दिखाई सो क्या है ॥ ४४ ॥

यथा यातो वनं रामस्तथा च पुनरागतः ॥

भरद्वाजाश्रमे स्थित्वा हनुमत्प्रेषणं च किम् ॥ ४५ ॥

भाषा—जैसा रामजी वनकूँ गये तैसेही फिर अयोध्याकूँ चले भरद्वाजमुनिके आश्रममें आयके हनुमानको भरतके पास भेजा सो क्या है ॥ ४५ ॥

हनुमान् भरतोक्तिश्च किं पुष्पकसमागमम् ॥

सर्वासां च प्रजानां वै को हर्षः पुरवासिनाम् ॥ ४६ ॥

भाषा—हनुमान् और भरतका संवाद भया सो क्या है पुष्पक विमान भरतके सामने आया सो क्या है पुरवासियोंको बड़ा हर्ष भया सो क्या है ॥ ४६ ॥

सर्वैषां चैव ब्रातृणां किं जटाकृतनं मुने ॥

पट्टाभिषेको रामस्य सर्वैषां सुखसंस्थितिः ॥ ४७ ॥

भाषा—हे मुनिजी ! सब भाइयोंने जटा उत्तरायके क्षैर कर्म कराया सो क्या है, रामजीको राज्य प्राप्त हुवा और सबको आनंद भया सो क्या है ॥ ४७ ॥

विसर्जनश्च सर्वेषां कपीनां मुनिसत्तम् ॥

किं राज्यं रामचंद्रस्य किं प्रजानां सुखं तथा ॥ ४८ ॥

भाषा—हे मुनिजी ! रामजीने राज पायके कुछ दिन पीछे सब कपियोंको तथा विभीषणको विदा किया सो क्या है, रामजीने राज किया सब प्रजा सुखं पाई सो क्या है ॥ ४८ ॥

रामेण के कृता यज्ञा जानकीत्यागनं च किम् ॥

कौ रामपुत्रौ संजातौ को दुर्वासा मुनिः प्रभो ॥ ४९ ॥

भाषा—रामजीने यज्ञ किया तथा जानकीको त्याग दिया, रामजीके दो लड़के हुए, दुर्वासामुनि आये ये सब क्या हैं ॥ ४९ ॥

वियोगो रामचंद्रस्य लक्ष्मणस्य च को मुने ॥

को भूम्या विवरो दत्तो जानकी येन संगता ॥ ५० ॥

भाषा—लक्ष्मणको रामजीसे वियोग भया सो क्या है, जानकीकी सोगन सुनके भूमिने रास्ता दिया, जिस रास्तेसे जानकी जायके ज्योतिमें मिलगई सो क्या है ॥ ५० ॥

सर्वाः प्रजास्समादाय रामः कुत्र गतः प्रभो ॥

एवं चान्यानि रामस्य रावणस्य च भो मुने ॥ ५१ ॥

भाषा—सब चराचर प्रजाको संग लेके रामजी किस स्थानकूँ गये? हे मुनिजी ! सो कहो गुमरावणको चरित्र मैंने पूँछा सो कहो ॥ ५१ ॥

अनापृष्ठानि च मया वदस्व कृपया मुने ॥

पुराणे रामचरितं श्रुतं न तर्पितं मनः ॥ ५२ ॥

भाषा—जो मैंने पूँछा सो भी आप लगा करके कहो पुराणोंमें रामचरित्र मैंने सुना परंतु मेरा मन नहीं तृप्त भया ॥ ५२ ॥

वेदान्तमार्गेण वदस्व भो मुने सर्वं चरित्रं रघुनन्दनस्य वै ॥

श्रुत्वा मनो मे बहुतापतापितं प्रयाति शान्तिं यमाशुनिश्चितम् ५३ ॥

भाषा—हे मुनिजी ! रामजीका सम्पूर्ण चरित्र वेदान्तमार्ग करके कहो जिसको सुनके मेरा मन शीघ्रही शांतिको प्राप्त होवे कैसा मन है बहुत भ्रमखप अग्रिसे जलता है ॥ ५३ ॥

इति श्रीवेदान्तरामायणे बालकांडे शिवसहायबुधविरचिते संवर्तवरतन्तुसंवादे सर्वप्रक्षो नाम चतुर्थो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ ४ ॥

### वरतन्तुरुवाच ।

साधु साधु महाबाहो धन्यो ते पितरौ मुने ॥

वर्द्धयन्ति तव प्रश्नाः मम मोदन्तपोधन ॥ १ ॥

भाषा—वरलंतु मुनि बोले हे संवर्त मुनि तुमने ! बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किया तुम्हारे प्रश्नसे हमारे मनके आनंदकी वृद्धि होती है तुमारे माता पीताको धन्य है ॥ १ ॥

न रामो मानुषो विप्र दशास्यो न च राक्षसः ॥

भूर्भुवःस्वरिति ब्रह्मन् न त्रिलोकी निगद्यते ॥ २ ॥

भाषा— हे मुनि ! रामजी मनुष्य नहीं और रावण राक्षस नहीं और आकाश पाताल मृत्युलोक इनकी तीन लोकतक संज्ञा नहीं है ॥ २ ॥

अष्टादशपुराणानां षट्शास्त्राणामिदं मतम् ॥

वेदान्तानां विशेषेण सर्वलोकमिदित्तनु ॥ ३ ॥

भाषा—अठारा पुराण षट्शास्त्र और विशेष करके वेदान्तका मत यह है कि तीन लोक चौदह भुवन ये देहही है ॥ ३ ॥

वर्णयामि द्विजश्रेष्ठ तव प्रश्नविभूषिताम् ॥

माथामेतां सुदुर्गम्यामपक्षमानसैनौरैः ॥ ४ ॥

भाषा—हे द्विजोंमें बडे मुनि ! तुम्हारे प्रश्न करके शोभित है यह कथा

जिसकुं मैं कहता हूँ कैसी है कथा जिन्होंके हृदय ज्ञानमें परिपक् नहीं है उन  
मनुष्यों करके बहुत दुःखसे प्राप्त होने योग्य है ॥ ४ ॥

यतो भगवत्श्रैतज्जगदुत्पद्यते मुने ॥

पाल्यते यत्प्रपद्यन्ते पुनश्चान्ते त्वनेकधा ॥ ६ ॥

भाषा—हे मुनिजी ! जिस भगवान्‌ने यह संसार जो अनेक प्रकारका उत्पन्न किया तथा पालन किया और अंतमें उसी भगवान्‌में लीन हो जाता है ॥ ५ ॥

सच्चिदानन्दरूपस्य निर्गुणस्य जगत्पतेः ॥

जडसंजीवनानन्दकारकस्य महाप्रभोः ॥ ६ ॥

**भाषा—**देह जीवके आनंद करनेवाले भगवानुके रजोगुण तमोगुण सत्त्व गुण करके रहित संसार पतिको जड संसारको बहुत प्रकारसे जीवनखप आनंद करनेवालेके महाप्रभूके ॥ ६ ॥

ध्यानगम्यस्य सततं निराधरस्य निस्तनोः ॥

निर्विकल्पस्य नित्यस्य यत्तेजोऽस्तिलदुर्गमम् ॥ ७ ॥

भाषा—ध्यानसे प्राप्ति होने योग्य आधारसे रहितके शरीरसे हीनके तर्क वितर्कसे वर्जितके जन्मनाशसे रहितके ऐसे भगवान् का यो तेज कैसा तेज है संसारी जीवों करिके बड़े दुःखसे प्राप्त होने योग्य है ॥ ७ ॥

तस्याणवर्बुद्भागेन विस्तृतम्भुवनत्रयम् ॥

**ब्रह्मविष्णुमहेशादियुतं सर्वे चराचरम् ॥ ८ ॥**

लोक चौदह भुवन चराचरको विस्तार भया है कैसे लोक हैं ब्रह्मा विष्णु महेश इन्होंको आदि लेके अनेक प्रकारके जीवों करके संयुक्त है ॥ ८ ॥

उत्पत्य वनसंहारे तस्येच्छा न मुनीश्वर ॥

अणोर्बुद्भागस्तु द्विधाभून्मुनिसत्तम ॥ ९ ॥

भाषा—हे मुनिजी ! संसारकी उत्पत्ति रक्षा नाश करना ऐसी भगवान्‌की इच्छा नहीं है परंतु वो जो अणुका अर्बुद भाग है सो अपनी इच्छासे दो भाग हो गया हे मुनिजी ! ॥ ९ ॥

प्रमदापुरुषो विप्र ताभ्यां विस्तारितं त्विदम् ॥

मुनींद्रं प्रमदा यासीत्सा शक्तिर्बहुरूपिणी ॥ १० ॥

भाषा—हे विप्र ! एक भाग करके द्वी हुई दूसरे भाग करके पुरुष भया इन दोनोंके संयोगसे यह तीन लोक चौदह भुवनका विस्तार भया है, जो द्वी हुई सो शक्तिका रूप है ॥ १० ॥

पुरुषो भगवान्प्रोक्तो विष्णुर्नारायणो हरिः ॥

अनेकरूपो गदितो मुनिभिर्योगतत्परैः ॥ ११ ॥

भाषा—जो पुरुष भया सो भगवान् विष्णु नारायण हरि इस प्रकारके बहुत नाम विस्थात भए योगके जाननेवाले मुनियोंने अनेक रूप भगवान्‌के कहे हैं ॥ ११ ॥

निराकारस्य देवस्य निर्गुणस्य जगत्प्रभोः ॥

तेजसः पश्य सामर्थ्यमणोर्बुद्भागिनः ॥ १२ ॥

भाषा—आकारसे राहित, गुणसे हीन, ऐसे भगवान्‌के तेजके अर्बुदभागकी सामर्थ्य देखो ॥ १२ ॥

येनेदं विस्तृतं सर्वं दृश्यते सूचराचरम् ॥

ज्ञानिनो ध्यानयुक्ताश्च जगच्चतच्चराचरम् ॥ १३ ॥

भाषा—जिस अर्बुदभागके तेज करके यह चराचर संसार विस्तार भया है ज्ञानी और ध्यान करनेवाले जो जीव हैं सो ध्यान कर्के युक्त इस चराचर जगत्‌को ॥ १३ ॥

ध्यानयोगेन स्वस्यैव पश्यन्ति हृदयेऽनिशम् ॥

ज्ञानध्यानविहीनाश्च हृद्दाह्यमनिशं ध्रुवम् ॥ १४ ॥

भाषा—ध्यान योग करके अपने हृदयमें बारंबार देखते हैं और जो जीव ज्ञान ध्यानसे रहित हैं सो जीव निश्चय करके बारंबार हृदयके बाहिर ॥ १४ ॥

पश्यन्ति चर्मचक्षुभ्यां मोहसंतापतापिताः ॥

बाह्यसृष्टेः प्रभावश्चेद्वर्णयामि सविस्तरम् ॥

भविष्यति तदा ग्रंथो महान्सञ्जनसौख्यदः ॥ १५ ॥

भाषा—चर्मकी आंख करके देखते हैं कैसे जीव हैं मोहरूप अशिकी ज्वालासे जले जाते हैं बाहिर सृष्टिके प्रभावका विस्तार जो मैं वर्णन करूं तो सज्जन जीवोंको सुख देनेवाला ग्रंथ बहुत बड़ा होजावेगा ॥ १५ ॥

ग्रंथे महाति जाते वै न दोषोऽणुर्विदृश्यते ॥

तथापि मम सामर्थ्यं वृद्धस्य नास्ति वर्णने ॥ १६ ॥

भाषा—ग्रंथ बड़ा होनेमें कुछ दोष अणुमात्र भी नहीं है बड़ा आनंद है परंतु मैं वृद्ध होगया विस्तार वर्णन करनेकी मेरी सामर्थ्य नहीं ॥ १६ ॥

शृण्विदानीमतो विप्र चरित्रं शूरवीरयोः ॥

रामरावणयोः सम्युक्तुष्कूणां सदा प्रियम् ॥ १७ ॥

भाषा—हे विप्र ! इस कारणसे अब राम रावण दोनों शूरवीरोंके चरित्रको सुनो कैसा चरित्र है मोक्षजाननेवाले जीवोंको सदा प्यारा लगेगा ॥ १७ ॥

पुरुषेच्छाप्रसूतस्तु शरीरः सर्वदेहिनाम् ॥

शक्त्यानुमानितं सत्यमसत्यमचलञ्चलम् ॥ १८ ॥

भाषा—सब जीवोंके वास करनेवास्ते वह जो पहिले अणुमात्र तेज अपनी इच्छासे स्त्रीपुरुष भयं या उसकी इच्छासे यह देहरूप हवेली बनी है, कैसा शरीर है रुंठी स्थिर नहीं है परंतु स्त्री जो पेस्तर भई सोई माया है तिस करके साथ हुवा जो पुरुष तिसका अंश जो जीव सो सत्य मानता है अचलकी यह मेरी देहरूपी हवेली कभी नष्ट नहीं होगी ॥ १८ ॥

**पुरुषप्रकृतिसंयोगात्कोभूच्च भवांकुरः ॥  
स पुलस्त्य इति ख्यातो वितर्कश्च तदुद्धवः ॥ १९ ॥**

**भाषा—**पहले अपनी इच्छासे हुवे जो पुरुष, प्रकृति उन दोनोंके संयोगसे जो वीर्य है तिस वीर्यमें संसारको उत्पन्न करनेवास्ते तर्क नाम अंकुर भया तर्क उसकूँ कहते हैं कि एक मिनिटमें इतना विचार करे कि जिसकी गिनती शेष शारदा भी नहीं कर शकें संसारके पहिले भया उस वास्ते तर्ककूँ पुलस्त्य नाम भया और पुलस्त्यके वितर्क नाम पुत्र भया वितर्क किसकूँ कहते हैं यह काम होवेगा कि नहीं होवेगा ॥ १९ ॥

**समरीचिर्मुनिः प्रोक्तश्चेद्वेगस्तस्य संभवः ॥  
सविश्रवास्समाख्यातो दुर्मतिस्तस्य गेहिनी ॥ २० ॥**

**भाषा—**वितर्क मरीचि मुनि हैं मरीचि मुनिके उद्वेग नाम पुत्र भया उद्वेगका क्या अर्थ है एक क्षणमें जीव अनेक चीजमें जाय लगे स्थिर न रहे उसको उद्वेग कहते हैं उद्वेग नाम विश्रवा मुनि हैं दुर्मति कहे खोटे कर्मकी जो इच्छा करना सो विश्रवा मुनिकी द्वी है ॥ २० ॥

**सा कैकसी द्वितीया तु दीना वै पतिरंजिनी ॥  
दीनायास्तनयो जातः कुबेरो धैर्यसंज्ञितः ॥ २१ ॥**

**भाषा—**दुर्मतीका कैकसी नाम है दूसरी द्वी विश्रवाकी दीनमति है दीन कहे गरीब मति है यह पतिको सुख देनेवाली है दीनमति जो विश्रवाकी द्वी है तिसके धीरज नाम पुत्र जन्म्यो सो कुबेर है ॥ २१ ॥

**विमानन्तस्य पुष्पाख्यमविकम्पनमेव च ॥  
बभूवुद्मतेः पुत्रास्त्रयश्चान्ये सहस्रशः ॥ २२ ॥**

**भाषा—**अनेक दुश्ख पडे परंतु अपने धर्मको नहीं छोड़ा ऐसी निश्चय सो पुण्यका विमान है और दुर्मति जो विश्रवाकी द्वी तिसके तीन पुत्र भये और तो दुष्टराक्षस अनेक हैं ॥ २२ ॥

मनोतिप्रबलो जड़े स रावण इति स्मृतः ॥

परोपतापनं जारचौर्म्यमानरवो समम् ॥ २३ ॥

भाषा—प्रथम तो मन जन्म्या सो बड़ा बलवान् प्रतापी रावण भया दूसरे जीवोंकूँ त्रास देना १ भगवान् की प्रीति छोड़के अन्य काजमें प्रीति करना २ ईश्वरके भजनमें भंग करना ३ मानकूँ बटाना ४ जीवमें भेद देखना ५ ॥ २३ ॥

पानं वैरमविश्वासं चपलं सम्भ्रमं सदा ॥

एतानि दशमूर्धानि मनसो रावणस्य वै ॥ २४ ॥

भाषा—खोटे काजमें सुख देखना सोई मदिरापान ६ सब जीवोंसे वैर करना ७ किसी जीवका विश्वास नहीं रखना ८ सुंदर कार्य देखके भागना ९ सब जीवको अनादर करना १० ये दश मस्तक मनरूपी रावणके हैं ॥ २४ ॥

दुःखत्यागस्मुखस्येच्छा वियोगमातुरं तथा ॥

सदा क्लेशं सदा तुष्टिः प्रमादोऽभयमेव च ॥ २५ ॥

भाषा—दुःखको त्याग १ सुख होनेकी इच्छा २ जीवोंसे वियोग मानना ३ विना विचार काज करना ४ दुःखमें क्लेश, सुखमें भी क्लेश पाना ५ असंतोष ६ प्रमाद ७ ईश्वरसे डरना नहीं ८ ॥ २५ ॥

निंदा पैशून्यमातंडं वितंडं मानमेव च ॥

ग्लानि हानिमहामोहप्रमादं कौतुकं रतिः ॥

उन्नता बाहवश्चैमे विंशाः प्रोक्ता मुनीश्वरैः ॥ २६ ॥

भाषा—निंदा करना ९ चुगली करना १० वेदसे रहित कर्म करना ११ अपनी इच्छासे रहना दूसरेका उपदेश नहीं मानना १२ सदा ग्लानि १३ सदा हानि १४ सदा बुरे काममें प्रीति १५ प्रमत रहना १६ तमासामें प्रेम १७ विषयोंसे प्रेम १८ किसीसे नम्र नहीं रहना १९ सब जीवोंमें अपनाकूँ बड़ा मानना २० हे मुनिजी ! यह मनरूपी रावणकी बीस भुजा हैं ॥ २६ ॥

दुः संगस्तु द्वितीयोभूत्स कुंभश्रोत्र उच्यते ॥

त्रासस्तृतीयः संजातः प्रोक्तश्च स विभीषणः ॥ २७ ॥

भाषा—खोटे कर्मकी संगत करना सोई कैकसीका दूसरा पुत्र उसका नाम कुम्भकरण बुरेकर्मको देख बहुत डरगया सो तीसरा पुत्र उसका नाम विभीषण है ॥ २७ ॥

बभूव दुर्मतेः कन्या दुःसंगेच्छातिकूरिणी ॥  
सा वै शूर्पणखा प्रोक्ता दुष्टकार्याः खरादयः ॥ २८ ॥

भाषा—दुर्मति नाम कैकसी जिसको लड़की भई सो खोटी संगत कर्मोंकी इच्छा उसका नाम शूर्पणखा है तीन लोकमें जितने बुरे काम हैं चोरी, जारी, जुवारी, चुगुली और जहर देना ये सब खरादिक राक्षस हैं ॥ २८ ॥

मनसस्तनयो जातो दुश्शेषित इतीरितः ॥  
स मेघनादो विख्यातो मेघवद्वर्जते सदा ॥ २९ ॥

भाषा—बुरे काजमें प्रेम करना सोई मनरूपी रावणको पुत्र मेघनाद नाम है जैसे आकाशमें मेघ गर्जते हैं तैसा यह गर्जता है ॥ २९ ॥

दुष्टकर्मसुचिः ख्याता रावणस्य प्रिया शुभा ॥  
सैव मंदोदरी चैव चैताहश्यस्त्वनेकशः ॥  
दुष्टकार्ये सदा प्रीत्या संस्थितिवैपणात्कृता ॥ ३० ॥

भाषा—बुरे काममें प्रीति सोई मनरूप रावणकी खी है, उसका नाम मंदोदरी ह आर जो बुरे काम अनेक प्रकारके उत्तम मध्यम निकष्ट इन कर्मोंकी अनेक प्रकारकी प्रीति सोई रावणकी मंदोदरीसरीके बहुत खी हैं दुष्ट कार्यमें प्रीति करके हठसे ठहरना ॥ ३० ॥

सा लंका तत्सुखं हेम तद्धर्षो वारिधिस्मृतः ॥  
हर्षे तृष्णा च परिखा दुरानन्दो विधिस्मृतः ॥ ३१ ॥

भाषा—सोई लंका पुरी है जिस लंकामें बसकर सुख मानना कि तीन लोकमें कोई ऐसा सुख नहीं सोई सोना है उसी सोनेसे लंका जड़ी है तिस सोनेके सुखमें हर्ष मानना सोई समुद्र है खोटे काजमें बास करना सो लंकाको सुख सोनेके

हर्षकी तृष्णा करना सोई लंकाकी चारों तरफ खाई है और बुरे काजोंमें आनंद मानना सोई ब्रह्मा है ॥ ३१ ॥

तत्सेवनं तपः प्रोक्तं वरं कूरनिषेवनम् ॥

मदमज्ञानरूपं च यत्पीत राक्षसैः सदा ॥ ३२ ॥

भाषा—उसी बुरे कर्मके आनंदको सेवन करना सोई रावणकी तपस्या है, खोटे कर्ममें नित्य प्रेम रखना और कभी हम मरेंगे नहीं ऐसा मानना सोई वरदान रावणने ब्रह्मासे लिया अज्ञान है सोई मदिराका रस है जिसकूं राक्षसलोग सदा पीते हैं ॥ ३२ ॥

विशेषतश्च मनसा प्रपीतं रावणेन च ॥

शरीरं सर्वजीवानामिदं चैव चराचरम् ॥ ३३ ॥

भाषा—विशेष करके उस मदको मनरूप रावण पीता है सब जीवोंका यह शरीर जो है चल देह तथा अचल देह ॥ ३३ ॥

त्रिलोकामिति विख्यातं पीडितं तेन राक्षसाः ॥

अनाचारे रथे स्थित्वा तद्विष्वाजिसंयुते ॥ ३४ ॥

भाषा—सोई तीन लोक हैं, तिसको मनरूप रावण बहुत पीड़ा देता भया आचारोंसे हीन कर्म सोई रथ है तिस रथमें बैठके उसी रथकूं देखके बहुत खुशी होना सोई अनेक घोडे हैं ॥ ३४ ॥

दुराशासनदुश्चित्तदुरंजनदुरापनम् ॥

एतैश्वकैर्वृतो वीरो गर्दभैश्च कुकर्माभिः ॥ ३५ ॥

भाषा—सब जीवोंको दुष्ट कर्म शिखाना १ रातदिन दुष्ट कर्ममें चित्त लगाये रखना २ कोई कोई बुरे कर्मको देखने वास्ते जानके अंधे होजाते हैं उन जीवोंको दुष्ट काजके सुख सुनायके उसी सुखको अंजन उनकी आंखोंमें लगाना ३ हमेशा बुरे काज प्राप्त होनेका उपाय करना ४ ये चार पहियाँ हैं इन चारों पहियों करके रथ युक्त है, बुरा कर्म करना सोई खच्चर हैं तिस कर्के युक्त है ॥ ३५ ॥

कुकर्मणीच्छाशक्तिश्च मुखानि दश चेन्द्रियाः ॥

आमिषं दुष्टकार्याक्षं रक्तं च रागवर्द्धनम् ॥ ३६ ॥

भाषा—अनेक बुरे कर्मकी इच्छा सोई रावणकी सांग है, दश इंद्रिय सोई रावणके दशमुख हैं बुरे कर्मका खजाना भरा है सोई मांस है उस खजानेमें लेह बढ़ाना सोई रक्त है ॥ ३६ ॥

मोक्षस्पृहो रावणस्य मनसो मुनिसत्तम् ॥

स वै शिव इति र्व्यातः सेवनं तद्विचिन्तनम् ॥ ३७ ॥

भाषा—हे मुनिजी ! मनस्तु रावणको मोक्ष होनेकी इच्छा रहती है परंतु उपाय नहीं करता सोई शिव है मोक्षकी चिंता करना कि मोक्ष अच्छी वस्तु है सोई शिवका पूजन है ॥ ३७ ॥

दुर्बुद्धिः सारथिर्ज्ञेयः कुविचारो वितोत्रिकम् ॥

हर्षवृद्धिर्विजिवेगो मदमग्नं रजस्मृतम् ॥ ३८ ॥

भाषा—रावणकी दुर्बुद्धि सोई रावणके रथका सारथी है खोटा विचार करना सोई घोड़ोंका हांकनेवाला चालुक है दुष्टकर्ममें हर्षकी वृद्धि करना सोई घोड़ोंका दौड़ना है और मद पीके मन रहना सोई थूलि है ॥ ३८ ॥

दुराचारमहामोहो रथस्य कूबरं मुने है ॥

तन्मोहप्रीतिजननं रशिमवद्धं सुदुच्छिदम् ॥

भ्रमणं दुष्टकार्येषु रथस्यागमनं मुने ॥ ३९ ॥

भाषा—बुरे कर्मके आचारमें बड़ा मोह करना सोई रथमें बैठनेकी जगा है. उसी बडे मोहमें प्रीति उत्पन्न करना, अनेक दुःख परें तो भी उसकूँ छोड़ना नहीं सोई रसी है तिन रसियोंमें रथ बंधा है उस रथकी व्रथिको काटना चाहै तो बडे कष्टसे कटेगा हे मुनिजी ! आठ प्रहर चौसठ घंडी बुरे कर्ममें फिरना सोई रथकी दौड़ है ॥ ३९ ॥

मनः प्रमाथी प्रबलो दशाननो विर्मद्यामास सुकर्मतत्परम् ॥

चराचरं विश्वमिदं सहोदरैः सुतैः प्रपौत्रैः सह राक्षसैर्युतः ॥ ४० ॥

भाषा—पुत्र पौत्र भाई राक्षसों करके संयुक्त ऐसा जो रावण सो खान संध्या देवपूजन कथाश्रवण और इसी प्रकारके अनेक काजोंमें प्रवीण जीवोंको नाश करता भया ॥ ४० ॥

इति श्रीवेदान्तरामायणे बालकांडे पं० शिवसहायविरचिते मनोरावणविभूत्यु  
त्कर्षे पंचमो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ ५ ॥

### वरतन्तु उवाच ।

कामः क्रोधश्च लोभश्च मात्सर्यं वंचनौ मुने ॥

तिरस्कारः सतां चैव नैष्टुर्यं सुखकर्मणि ॥ १ ॥

भाषा—वरतन्तुमुनि फिर बोले हे संवर्त मुनिजी ! काम, क्रोध, लोभ, दूसरेका सुख देखके दुःखी होना कपटसे सज्जन जीवोंका अनादर और सुंदर कामोंमें विनाश करना ॥ १ ॥

एतैः पुत्रैर्युतो राजा पीडयामास सन्ततम् ॥

भुवनत्रयसंयुक्तं वेदमार्गं मुद्दुर्मुद्दुः ॥ २ ॥

भाषा—ये सब आदि लेके और अनेक प्रकारके दुष्टकर्म सो रावणके पुत्र हैं इन पुत्रों करिके युक्त रावण नियप्राप्ति तीन लोककूँ पीडा देता भया और वेदमार्गको तो विशेष करके पीडा देता भया ॥ २ ॥

कामादीनां सुखप्राप्तिः सा तेषां प्रमदा मुने ॥

पुत्रपौत्राः प्रपौत्राश्च कामादीनान्त्वनेकशः ॥ ३ ॥

भाषा—हे मुनिजी ! काम आदि कर्मोंके सुखमें प्रीति सर्वै रावणके पुत्रोंकी श्री हैं और काम आदि रावणके पुत्रोंके पुत्र पौत्र प्रपौत्र गिनती करने योग्य नहीं हैं ॥ ३ ॥

तेषां वै वर्णने शक्तिः शेषस्यापि सुदुस्तरा ॥

कथं मया ते वर्ण्यते मनोरावणजाः प्रजाः ॥ ४ ॥

भाषा—मनरूप रावणके पुत्र पौत्र प्रपौत्रोंके पुत्र पुत्रोंकी तथा राक्षसोंकी

गिणती करनेमें शेषजीकी भी सामर्थ्य नहीं है, और मन रावणसे उत्पन्न परिवारोंकी गिनती मैं कैसे वर्णन कर सकूँ ॥ ४ ॥

**मोहजां वासुणीमपीत्वा राक्षसाः क्रोधजा गणाः ॥  
दुश्चेष्टितास्त्रैर्विमदार्शिद्युः सद्धर्मजान्सुरान् ॥ ५ ॥**

भाषा—क्रोध आदि बडे बडे योद्धों करिके उत्पन्न हुये जो राक्षस सो मोहसे उत्पन्न हुई जो दुष्ट चेष्टाखूप मदिगा सो पाके मन होके बुरे कर्मकी समूह सोई अस्त्र शस्त्र हैं तिस अस्त्र शस्त्र करिके वेदमें लिखा जो धर्म उस धर्म करके उत्पन्न जो यज्ञ दान तप स्थान इन आदि जो गिनतीरहित जो देवता हैं तिनको काटते भये मारते भये ॥ ५ ॥

**ज्ञानविज्ञानवैराग्यसंन्यासामोक्षदायिनः ॥  
त एव वेदाः कथितास्तेषां वार्ताश्च संहिताः ॥ ६ ॥**

भाषा—ज्ञान विज्ञान वैराग्य संन्यास ये चार वेद हैं मोक्षके देनेवाले हैं, इन चारोंकी कथा सोई संहिता है ॥ ६ ॥

**विनाशिताश्च ते सर्वे मनोरावणप्रेरितैः ॥  
राक्षसैर्निर्दयैः क्रूरैः कामक्रोधादिसंभवैः ॥ ७ ॥**

भाषा—इन वेदोंकी संहितोंको राक्षस नाश करते भये, कैसे राक्षस हैं मन रावणकी आज्ञाको पाये हैं. सुकर्मको नाश करनेवास्ते दयासे हीन राक्षस बडे दुष्ट हैं काम क्रोध आदि लेके जो खोटा कर्म तिस करिके राक्षस जन्मे हैं ॥ ७ ॥

**ब्रह्मणः परमेशस्य सच्चिदानन्दरूपिणः ॥  
चितका भक्षिताः सर्वे सद्धर्मा मोक्षदा नृणाम् ॥ ८ ॥**

भाषा—परब्रह्मके ब्रह्मा विष्णु महेशके ईशके जीव देह आत्माके रूपके ऐसे भगवान् के चिंता करनेवाले जो सुंदर धर्म जैसे आचार विचार श्रवण कीर्तन विश्वास इनकूँ आदि लेके और वेदमें लिखे हुए धर्म जीवोंकूँ मोक्ष देनेवाले हैं, सो इन धर्मोंको राक्षसोंने खोए ॥ ८ ॥

त एव ब्राह्मणः सर्वे गावश्च सत्क्रियाः स्मृताः ॥  
ताश्चैवं भक्षितास्सर्वा राक्षसैरतिहिंसनैः ॥  
नित्याभ्यासो वेदयज्ञस्तेनातीवविनाशितः ॥ ९ ॥

**भाषा—**ये सब सुंदर धर्म ब्राह्मण हैं इन धर्मोंकी किया सोई गौ है इन ब्राह्मण गौवोंकोभी जीव मारनेमें बडे चतुर जो राक्षस सो खाय लेते भये भगवान्‌को ध्यान नित्य करना सोई वेदकी यज्ञ है उस यज्ञकोभी राक्षसोंमें नाश किया ॥ ९ ॥

पुराणपुरुषध्यानकीर्तनं थ्रवणादयः ॥  
स्मरणं स्मरणं चैव वन्दनं प्रीतिरंजनम् ॥ १० ॥

**भाषा—**भगवान्‌को ध्यान कीर्तन कथा-थ्रवण करना आप स्मरण करना दूसरेकूँ स्मरण करना, वंदना करना, भगवान्‌के पूजनमें प्रीति बढ़ाना ॥ १० ॥

कथनं काथनञ्चैव पूजनं शिरसा नातिः ॥  
विनयं स्वामिभावश्च नमस्कारप्रदक्षिणे ॥ ११ ॥

**भाषा—**ईश्वरका चरित्र आप कहना, दूसरेसे कहाना, पूजन करना शिरस-वायके नमस्कार करना विनय करना मैं ईश्वरका दास हूँ ईश्वर मेरे स्वामी हैं ऐसा हृदयमें रखना वारंवार नमस्कार और प्रदक्षिणा करना ॥ ११ ॥

साष्टांग गद्ददावाणी रोमहर्षश्च संततम् ॥  
पुराणा नाशिताश्चैते ब्रह्मसन्निधिकारकाः ॥ १२ ॥

**भाषा—**साष्टांग दंडवत करना गद्ददावाणी बोलना. प्रीतिसे रोम खडे होजाना. ये अठारा पुराण हैं जीवोंको ब्रह्मके सामने ले जानेवाले हैं इनकोभी राक्षसोंमें नाश किया ॥ १२ ॥

शरीरचेष्टा सा भूमिर्महती भारपीडिता ॥  
करुणा गौः समाख्याता सा भूत्वा शरणा विभोः ॥  
जगमैत्यर्थुता पृथ्वी कम्पिता च मुहुर्मुहुः ॥ १३ ॥

**भाषा—**सब जीवोंके देहकी प्रकृती सोई भूमि है बहुत बड़ी है सो भूमि राक्षसोंके खोटे काजरूप भार करके दुःखी होगई। सोई भूमि दयारूप जो गौ है तिसका रूप धारण करके इन देवतोंको साथ लेके भगवान्‌के शरणकूँ गई ॥ १३ ॥

**शरीरशुद्धयः सर्वाः स्नानादिमज्जनादयः ॥**

**गंगादिनद्यस्ताः प्रोक्तास्ताभिः साद्वै च दुःखिता ॥ १४ ॥**

**भाषा—**देहकी जो सब शुद्धता है जैसे स्नान, मज्जन आचारयुक्त कर्म, इन आदि और जो शुद्धता है सोई गंगा आदि नदी हैं तिसको संग लेके ॥ १४ ॥

**दुरानन्दो विधिश्वै कुर्धमः सुरनायकः ॥**

**तेन साद्वै सुरैश्वै धर्मजैः सह संगता ॥ १५ ॥**

**भाषा—**जैसे ब्रह्मा अपनी लड़कीके संग भोग करनेकी इच्छा किया इस आदि जो खोटे कर्ममें आनंद मानना सोई ब्रह्मा है औ जैसा इंद्र अपने सुख होने वास्ते अधर्म नहीं देखता ऐसा अधर्म सो इंद्र है। शास्त्रमें इन्द्रको उत्तम संज्ञा है कर्म उसका खराब है इस वास्ते अधर्मरूप इंद्र और सुंदर धर्मसे जन्म जो देवता प्रथम वर्णन है इन सबकों संग लेके भगवान्‌की शरणकूँ पृथ्वी गई ॥ १५ ॥

**जगाम प्रार्थितुं विष्णुं पुरुषांशसमुद्धवम् ॥**

**चेतनं सहसा सुतं चेतिन्या निजमायया ॥ १६ ॥**

**भाषा—**भगवान्‌के अणुसे उत्पन्न जो विष्णु तिनकी प्रार्थना करनेवास्ते पृथ्वी गई कैसे भगवान् हैं संसारके चेतन रूप हैं। संसारको चेतन करनेवाली जो आपकी माया तिस करिके सेवित सोते हैं ॥ १६ ॥

**घमन्युद्धर्तीनी देहे प्राणिनामस्ति या शुभा ॥**

**तदास्ये क्षीरसदृशः सिंधुवद्विस्तृतेहृदः ॥ १७ ॥**

**भाषा—**सब जीवोंकी देहमें एक नाड़ी है। उस नाड़ीका उद्धर्तीनी नाम है नाड़ी जीवकी रक्षा करनेवाली है। उस नाड़ीके मुखमें समुद्र सरीके लंबा चौड़ा एक कुंड है उस कुंडका आकार दूध सरीका है ॥ १७ ॥

शत्त्या विस्तारितास्तस्मिन्छीलादिसद्गुणास्तदा ॥  
हृददीप्त्या विभासन्ते गुणाः क्षीर इव प्रभो ॥

गत्वा तत्र च ते सर्वे स्तुतिश्चकुश्च व्याकुलाः ॥ १८ ॥

भाषा—प्रभुकी शक्ति करके विस्तार भये जो शील आदि लेके सुंदर गुण सो सब गुण उस कुंडके ज्योति करके दूध सरके शोभा कुंडमें दे रहे हैं उस दूधके समुद्रमें सोये जो भगवान् तिनके पास जायके सब भूमि आदि व्याकुल होरहे और भगवान् की स्तुति करते भये ॥ १८ ॥

### ब्रह्मा उवाच ।

तुभ्यं नमो भगवते करुणाकराय सद्गर्भभूमिद्विजधेनुमखाव-  
नाय ॥ स्वच्छाय स्वच्छनिलयाय निराश्रयाय भक्तप्रियाय  
भवदुःखविभञ्जनाय ॥ १९ ॥

भाषा—ब्रह्मा स्तुति करते भये हे भगवन् ! ऐश्वर्यरूप आपको मैं नमस्कार करता हूं जीवोंके ऊपर दया करनेवाले आप तिनकूं मैं नमस्कार करता हूं सुंदर धर्म भूमि ब्राह्मण गौ यज्ञ इन सबकी रक्षा करनेवाले तिनकूं मैं नमस्कार करता हूं शुद्धरूप आपको मैं नमस्कार करता हूं शुद्ध है स्थान आपको ऐसे रूपकूं मैं नमस्कार करता हूं आश्रयसे हीन जो आप तिनको मैं नमस्कार करता हूं भक्त आपके प्रिय हैं ऐसे स्वरूपकूं मैं नमस्कार करता हूं संसारके दुःखकूं नाश करनेवाले आपकूं मैं नमस्कार करता हूं ॥ १९ ॥

संसारतापशमनाय मनोहराय योगिन्द्रशेषमुनिमानसहंसकाय ॥

धर्मप्रियाय धरणीव्रतधारणाय देवाधिदेवपतये च नमस्करोमि ॥ २० ॥

भाषा—संसारके तापको नाश करनेवाले, मनको प्रसन्न करनेवाले बड़े योगिजन शेष मुनि इन सबको मन सोई मानस सरोवर है, तिसमें हंसरूप आप वास करते हो और धर्मके प्यारे, क्षमारूप, देवरूप और देवतोंके पतिरूप ऐसे जो आप परमात्मा उनकूं मैं नमस्कार करता हूं ॥ २० ॥

दीनप्रियाय शरणागतपालनाय प्रोत्पुल्पंकजमुखाय निरंजनाय ॥

श्रीमन्महापुरुषतेजसचोष्टिताय मायानुवादरहितायनमो नमस्ते ॥ २१ ॥

भाषा—दीन आपकूँ प्रिय है, शरणागतके पालना करनेवाले कमलके पुष्प सरीखे फुल्यायमान आपका मुख बड़ा शोभित ऐसा जो ब्रह्म तिसके तेज करिके आप प्रकाशित हो, मायाके विवादसे रहित ऐसे जो आप तिनकूँ मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २१ ॥

इति स्तुतो जगन्नाथो देवैर्दुःखविमूर्छितैः ॥  
उवाच विहसन्देवो विपादं सान्त्वयन्निव ॥ २२ ॥

भाषा—दुःख करिके मूर्छाको प्राप्त भये जो देवता तिनों करिके स्तुति किये जो जगत्के नाथ सो तिन देवतोंके दुःखको शान्त करने वाले हँसके बोलते भये ॥ २२ ॥

ज्ञातं मया सुरण्णाः सुनिपीडितं वै सर्वं चराचरामिदं भुवनत्रयम्भो ॥  
सम्प्रेरितैश्च मनसा खलु रावणेन तेनापि राक्षसगणैः सततम्मुहुर्वै ॥ २३ ॥

भाषा—चेतन पुरुष बोले हे देवतालोगो ! यह तीन लोक चराचरका मन-रूप रावण तथा रावणकी आज्ञाकूँ पाये जो राक्षस ये सब बहुत पीड़ा करते भये ये सब हमकूँ मालूम है ॥ २३ ॥

सर्वामरं त्वया दत्तं नरवानरवर्जितम् ॥  
अतोहं नररूपस्तु भविष्यामि न संशयः ॥ २४ ॥

भाषा—हे ब्रह्म ! तुमने रावणको सबसे अमर किया किन्तु किसीके मारे नहीं मरेगा, परंतु कपि, जो किञ्चिंधाकांडमें वर्णन होवेंगे और मातृष जो उत्तरकांडमें वर्णन होवेंगे, इन दोनोंसे तेरी मृत्यु होगी, इस वास्ते हम मातृष अवतार धरेंगे इसमें संशय नहीं ॥ २४ ॥

चतुर्भिर्ब्रातृभिः सार्द्धं देव्या सह सुरोत्तमाः ॥  
पुत्रो दशरथस्यैव साकेताधिपतेर्ध्रुवम् ॥ २५ ॥

भाषा—हे देवतालोगो ! हम चार भ्राता होकरके शक्तिसहित अयोध्याके राजा दशरथके पुत्र निश्चय करके होवेंगे ॥ २५ ॥

यूयं सर्वे भविष्यत्वं वानराः पृथिवीतले ॥  
नाशयिष्याम शीघ्रं वै मनोरावणराक्षसम् ॥ २६ ॥

भाषा—और तुम सब देवता पृथ्वीमें जायके वानररूप होकर जन्मो, तुम्हं  
संग लेके हम मनस्व रावणको जलदी नाश करेंगे ॥ २६ ॥

इत्युक्तान्तर्दधे विष्णुब्रह्माश्वास्य क्षितिं तथा ॥

देवानाज्ञाप्य प्रययौ स्वालयं कपिजन्मनि ॥ २७ ॥

भाषा—ऐसा कहिके चेतनरूप भगवान् अंतर्धान होगये और ब्रह्मा भूमिसे  
कहे कि अब डरो मत थोरेही दिनमें रावणका नाश होगा और देवतोंकूं  
ब्रह्मा बोले कि तुम सब पृथ्वीमें वानररूप धरो ऐसा समझायके ब्रह्मा अपने  
स्थानको गये ॥ २७ ॥

इति श्रीवेदांतरामायणे बालकांडे शिवसहायबुधविरचिते  
षष्ठो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ ६ ॥

### वरतन्तुरुवाच ।

अयोध्या सुमतिः प्रोक्ता सरयूः सा सुवासना ॥

निश्चलत्वतटा प्रोक्ता निर्मानजलपूरिता ॥ १ ॥

भाषा—वरतन्तु मुनि बोले हे संवर्त मुनि ! मुनो जीवोंकी सुंदर मति जो है  
सो अयोध्यापुरी है और जीवोंकी सुंदर वासना सो सरयू नदी है सुंदर वासना कभी  
अपने स्वभावसे चलायमान नहीं होती सोई सरयूके दो तट हैं और सुंदर वास-  
नाके अभिमान नहीं है सोई जल है तिस जल कारके सदा भरी रहती है ॥ १ ॥

शक्तिस्वभावजः पुत्रो वसिष्ठ इति कथ्यते ॥

आत्मप्रकाशः सविता विचाराद्याश्च तत्सुताः ॥ २ ॥

भाषा—मायाको स्वभाव सो वसिष्ठ मुनि हैं आत्माको तेज सो सूर्य है  
विचार आदि सुंदर स्वभाव सो सूर्यके पुत्र हैं ॥ २ ॥

विचारतनयो ब्रह्मनात्मज्ञानं सुनिर्मलम् ॥

स वै दशरथः प्रोक्तस्तस्यच्छाया तु कौशला ॥ ३ ॥

भाषा—विचारको पुत्र आत्माको ज्ञान है कैसा आत्मज्ञान है मलसे रहित  
है सो दशरथ है तिस आत्मज्ञानकी छाया कौशला है ॥ ३ ॥

श्रवणं मननं मौनमभ्यासस्तद्विचिन्तनम् ॥  
चेष्टनं सत्यता नित्यमविचाल्याप्रकंपनौ ॥  
एते दशरथाः प्रोक्ता आत्मज्ञानस्य भूपतेः ॥ ४ ॥

**भाषा—**कथाश्रवण १ कथा सुनके मानना कि जो शास्त्रमें लिखा है सो सत्य है २ खोटे कर्ममें बोलना नहीं ३ भगवान्‌के रूप जाननेवास्ते नित्य उपाय करना ४ रूपकी चिंतना करना ५ ईश्वरके ध्यानमें आलस्य नहीं करना ६ ईश्वरके रूपको सत्य मानना ७ और सब देहके सुख छूठे मानना ८ किसी दुष्टको संग दैवयोगसे मिल जावे तो ईश्वरके ध्यानको छोड़के दूसरेका ध्यान नहीं करना ९ ईश्वरके भजनमें दुख सुख होवे सो सहि लेना १० आत्मज्ञान जो दशरथ तिसके ये दश रथ हैं ॥ ४ ॥

आत्मानस्वच्छप्रकृतिः सा सुमित्रेति कथ्यते ॥  
किञ्चिच्छक्तौ च या प्रीतिः कैकेयी सा निगद्यते ॥  
भूरिशो रुचयस्तसु ताश्चान्या नृपवल्लभाः ॥ ५ ॥

**भाषा—**आत्माकी सुंदरी प्रकृति सोई सुमित्रा है मायामें थोरी प्रीति से कैकेयी है सज्जनमें बहुत रुचि सो दशरथकी और छियें हैं ॥ ५ ॥

आत्मज्ञानं चिरं कालं न लेभे पुत्रजं सुखम् ॥  
दुःखमाप तदा वीरे विश्वार्थमिति भार्यया ॥ ६ ॥

**भाषा—**आत्मज्ञान जो राजा दशरथ सो बहुत दिन बीत गये पुत्रको सुख नहीं भया तो संसारके सुख होनेवास्ते स्त्रीसहित दुःखको प्राप भए ॥ ६ ॥

स्वभावगुरुणा पश्चाद्विष्टेनैव वोधितः ॥  
ऋष्यशृंगं समादूय चेतनांशं विचिंतनम् ॥ ७ ॥

**भाषा—**कुछ दिन पीछे शक्तिके स्वभावरूप जो वशिष्ठ सो दशरथके द्वारा हुए हैं सो बोले कि, हे राजा ! शंगीकृषिको बुलायके यज्ञ करावो तुम्हारे पुत्र होवैंगे ऐसी गुरुकी आज्ञा पायके चेतनको अंश जो विचेतन सो शंगी कृषि हैं तिनको बुलायके ॥ ७ ॥

ध्यानयज्ञं चकाराशु तत्तेजो हुतभुद्धमुने ॥

नृपस्य हृदयं कुंडमर्च्चिस्तदुचिरेव च ॥ ८ ॥

**भाषा—**जलदी ईश्वरको ध्यानरूप यज्ञ करते भये, हे मुनिजी ! ध्यानको तेज सो अग्नि भया है आत्मज्ञान दशरथका हृदय सो कुंड भया है ध्यानरूप यज्ञमें राजाकी रुचि सो अग्निकी ज्वाला भई है ॥ ८ ॥

प्रेमकाष्ठं त्वरो मंत्रो होमद्रव्यं च निश्चयम् ॥

तेजसा पावकेनापि दत्ता सद्ग्रावना नृपे ॥ ९ ॥

**भाषा—**आत्मज्ञान राजाको ध्यान यज्ञको प्रेम सो काष्ठ है ध्यानयज्ञ करनेमें जलदी करना सो मंत्र है दशरथको ध्यानयज्ञमें निश्चय सो होमकी सामग्री है ध्यानको तेजरूप अग्नि सो दशरथको साधुओंमें सुंदर भक्तिरूप हविष्य देते भये ॥ ९ ॥

तस्याः संप्राशनश्चकुर्यहणं राजवल्लभाः ॥

तासां वभूव गर्भो वै भावनाप्रीतिकारणम् ॥ १० ॥

**भाषा—**तिस भक्तिरूप हविष्यको राजाकी तीनों श्लियें गजासे व्रहण करती भईं सो हविष्यको खाती भईं तिन श्लियोंके साधुजनोंकी भक्तिमें प्रेम है सोईं गर्भ रहता भया ॥ १० ॥

चैत्रवृपसुखं शुक्लं समुद्घासो निरंतरम् ॥

रतिः प्रीतिर्गुरोः सेवा सन्नतिर्विमतिः क्षमा ॥ ११ ॥

**भाषा—**रानियोंके गर्भ देखके दशरथको सुख भया सो सुख चैत्रमास है शेज गर्भ देखके राजा खुश भया सो शुक्लपक्ष है धर्ममें राजाकी मति बढ़ि गई गुरुदेवकी सेवा बहुत करने लगे सब जीवोंसे राज्यके मद छोड़ दिया सब जीवोंको एक सम जानना क्षमा करना ॥ ११ ॥

शुद्धता स्वच्छता कीर्तिर्वर्मीमाः प्रकीर्तिताः ॥

मध्याह्नं समभावं च तस्मिन् जातो रमापतिः ॥ १२ ॥

भाषा—ईश्वरके निष्कपट ईश्वरमें प्रेम ईश्वरके नामकी कीर्ति करना ये सब नवमी तिथि हैं संसारमें किसीकी निंदा स्तुति नहीं करना परंतु बुरे कर्मको छोड़ना सुंदरकर्मको श्रहण करना ऐसे स्वभावको दुपहर कहते हैं तिस दुपहरमें भगवान् दशरथके गृहमें जन्मते भये ॥ १२ ॥

कौशल्यायां जगत्स्वामी जगदानन्ददायकः ॥  
विवेकश्चेतनांशश्च पापवारिधिकुम्भजः ॥ १३ ॥

भाषा—आत्मज्ञान दशरथकी छाया कौशल्यामें जगत्के स्वामी जगत्के आनन्द देनेवाले पापरूप समुद्रको शोषण करनेमें अगस्त्यरूप चेतनको अंश देसे विवेकनाम पुत्र होते भये ॥ १३ ॥

अर्थधर्मादिहस्ताद्यैः सत्यादिमुकुटादिभिः ॥  
युतं रूपं दर्शयित्वा पश्चाद्वालो बभूव ह ॥  
कैकेय्यां च विवेकस्य चार्द्धभागः प्रजाग्मिवान् ॥  
अर्द्धशेन च द्वौ जातौ सुमित्रातनयौ मुने ॥ १४ ॥

भाषा—अर्थ धर्म आदि चार भुजा हैं, सत्य आदि धर्ममुकुट है इनसे युक्तरूप माता पिताको दिखायके बालक होते भये. विवेकके अर्द्धांश कैकेयी शक्तिमें थोरी प्राप्ति है तिसमें जन्मता भया और विवेकके अर्द्धांशको अर्द्धांश करके आत्मज्ञानकी सुन्दर प्रकृति जो सुमित्रा तिसके दो पुत्र भये ॥ १४ ॥

यो रोम्णि रोम्णि रमते रमणेनैव मोक्षदः ॥  
स राम इति विख्यातो विवेको मोक्षदायकः ॥ १५ ॥

भाषा—सब जीवोंके रोमरोममें जो रमित है और रोमरोममें रमण करके सब जीवोंको मोक्ष देनेवाला सोई राम है उस रामको विवेक कहते हैं वो विवेक जीवोंको मोक्ष देनेवाला है ॥ १५ ॥

निर्मोहो भरते जीवान्तस्माद्वरतसंज्ञितः ॥  
लक्षणे वै स्वरूपस्य येन विज्ञायते मुने ॥ १६ ॥

भाषा—हे मुनिजी ! और जो जीवोंका पोषण तो करे परंतु किसी जीवमें  
मोह न करे उसकूँ निर्मोह कहते हैं सोई भरत है जिस करके ईश्वरके स्वरूपको  
लक्षण मालूम पडे ॥ १६ ॥

स लक्ष्मण इति ख्यातः सन्तोषो मोक्षनायकः ॥

यः शत्रून्सतं हन्ति शत्रुघ्नस्तेन कथ्यते ॥

स्वदेहस्थानिन्द्रियजान्सहनः समतागुणः ॥ १७ ॥

भाषा—लक्ष्मण है सो संतोष है सोई मोक्षका मित्र है इंद्रियों करके देहमें  
रहनेवाले जो इंद्रियोंके सुखरूप शत्रु उनका जो नाश करे तिसका नाम शत्रुघ्न  
है न किसीकूँ लेही जानना न किसीकूँ वैरी जानना ऐसा जो सहन स्वभाव तिसकी  
शत्रुघ्न संज्ञा है ॥ १७ ॥

हृद्युदासीनवृत्तिश्च विवेकक्रीडनम्मुने ॥

स्वरूपस्य सदा चिन्ता सा श्वेतागारसंज्ञिका ॥

तत्प्रीतिरंजनं शुद्धमजिरं कथ्यते मुने ॥ १८ ॥

भाषा—विवेक रामचंद्र अपने हृदयमें नित्य ऐसा मानते हैं कि संसारमें  
न कोई मित्र है न कोई वैरी है ऐसा स्वभाव सोई रामजीके चारों भाइयोंका  
खेलना भया है ब्रह्ममें मिलनेकी चिंता रामजीको सदा रहती है सोई दशरथकी  
सफेद महल है ऐसे महलमें प्रीतिसे लेह सोई महलकी चौक है ॥ १८ ॥

इन्द्रियाणां सदा त्रासो धूलिराशीर्णिंगद्यते ॥

निजानंदस्वरूपस्य चिंतकाः पुरवासिनः ॥ १९ ॥

भाषा—इंद्रियोंको नित्य विवेकरूप रामजी त्रास करते हैं सोई बहुतसी  
धूलि है ऐसे महल चौक धूलमें चारों भाई रामचंद्र उदासीनरूप खेल खेलते हैं  
भगवान्‌के सदा आनंदरूपके चिंता करनेवाले जो जीव हैं सो अयोध्या-  
वासी प्रजा हैं ॥ १९ ॥

ज्ञानं खड़ं शरा हर्षास्तूणचापो शमो स्मृतौ ॥

संस्काराश्वेन्द्रियाणां वै निग्रहा मुनिना कृताः ॥ २० ॥

भाषा—ज्ञान जो है सो रामकी खड़ी है सत्संगी जीवोंको देखके अनेक प्रकारके हर्ष होना सोई रामके अनेक प्रकारके बाण हैं। समदृष्टि संसारकूँ देखना सोई तर्कस है रामने इंद्रियोंको जीतना सोई धनुष है रामजीने कभी इंद्रियोंका विश्वास नहीं करते सोई वसिष्ठमुनि रामजीका मुंडन कर्ण छेदन यज्ञोपवीत इन आदि लेके संस्कार करते भये ॥ २० ॥

एवं क्रीडासमुत्साहे वर्द्धिते नृपमंदिरे ॥

चित्तो गाधिसुतो धीरोऽप्याजगाम क्षणादनु ॥ २१ ॥

भाषा—दशरथके महलमें ऐसा आनंद खेल तमाशा चारों भाई बहुत कर रहे हैं उसी समयमें चिन्तरूप जो विश्वामित्रमुनि सो आते भये बडे चतुर हैं एक क्षणमें ॥ २१ ॥

पूजितो नृपवीरेण नोदितो वरयाचने ॥

ययाचे चैव मेधावी तत्सुतौ रामलक्ष्मणौ ॥ २२ ॥

भाषा—राजोंमें वीर दशरथने मुनिजीका पूजन करके कहा कि महाराज ! आपकूँ चाहे सो मुझसे मांगो तब चतुर विश्वामित्र मुनि बोले कि हे राजन् ! तुम आपने दो पुत्र रामलक्ष्मणको हमें देवो ॥ २२ ॥

तमपक्षद्वदं ज्ञात्वा राजा नेतीत्युदीरितः ॥

बोधितो गुरुणा पश्चाददौ राजा सुहर्षितः ॥ २३ ॥

भाषा—दशरथने विचार किया कि चिन्तरूप विश्वामित्र इनके हृदयज्ञानसे पकी नहीं है कच्ची है ऐसा विचार करिके कहे कि मैं पुत्रोंको नहीं देऊँगा। परंतु पीछेसे गुरु वसिष्ठ जो शक्तिके स्वभाव हैं सो दशरथको समुद्दायके सब बात कही तो राजा बडे हर्षसे रामलक्ष्मणको विश्वामित्रको दिया ॥ २३ ॥

तावादाय गतो धीरः शांतियज्ञमथाकरोत् ॥

तृष्णागायज्ञनाशाय शीघ्रं सा ताडका मुने ॥ २४ ॥

भाषा—चतुर जो विश्वामित्र उन्होंने रामलक्ष्मणकूँ लेके अपने आश्रमपर

जायके मनरूप रावणको शांति होनेवास्ते शांति रूप यज्ञ करते भये सो यज्ञ नाश करनेके वास्ते तृष्णारूप ताढ़का आती भई ॥ २४ ॥

इता सा रामचन्द्रेण पतिता धरणीतले ॥

मोहाहंकाररूपौ द्वौ राक्षसौ मखनाशकौ ॥ २५ ॥

भाषा—तिसको रामजीने मारकर पृथ्वीमें पटक दिया तब मोहरूप सुबाहु अहंकाररूप मारीच ये दोनों आते भये यज्ञ नाश करनेकूँ ॥ २५ ॥

मोहः सुबाहुर्निहतो रामेण पतितो भुवि ॥

क्षितो रामेणाभिमानः पतितः सागरान्तिके ॥ २६ ॥

भाषा—मोहरूप सुबाहुको रामजीने मार डाला तब वह भूमिमें पड़गय और अहंकाररूप मारीचको बाणसे उठाकर समुद्रके सामने फेंक दिया ॥ २६ ॥

सुखेन कृतवान्यज्ञं मुनिस्तद्रुतमानसः ॥

राक्षसानां विनाशाय सद्विद्यां दत्तवान्यमुनिः ॥ २७ ॥

भाषा—विश्वामित्रने रामजीमें चित्त लगायके सुखसे यज्ञ करते भये और राक्षसोंके नाश करनेवास्ते विश्वामित्रने रामजीको सद्विद्या सिखाते भये ॥ २७ ॥

गृहीता रामचन्द्रेण ताः सर्वा रावणार्दने ॥

पंचज्ञानेद्रियाणां च धर्मोऽसौ गौतमो मुनिः ॥ २८ ॥

भाषा—मनरूप रावणको नाश करनेवास्ते रामजी सर्व विद्या सीखते भये पांच ज्ञानदिशियोंका सुंदरधर्म सो गौतममुनि हैं ॥ २८ ॥

अहल्या तदुचिः प्रोक्ता कुर्धमः सुरनायकः ॥

रमिता तेन सा नारी सुखं जारसमुद्भवम् ॥ २९ ॥

भाषा—तिन पांच ज्ञानेद्रियोंके धर्ममें रुचि सोई अहल्या है खोटा धर्मसो इन्द्र है पांच ज्ञानेद्रियोंके धर्ममें जो जीवोंकी रुचि और खोटे धर्म छुडा दिया जाय सोई जारका सुख है ॥ २९ ॥

तत्कर्मनाशनं विप्र शापो दुर्वीसनं क्षितौ ॥

गंभीररजसा पूता स्वकर्मविस्मृतिः शिला ॥ ३० ॥

**भाषा—**और खोटे कर्ममें अहल्याको सुकर्म मिल गया तथा देहकी चेष्टा-रूप भूमिपर सज्जनोंने निंदा किया ये दोनों गौतमकी नारी अहल्याको शाप तथा अनुश्रव है विवेक रामजीको गंभीर स्वभाव सोई रामजीके पगकी धूलि है. उस धूलि करके अहल्या पवित्र भई और अहल्या अपने कर्मको भूलि गई सोई शिला है ॥ ३० ॥

**शिलायां भिद्यमानायां पुनः प्राप्ता स्वमालयम् ॥**

**जीवश्च मैथिलो ज्ञेयः सदेहश्च विदेहवान् ॥ ३१ ॥**

**भाषा—**शिला रामजीके पगकी धूलि करके फटगई सो अहल्याकी पांच ज्ञानेद्वियोंमें प्रेमरूप अपना घर तिसको गई. जीव जो है सो जनक है. कभी देहमें खेह करता है कभी देहसे खेह छोड़ देता है ॥ ३१ ॥

**नृपस्य मोहिनी भार्या रूपचिन्ता कदा पुरी ॥**

**जनकस्यानुजो विप्र सदा दुःखं निगद्यते ॥ ३२ ॥**

**भाषा—**मायाकी दासी जो संसारको मोहती है सो मोहनी रूप जनककी ल्ली है. जीव कभी कभी भगवान्‌की चिंता करता रहता है सो जनककी नगरी है, जीव रोज दुःखी रहता है सो दुःख जनकरूप जीवको सुकेतु नाम छोटा भाई है ॥ ३२ ॥

**कन्ये द्वे तस्य संजाते हानिर्गलानिश्च सत्तम ॥**

**जनकस्य सुता जाता रूपप्रीतिः सुशीतला ॥ ३३ ॥**

**भाषा—**सुकेतुके हानिरूप तथा ग्लानि रूप ये दो लड़की भई, भगवान्‌के रूपमें प्रीति बड़ी शीतल ऐसी एक कन्या जनकके होती भई ॥ ३३ ॥

**द्वितीया जानकी प्रोत्ता रूपभक्तिश्च शाश्वती ॥**

**स्वयंवरं विचारश्च धनुरिष्टवियोजनम् ॥ ३४ ॥**

**भाषा—**भगवान्‌के रूपकी नित्य जो भक्ति सो जनककी दूसरी कन्या हुई, उसका नाम जानकी हुआ जीव कभी कभी थोड़ाविचार करता है सोई स्वयंवर है, जीवका इष्टदेव भगवान् तिससे जीवको वियोग हुआ सोई स्वयंवरमें धनुष है ॥ ३४ ॥

त्रोटनं ज्ञापनं किंचिद्ग्रपस्य जनकेन वै ॥

सत्वरं रामचन्द्रेण धनुषस्त्रोटनं कृतम् ॥ ३६ ॥

भाषा—जीवरूप जनक थोडा थोडा भगवान् के रूप को जानता है. सोई धनुष का तोड़ना है सो शीघ्र ही रामजी धनुष कूँ तोड़ते भये ॥ ३६ ॥

तद्रूपस्मरणं शीघ्रं भार्गवोऽप्याजगाम ह ॥

स्वस्थानसंस्थितिज्ञानं धनुषो रोपणं कृतम् ॥ ३६ ॥

भाषा—जीव को तथा भगवान् का वियोगरूप धनुष टूट गया तब जीव भगवान् के रूप का स्मरण करता भया सोई परशुराम मुनि आते भये भगवान् के प्रेमरूप वैकुंठ तिसमें टिकनेवाले जीव को ज्ञान भया सोई परशुराम के धनुष को रामने चढ़ाये तब परशुराम राम को दण्डवत् करके चले गये ॥ ३६ ॥

सत्कर्माद्यभिसंयुक्तः सेनाश्वरथहस्तिभिः ॥

सुखासनश्च तैः सार्घ्यमाजगाम नृपोत्तमः ॥ ३७ ॥

भाषा—और ज्ञान ध्यान जप तप आदि लेके सुंदर कर्म सोई राम के घोड़ा, फौज, गज, पालकी है, इन्होंको संग लेके आत्मज्ञान राजा दशरथ जनकपुरको बरात लेके आते भये ॥ ३७ ॥

वर्द्धितः सत्समाजश्च विवाहे सततं मुने ॥

जानक्या रघुवीरस्य चान्येषां भ्रातृणां तदा ॥ ३८ ॥

भाषा—सत्संगजिन इकट्ठे होके ईश्वर को भजन करने वाले एक सभा बनाये हैं, ये बड़ी जो सभा है सोई सत्संगी लोगोंकी सभा राम जानकी तथा और तीनों भाइयोंका विवाह भया है ॥ ३८ ॥

विदेहेन तदां दृतं कन्योदाहे नृपाय वै ॥

रूपस्मरणविज्ञानमन्त्वर्लं वित्तसंचयम् ॥ ३९ ॥

भाषा—जीवरूप जनक ईश्वर का स्मरणरूप ज्ञान दशरथ को बताते भये, सोई लड़कियोंके विवाह में दायज अचल धन, खजाना भया है ॥ ३९ ॥

विस्मृतं पुनरासं च तत्प्रयाणं नृपस्य च ॥  
पूर्वोत्ता पुत्रपतीश्च पुत्रान्वितं च भूरिशः ॥  
पुरोत्ते मुनिभिः सार्ष्माजगाम नृपोत्तमः ॥ ४० ॥

**भाषा—**आत्मज्ञानरूप दशरथको भगवान्‌को स्मरणरूप ज्ञान किंचित् भूल गया, सो फिर प्राप्त भया, सोई दशरथको फिर अयोध्या चलनेकी तैयारी भई, पहिले कहे हुए जो पुत्र, पुत्रोंकी स्त्री तथा जनकको दिया जो भगवान्‌को स्मरणरूप धन बहुत तथा पहिले वर्णन भये जो मुनि इन सबकों संग लेके चलते भये ॥ ४० ॥

समादायागतो राजा स्वपुरीं सुमतिं ततः ॥

पुनरीद्वक्समाजश्च भविष्यति कदाप्यहो ॥

इत्युत्कंठाविदेहस्य बभूव मानसे सदा ॥ ४१ ॥

**भाषा—**पहिले श्लोकमें वर्णन भये जो प्राणी तिन सबकों संग लेके सुमति नाम अयोध्याको प्राप्त भये, बड़ी भाग्य है कि कभी फिर ऐसी सभा साधु-वाँकी होवेगी ऐसा विचार करके जनक हर्षमें आनंद माने सोई जानकी आदि कन्याके विदामें जनककी विह्वलता भई ॥ ४१ ॥

यथा पुरेदं परिपीडितं जगन्मनोदशास्येन निरंतरम्मुने ॥

विवर्द्धिते दाशरथे तथा सुखं किञ्चित्समावाप नृपात्मजोऽपि सः ॥ ४२ ॥

**भाषा—**हे मुनिजी ! मनरूप रावण पहिले जैसा यह संसारको पीड़ा करता रहा सोई रामजीकी थोड़ी वृद्धि भई रहते संसारको थोड़े सुखकी वृद्धि होती भई, संसारको किंचित् सुखी देखके रामजीभी थोड़े सुखकूँ प्राप्त भये, रामजीने विचार किया कि थोड़ा सुख भया तो अब कुछ दिनमें सब दुःख नाश होवेगा ॥ ४२ ॥

इति श्रीशिवसहायबृधविरचिते वेदातरामायणे बालकांडे संवर्तवरतन्तुसंवादे रामावतारकथने सप्तमो मोहारस्यः सोपानः ॥ ७ ॥

समाप्तश्चायं बालकाण्डः ।

## अथ अयोध्याकाण्डम् ।

वरतन्तुरुवाच ।

इन्द्रियार्थान्समालोक्य विपरीतान्वपोत्तमः ॥

तच्छशार्थं नृपो राममभिषेतुं समारभेत् ॥ १ ॥

भाषा—वरतंतुसुनि बोले हे सम्वर्त मुनि ! सुनो आत्मज्ञानरूप दशरथ राजा इन्द्रियोंके अर्थको बहुत भष्ट देखके तिन इन्द्रियोंको सिखाने वाले रामजीको राज्य देनेको प्रारंभ करते भये ॥ १ ॥

आतृत्याणां भगिनी दुर्बुद्धिर्मथरा च सा ॥

शिक्षयामास कैकेयीं किंचिच्छक्तिप्रियान्तदा ॥ २ ॥

भाषा—काम, क्रोध, लोभ इन तीनों भाइयोंकी बहिन जो दुर्बुद्धि सोई मंथरानाम कैकेयीकी दासी है, सो मंथरा थोरी जो शक्तिकी प्रीतरूप कैकेयी तेसकूँ सिखाती भई ॥ २ ॥

कलंकं तु तया प्राप्तं सज्जनैर्दूरत्याजनम् ॥

रामस्य वनवासञ्च भरतस्याभिषेचनम् ॥ ३ ॥

भाषा—सज्जन लोगोंने दुर्बुद्धिरूप मंथराको त्यागते भये, सो त्यागरूप तिलंक मंथराको प्राप्त भया, रामजीकूँ बन जाने वाले और भरतकूँ राज्य देने वाले ॥ ३ ॥

याचयामास कैकेयी पूर्वदत्तवरा हि सा ॥

नृपेण द्वौ वरौ दत्तौ भार्यायाः प्रीतिचेतसा ॥

वश्यमेकं द्वितीयन्तु त्या नित्यम्प्रबद्धितः ॥ ४ ॥

भाषा—दशरथने कैकेयीकूँ पहिले दो वरदान दिये थे, प्रसन्न होकर एक वर तो तुम्हारी वश्य हम रहेंगे दूसरा वर तुम करिके हम बंधे रहेंगे ॥ ४ ॥

तस्मिन्द्यस्तौ तया काले याचितो सत्यभावतः ॥ ५ ॥

भाषा—यह दो वरोंको कैकेयीने दशरथके पास थाती रखदिया था सत्य स्वभाव सोई थाती है ॥ ५ ॥

दुःस्वभावः शरीरस्य तदारण्यं निगदते ॥

परतापादयो वृक्षा भूरितृष्णादयो लताः ॥ ६ ॥

भाषा—देहको खोटा स्वभाव सोई वन है, दूसरे जीवको दुःख आदि अनेक कष्ट देना ये सब वनके वृक्ष हैं, बहुत तृष्णा करना सोई बेलि है ॥ ६ ॥

उत्पातकारकाः सर्वे वनजास्तच्चराः स्मृताः ॥

दुःस्वभाववनस्येह विस्तारो यदि वर्ण्यते ॥ ७ ॥

भाषा—उत्पात करनेवाले काम, सोई सब वनके भील भये हैं देहको खोटे स्वभावरूप वन तिसका विस्तार जो वर्णन करो ॥ ७ ॥

तदायम्बहुभूमा च ग्रन्थो भवति सज्जनाः ॥

ईदृशं काननं दत्तं रामाय नृपभार्यया ॥ ८ ॥

भाषा—तब हे सज्जन मनुष्यो ! ग्रन्थ बहुत बड़ा हो जावेगा इसवास्ते वनको विस्तार मैंने नहीं वर्णन किया, दशरथकी प्यारी स्त्री कैकेयी ऐसा वन रामजीकूँ देती भई ॥ ८ ॥

आज्ञा नृपतिना दत्ता स्वच्छवृत्तिः सुकोशला ॥

विलापो नृपतेः प्रोक्तो दुःस्वभाववने चलम् ॥ ९ ॥

भाषा—बड़ी चतुर निर्मलवृत्ति दशरथकी सोई राजाने रामजीको वन जानेकी आज्ञा देता भया, वन जानेमें रामजीको चिन्त चलायमान नहीं भया, सोई दशरथ आदि सबको विलाप है ॥ ९ ॥

गमनं रामचन्द्रस्य वर्षाणां च चतुर्दश ॥

पञ्चकमेंद्रिया वर्षास्तदर्थाः पञ्च लोलुपाः ॥ १० ॥

भाषा—पांच कर्मन्त्रिय और पांच कर्मेंद्रियोंके अर्थ बड़े काम क्रोध आदि उत्पन्न करनेवाले ॥ १० ॥

बालादीनि च चत्वारि शरीरस्य वयांसि च ॥

एते दिग्बेदवर्षांश्च विपरीतेन्द्रियार्थता ॥ ११ ॥

भाषा—और जीवोंकी देहकी अवस्था बाल आदि चार अवस्था जैसे बाल पौगंड युवा वृद्ध ४ ये सब खोटी इन्द्रियोंके अर्थ लेके चौदह १४ वर्ष वर्तमें रहनेवास्ते हैं ॥ ११ ॥

सा राज्यवृत्तिर्भरते दत्तवान्नपुनितमः ॥

पितुर्वाक्यं रथं प्रोक्तं स्वच्छवृत्तिभवा गुणाः ॥ १२ ॥

भाषा—और खोटे इन्द्रियोंके अर्थको सिखानेवास्ते दशरथने भरतकूँ राजकी वृत्ति देते भये, और दशरथकी वाक्य रामजीकूँ बन जाने वास्ते, सो वाक्य रामका रथ है, रामजीकी सुंदरमति तिसके गुण जैसे लोभ, मोह, स्नेह, वैर ये रामजीके नहीं हैं ॥ १२ ॥

हयाश्च तत्सुखा द्रव्या रथस्य तत्स्थितो रथः ॥

सुमन्तो निश्चलत्वं च नृपस्य मुनिसत्तम ॥ १३ ॥

भाषा—सोई रामजीके रथके घोडे हैं उन घोड़ोंमें सुख मानना सोई रथकी सब सामग्री है, पिताके वचनरूप रथमें बैठना सोई रथको दौड़ना है, हे मुनिजी ! आत्मज्ञान राजाको धर्म सो कभी चित्त चलायमान नहीं होता, सोई सुमंत नाम राजाको मंत्री है ॥ १३ ॥

विवेकतनयस्यैव वियोगो रुदनम्मुने ॥

तमसाऽचंचला वृत्ती रामस्य मुनिसत्तम ॥ १४ ॥

भाषा—ऐसी रथमें बैठके रामजी बनकूँ चले तो दशरथके विवेकसरीखे पुत्रको वियोग बहुत दिनसे भया सोई राजा आदि रानियोंको तथा पुरवासियोंका रोना भया है, हे मुनि ! पिताके वचनसे रामजीकी अचलवृत्ति सोई तमसा नदी है ॥ १४ ॥

वासञ्चकार भगवान्तर्तीरे ग्लानिवर्जितः ॥

हयसंचारणं धीरः कारयामास सारथिः ॥

पितुराज्ञाविचलनं हयानामशनं स्मृतम् ॥ १५ ॥

**भाषा-**विवेकी रामजीके कभी ग्लानि नहीं होती सोई तमसाके तीर राम-  
जीका वास है, धर्ममें बड़े चतुर रामजी सोई सुमंतने घोड़ोंको फेरते भये, तथा  
पिताकी आज्ञाको रामजीने मान लिया सोई घोड़ोंको चारा खिलाते भये॥१५॥

पित्रोर्विनिन्दनं त्यागं पूर्वोक्ताः पुरवासिनः ॥

चैतन्यस्य सदा चिन्ता कृता रामेण मानसे ॥ १६ ॥

**भाषा-**तथा रामजीने कभी पिताकी निंदा नहीं किया, सोभी घोड़ोंका  
चारा है विवेक रामजी चैतन्यरूप भगवान्‌की चिंता आपके हृदयमें रोज  
करते हैं॥ १६ ॥

सा निद्रा तमसातीरे वाक्यं रामस्य निश्चयम् ॥

पितुर्मोहो वने हप्ते रामस्य वर्तते द्वयम् ॥ १७ ॥

**भाषा-**सोई तमसाके तीरपर रामजीको निद्रा आती भई निश्चय करिके  
वन जाना ऐसा रामजीको विचार सोई रामजी सुमंतसे कहे कि, रथको फिरा-  
यके ले चलो पुरवासी हमारे संग चलेंगे सो अच्छा नहीं है रामजीको वन  
जानेमें बड़ा हर्ष है तथा पिताका मोह है॥ १७ ॥

एतद्रथस्य भ्रमणं निश्चिता कानने स्थितिः ॥

राक्षसानां विनाशाय भूभारहरणाय च ॥ १८ ॥

**भाषा-**ये दोनों रथको भ्रमण करना है रामजीकी वनमें निश्चय स्थिति  
करना भूमिको भार नाश करना तथा राक्षसोंको नाश करना ॥ १८ ॥

एतत्पुनस्तद्रमनं तुष्टभावो रथूत्तमे ॥

निवर्तनं प्रजानां वै कषाय इव कालनम् ॥ १९ ॥

**भाषा-**ये दोनों प्रसन्न होके तमसाके तीरसे रामजीको फिर वनमें गमन  
भया जैसा काढा उकलता है तैसे पुरवासी प्रजाओंका पीछा आना भया ॥१९॥

पुरवासिनाम्विलापश्च पुनः प्रोक्तं मुनीश्वर ॥

रामश्च स्वस्वभावेन गुहेनाशु सुतोषितः ॥ २० ॥

भाषा—सोई प्रजाको फिर विलाप भया है हे मुनिजी ! रामजीका स्वभाव सोई युहनाम भील है सो भील रामजीको प्रसन्न करता भया ॥ २० ॥

**स्वभावाचलनं विप्र शृंगवेरपुरः स्मृतः ॥**

**ओदासीन्यं च रामस्य शिंशिपातरसत्तमः ॥ २१ ॥**

भाषा—रामजी अपने स्वभावसे कभी चलायमान नहीं होते सोई शंगवेर पुर है, रामजीके न कोई मित्र है न कोई वैरी है सोई शिंशिपा वृक्ष है तिसके नचे राम लक्षण जानकी सहित बसते भये ॥ २१ ॥

**रूपध्यानं कृतन्तेन रामेण तरसन्निधौ ॥**

**तदासनम्मङ्गबाहो प्रेमोत्कंठाः कुशाः स्मृताः ॥ २२ ॥**

भाषा—रामजी इंश्वरके रूपको ध्यान करते भये सोई आसन युह बनाता भया रामजी ध्यान करके प्रेमसे गङ्गद होगये सोई कुश हैं तिन कुशोंका आसन बनाया ॥ २२ ॥

**कुकर्मणो निवृत्तिश्च सा गुहस्यैव भावना ॥**

**तैः कुशैः रामचंद्रस्य गुहेन कृतमासनम् ॥ २३ ॥**

भाषा—रामजी खोटे कर्मसे चिनको खेंचे रहते हैं सोई युहने रामजीकी भक्ति की तिन कुशों करके युह रामजीका आसन बनाता भया ॥ २३ ॥

**तस्मिन् शिष्ये स्वपत्न्या च रामो निद्रां चकार वे ॥**

**सत्सभा विरहाक्रान्ता बुद्धिर्निद्रा स्मृता मुने ॥ २४ ॥**

भाषा—तिस आसनपर जानकी सहित रामजी सोते भये हे मुनिजी ! रामजीको साधुओंकी समांका वियोग होजाता है उस वियोग करके रामजीकी बुद्धि दुःखी होजाती है सोई निद्रा करते भये ॥ २४ ॥

**असद्रातादयो धर्मा ये चैवं मायया कृताः ॥**

**ते विभूषणवस्त्राद्यास्त्यक्ता द्वाभ्यां गुहान्तिके ॥ २५ ॥**

भाषा—माया करके रचे जो खोटे खोटे धर्म सोई संसारके गहने तथा वस्त्र हैं तिन सबको राम लक्ष्मण युह मित्रके सामने त्यागते भये ॥ २५ ॥

गुहलक्ष्मणयोः सुते सपनीके रघूतमे ॥

बभूवतुः सत्कथनं सद्विचिन्तनमेव च ॥ २६ ॥

भाषा—रामजीको तथा जानकीको सोये जानके युहका लक्ष्मणका संवाद भया दोनों सुंदर धर्म तथा ईश्वरकी चिंता करते भये सोई संवाद है ॥ २६ ॥

संवादजागरौ प्रोक्तौ तौ तयोर्जाह्वीतटे ॥

शरीरशुद्धिर्योगेन पूर्वोक्ता जाह्वी स्मृता ॥ २७ ॥

भाषा—पहिले वर्णन भई जो गंगाजी तिसके तीर युहका तथा लक्ष्मणका संवाद तथा जागते भये सुंदर धर्मका कथन सो संवाद भया है. ईश्वरकी चिंता करना सो जागना भया ॥ २७ ॥

शुद्धमाचरणन्तो यम्बाह्याभ्यंतरयोः शुचिः ॥

तटौ द्वौ मुनिभिः प्रोक्तौ तरंगिण्योऽनुशासिकाः ॥ २८ ॥

भाषा—शुद्ध कर्मका करना सोई गंगाका जल है और देहके बाहर जल-मृतिकासे शौच करना, हृदयमें ज्ञानसे शौच करना ये दोनों कर्म गंगाके दो तीर हैं, गुरुकी दीक्षा लेना सोई गंगाकी लहरें हैं ॥ २८ ॥

स्वभावाचरणं वंशं तत्प्रीत्या यष्टिसंज्ञया ॥

योगाचरणया नावा तारणं शुद्धसंस्थितिः ॥ २९ ॥

भाषा—जीवोंके स्वभावका आचरण सोई बांस है उसी स्वभावरूप बांसमें प्रीति करना सोई बांसकी लाठी है. योगका करना सो नाव है शुद्ध कर्ममें टिकना सो गंगाका उतरना है इस प्रकार संयोगसे युह राम-लक्ष्मण जानकीको गंगाके पार लेगया ॥ २९ ॥

कृतं गुहेन सहसा प्रयागं हृदयस्थलम् ॥

सज्जनैर्भाषणं स्नानं तस्य प्रीतिः सरस्वती ॥ ३० ॥

भाषा—गुहने पार उतारे रामजीका हृदय सो प्रयाग है सज्जन मनुष्योंसे भाषण करना सो स्नान है इसी सज्जनेके भाषणमें प्रीति सो सरस्वती है ॥३०॥

तत्संगतौ च यत्प्रेम तद्वचिर्यमुना स्मृता ॥

वटः स्वधर्मो विप्रेद्र सत्कर्माचरणो मुनिः ॥ ३१ ॥

भाषा—सज्जन जीवोंके मिलापमें प्रेम और उसी प्रेममें रुचि सो यमुना है जीवोंका अपना अपना धर्म सो अक्षय वट है सुंदर कर्म करना सो भरद्वाज मुनि है तिनके आश्रमपर रामजी जाते भये ॥ ३१ ॥

पूजितो येन रामो वै जानकीलक्ष्मणान्वितः ॥

सुखमाप महाराजो रामो राजीवलोचनः ॥ ३२ ॥

भाषा—सो भरद्वाज मुनि राम लक्ष्मण जानकीको पूजन करते भये भरद्वाज मुनिके आश्रमपर एक रात्रि रामजी रहे तहाँ बहुत सुख पाते भये ॥ ३२ ॥

उवास रामो मुनिना सुपूजितो विदेहपुत्र्या च सहानुजो विभुः ॥

प्रातः समुत्थाय प्रियात्सहोदरैः स्नानं त्रिवेण्यां विधिवच्चकार वै ३३

भाषा—मुनि करके पूजित ऐसे रामचंद्र जानकी लक्ष्मण भरद्वाज मुनिके आश्रमपर रात्रि वसके प्रातःकाल उठके पहिले वर्णन हुई जो त्रिवेणी तिसमें विधिपूर्वक शुद्ध आचरण है रामजीका सोई विधि है, और पहिले वर्णन भया जो जल तिसमें डरसे हीन कर्म रूप स्नान राम लक्ष्मण जानकी करते भये ॥ ३३ ॥

इनि श्रीवेदान्तरामायणे अयोध्याकांडे पंथशिवसहायबुधविरचिते संवर्तवरतन्तुसं-

वादे रामचंद्रभारद्वाजश्रमनिवासे प्रथमो मोक्षार्थ्यः सोपानः ॥ १ ॥

### वरतन्तुरुद्धवाच ।

आत्मज्ञानस्य स्वपितुः रामेण चिन्तनम्मुने ॥

स वाल्मीकिमुनिः प्रोक्तः शङ्खजेता जयो गिरिः ॥ १ ॥

भाषा—वरतन्तु मुनि बोले रामजीने अपने पिता जो आत्मज्ञान तिसका चिन्तन करते भये सो वाल्मीकि मुनि हैं तिनके आश्रमपर रामजी जाते भये। रामजीका पराक्रम कामादि शत्रुओंको जीतनेमें बड़ा बलवान् है, सो चित्रकूट पर्वत है, वाल्मीकी आज्ञा पायके तिस चित्रकूटपर रामजी वसते भये ॥ १ ॥

रामस्य सततं प्रीतिर्या रूपे सा पयस्विनी ॥

सभयादिगुणास्तत्र मुनयो वनवासिनः ॥ २ ॥

भाषा—भगवान् के रूपकी प्रीति रामजी के हृदयमें नित्य बनी रहती है, सोई मंदाकिनी नदी है, अधर्मके भय आदि गुण रामजीमें हैं सो इस वनके मुनि हैं, अधर्मसे डरे सोई महात्मा है ॥ २ ॥

इंद्रियाणाम्प्रचंडानामविश्वासादयो गुणः ॥

तैग्यरण्यचरैर्नित्यं सेवितो जानकीपतिः ॥ ३ ॥

भाषा—बड़ी जर्दस्त जो इन्द्रिय हैं तिनका विश्वास रामजी कभी नहीं करते ऐसा गुण सोई वनके रहनेवाले मनुष्य हैं, सो मनुष्य रामजीकी सेवा करते भये ॥ ३ ॥

गिरेवै जयरूपस्य चित्रकूटस्य नित्यशः ॥

अचलत्वं च तत्प्रेम कुटीरो रामसंकृतौ ॥ ४ ॥

भाषा—पहिले वर्णन भया जो रामजीका काम आदि जयरूप चित्र-कूट सो अचल है तथा उस अचलमें प्रेम ये दोनों राम लक्ष्मणकी पर्ण-कुटी हैं ॥ ४ ॥

तद्गिरौ निश्वला प्रीतिर्वसती राघवस्य वै ॥

प्रपञ्चराहितं सौख्यं प्राप्तं रामेण तत्र च ॥ ५ ॥

भाषा—ऐसे चित्रकूटमें रामचंद्रकी प्रीति निश्वल है सोई चित्रकूटपर रामचंद्रका वास है, रामजी संसारके प्रपञ्चसे रहित हैं सोई चित्रकूटका सुख है ॥ ५ ॥

अयोध्या सुमतेर्भूरिर्निश्वलेनैव संकृता ॥

तत्सुमन्तागमः प्रोक्तः पुना रामांतिकान्मुने ॥ ६ ॥

भाषा—जिसको चित्र कभी धर्मसे चलायमान नहीं होता सो सुमंतरूप सारथिने सुमतिरूप अयोध्याका प्रेम निश्वल होके किया सोई रामजीके पाससे सुमंतका फिर अयोध्यामें आना भया है ॥ ६ ॥

सत्समाजे विनष्टोऽभूदात्मज्ञानं निरंतरम् ॥

तदेव मरणम्प्रोक्तमयोध्याधिपतेस्तदा ॥ ७ ॥

भाषा—सत्पुरुषोंकी समाजमें रोज आत्मज्ञान नष्ट होगया सोई दशरथका मरण है ॥ ७ ॥

कृतं कोलाहलं सर्वैः सज्जनैः सत्सभातले ॥

पूर्वोक्तनृपभार्याभिर्युगपत्तद्विलापनम् ॥ ८ ॥

भाषा—सत्पुरुषोंकी समाजमें आत्मज्ञानको नष्ट देखके उसी समाजमें बैठके सज्जनोंने बहुत उच्चस्वरसे रुदन किया सोई पेस्तर वर्णन भई सो राजाकी श्री हैं सो सब इकट्ठी होयके विलाप करती भई ॥ ८ ॥

निर्दृयत्वं सदा शक्तेः तत्केकयपुरं स्मृतम् ॥

धर्माचरणदूतास्ते वसिष्ठेनैव प्रेरिताः ॥

गतास्ते तत्पुरं प्रोचुः क्रूरं केकयभूपतिम् ॥ ९ ॥

भाषा—शक्ति निर्दय है जीवको फँसानेमें भोह नहीं करती कि यह गरीब दुःख पावेगा, ऐसा शक्तिका स्वभाव है रोई कश्मीर नगर है वसिष्ठजीने अपने धर्मके आचारमें बड़े पुष्ट सो सब दूत हैं तिन दूतोंको कश्मीरको भेजने भये, दूत जायके कश्मीरको केकथीका ऋस्वभाव सोई कश्मीरका राजा है तिससे बोलते भये ॥ ९ ॥

नृपस्य मरणं शीत्रं गृहीत्वा तत्सुतौ तदा ॥

कुमत्या प्रापितौ तत्र पूर्वोक्तौ नृपनंदनौ ॥ १० ॥

भाषा—जलदी आत्मज्ञान दशरथको मरण कहिके कुमति करके कश्मीरको लेगये जो राजाके दो पुत्र भरत शत्रुघ्न तिन दोनोंको संग लेके ॥ १० ॥

आयाता सुमंतिन्दूता भरतानादरम्प्रजाः ॥

भगवद्वितकाः सर्वे प्रजाश्च पुरवासिनः ॥ ११ ॥

भाषा—दूत सुमतिरूप अयोध्याकूं आसे भये, तब भगवानके भजन करूनेवाले रूप जो सब पुरवासी हैं सो भरतके अनादरको ॥ ११ ॥

चकुश्चानादरन्तस्य हास्यरूपनिरंतरम् ॥

आश्वासितौ वसिष्ठेन क्षमामर्गेण रोदनम् ॥ १२ ॥

भाषा—करते भये, क्या अनादर किये रोज भरतकूँ देखके हँसना सोई अनादर है और वसिष्ठजीने क्षमारूप आश्वासन किया सोई भरत शत्रुघ्नका रोना है ॥ १२ ॥

चक्तुः शपथं वीरौ कौशल्यां भरतोऽर्जवम् ॥

चकार मातुः स्वस्यैव भर्त्सनं धैर्यनाशनम् ॥ १३ ॥

भाषा—भरतका कोमलस्वभाव सोई दोनों भाई सोगंद करते भये रामजी-का वियोग तथा दशरथका मरण सुनिके भरत शत्रुघ्नका धीरज नष्ट होगया सोई केकईको भरत ताडना करते भये ॥ १३ ॥

दाहादीनि समस्तानि कर्माणि मुनिसत्तमः ॥

कारयामास भूपस्य शुद्धाचाराणि तेन वै ॥ १४ ॥

भाषा—सब जीवोंका शुद्ध आचार सोई दशरथकी दाहक्रियादि कर्म वसि-ष्ठने भरतसे करवाये ॥ १४ ॥

पूर्वोक्तसेना जननी बांधवैः पुरवासिभिः ॥

गुरुणा विप्रवर्गैश्च संयुतो गमनञ्च सः ॥ १५ ॥

भाषा—पहिले वर्णन भई जो फौज तथा माता भाई पुरवासी गुरु ब्राह्मण इन सबों करके संयुक्त होकर भरतने रामजीके पास जानेकी तैयारी की ॥ १५ ॥

परमानंदरूपं हि गुहेन भाषणं कृतम् ॥

रामधैर्यस्वरूपं च तत्प्रतीति निवासनम् ॥ १६ ॥

भाषा—भरत परमरूप आनंदमें लीन भये सोई गुहका तथा भरतका संभा-षण भया रामजीका धीरज स्वभाव सोई गुहका निश्चय है श्रीरामको मिलने वास्ते भरत जाते हैं सोई भरतका गंगा तटपर टिकना भया ॥ १६ ॥

सैन्यविश्वासनं चक्रे रामध्यानेन संयुतः ॥

भरतस्वस्वभावेन सैन्यमातृबांधवैः ॥ १७ ॥

भाषा—भरत शत्रुघ्नि रामजीका ध्यान करते भये सोईं फौजको विश्वास-  
देना है तथा भरत अपने स्वभावमें दृढ़ है सोईं सेना भाई गुरु माता सहित ॥ १७॥

गंगापारं सुखेनासो गुह्यप्रेरितनौक्या ॥

प्रयागस्थो मुनिश्चके सत्कार्य्ये भरतस्य च ॥ १८ ॥

भाषा—गुहसे चलाई नाव करके गंगाके पार गये प्रयागजीमें टिके जो  
मुनि भरद्वाज पाहिले वर्णन हुये सो भरतका सत्कार करते भये ॥ १८ ॥

यमादिभिर्योगपथैः सन्तुष्टो नृपनन्दनः ॥

बभूवाव्यक्तकथनं श्रोतृणां वाचिनां तथा ॥ १९ ॥

भाषा—किस चीजसे सत्कार किया खोटा वचन नहीं बोलना इंद्रियोंको  
जीतना इन आदि अनेक प्रकारके सुंदर कर्मों करके सत्कार किये तब भरत  
संतुष्ट होके चित्रकूटको गये तब चित्रकूटपर सुननेवाले जीवोंके तथा कहने-  
वाले जीवोंके बीचमें ईश्वरका धर्म वर्णन भया ॥ १९ ॥

चतुर्णैव भ्रातृणामन्येषां च परस्परम् ॥

समागमस्स विव्यातः परमात्मप्रकाशकः ॥ २० ॥

भाषा—तथा चारों भाई रामजीके और अनेक जीवोंके आपसमें परमात्माके  
रूपका प्रकाश मालूम पड़ा सोईं सबका चित्रकूटपर आना भया ॥ २० ॥

पादुके रामचन्द्रेण सत्यबुद्धिः सहिष्णुता ॥

स्वानुजाय स्वयन्दत्ते प्रीत्या गृह्यागमत्पुरीम् ॥ २१ ॥

भाषा—सत्य राखना हृदयमें तथा कर्दै अपनेको दुःख देवै सो उसको दुःख  
देनेका विचारना नहीं ये दो पादुका हैं सो दोनों पादुका रामजी प्रसन्न होके  
भरतको देते भये भरतं दोनों पादुका अपने स्वभाव रूप शिरपर धरिके  
अयोध्यापुरीमें आते भये ॥ २१ ॥

भरतो भ्रातृसहितः सेनामातृमुनीश्वरैः ॥

वासं चक्रे पुरी बाह्ये पंचक्रोशमिते शुभे ॥ २२ ॥

भाषा—भाई सेना माता सुनश्वर सहित आयके आप भरत अकेले पुरीके बाहर पांच कोसपर टिकते भये ॥ २२ ॥

**कदापि सुमतिः कुर्यात्कुमतेः संगमद्वतम् ॥**

**अतो तद्वरतः स्थित्वा पंचदुष्टेन्द्रियोऽज्ञते ॥ २३ ॥**

भाषा—भरत विचारते भये कि दैवयोगसे सुमति जो है सो कुमतिकी संगत कर लेवै तो बड़ा अश्वर्य हो जावे इसवास्ते पांच दुष्ट इंद्रियों करके त्यागा भया जो सुंदर कर्म उसी पांचकोशमें वास करते भये ॥ २३ ॥

**सत्कर्माचरणे वीरो नन्दिग्रामे सुशोभने ॥**

**तत्प्रीतिरुपिणीम्बद्धा जटां राम इव स्वयम् ॥ २४ ॥**

भाषा—सुंदर कर्मका आचरण करना सोई नंदिग्राम है तिसमें टिकते भये नंदिग्रामकी प्रीतिरुप जटा रामसरीखे भरतभी शिरमें बांधिके ॥ २४ ॥

**द्रयोः पादुकयोश्चक्रे रंजनं प्रीतिसेवनम् ॥**

**शामादीनाम्प्रजानां वै विपरीतोद्भवोद्भवैः ॥**

**भरतो रक्षणं चक्रे दुःखितानां मुहुर्मुहुः ॥ २५ ॥**

भाषा—पेस्तर वर्णन भये जो दोनों पादुका तिनको स्नेहरूप प्रीति सोई सेवन करते भये शम दम यज्ञ आदि और जो सुकर्म सोई सब प्रजा भये तिन सबकी रक्षा करते भये भरत खोटी इंद्रियोंका जो खोटा अर्थ तिन करिके वारंवार दुःखी जो प्रजा तिनकी रक्षा करते भये ॥ २५ ॥

इति श्रविदान्तरामायणे पं० शिवसहायनुधविरचिते नंदिग्रामे भरतनिवासे

**द्वितीयो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ २ ॥**

**इत्ययोध्याकांडं समाप्तम् ।**

## अथारण्यकांडः ।

### वरतन्तुरुवाच ।

कुज्ञानसमुदायाश्च ते मृगाः काननौकसः ॥  
सलक्ष्मणेन रामेण हता निपतिता क्षितौ ॥ १ ॥

भाषा—वरतन्तुसुनि बोले खोटा खोटा ज्ञान जैसे परम्परीको भोगना परधन हरना चोरी करना इन आदि बहुत ज्ञान सो सब वनके मृग भये तिन मृगोंको राम लक्ष्मण मारते भये वे मृग भूमिपर पडगये ॥ १ ॥

ज्ञानहर्षस्तीक्ष्णैर्जवानारण्यसंश्रितान् ॥  
राक्षसानपि पूर्वोक्तगान्मनोरावणप्रेरितान् ॥ २ ॥

भाषा—तथा मन रावण करके आज्ञा पायके वनमें फिरते हैं जो राक्षस तिनको भी रामजी ज्ञानमें हर्ष मानना सोई बाण है तिन बाणों करके मारते भये ॥ २ ॥

रूपभत्तयाश्च जानक्या पादौ तच्छ्रुतिकीर्तने ॥  
आलस्यो निजतुंडेन निजघान सुरेशाजः ॥ ३ ॥

भाषा—विवेकका चरित्र सुनना तथा कीर्तन करना ये दोनों भगवान्‌के रूपकी भाक्ति जो जानकी तिसके दो पग हैं तिस पगको आलसरूप जो काग सो जानकी विवेकके चरित्रको सुनती तथा कीर्तन करती भई इन दोनोंको नहीं करने देना सोई तुंड है तिस तुंड करके जानकीके पगमें घाव करता भया ॥ ३ ॥

अप्रीतिकृतहर्षेण जानक्याश्चरणांबुजे ॥  
पातयामासं तस्याक्षी शरेणैकेन राघवः ॥ ४ ॥

भाषा—आलसरूप काग जानकीको नित्य मना करता भया कि तू परमेश्वरकी प्रीति छोड़ दे. जानकीने दुष्टका वाक्य नहीं माना इसवास्ते उस आलस्यरूप कागकी प्रीति जानकीमें नहीं है ऐसी अप्रीतिमें जो कागको हर्ष सोई तुंडकी

धार है उसी धार करके जानकके चरणमें मारता भया तब रामजी एक बाण करके जयंतकी एक आंख काटिके भूमिपर गिराय देते भये ॥ ४ ॥

**उपदेशशरणैकं क्रोधाकुलितलोचनः ॥**

**आलस्यो व्याकुलो भूत्वा ऋवाक्यादिसंगतौ ॥ ५ ॥**

भाषा—किस बाणसे रामजीने आंख काटे उपदेशरूप बाणकरके क्रोध करके रामजीका नेत्र लाल होगया तब आलस्यरूप काग खोटा वचन बोलना ऐसा अनेक प्रकारका बुरा काम तिसकी सभामें ॥ ५ ॥

**गतवान्प्राणरक्षार्थं न केनापि सुरक्षितः ॥**

**पश्चाच्छरणमायातो रामस्य चरणाब्जयोः ॥ ६ ॥**

भाषा—अपने प्राणकी रक्षा करने वास्ते जाता भया परंतु किन्हीं दुष्टोंकी सामर्थ्य नहीं भई कि रक्षा कर सके तब रामजीके चरणको शरण आया ॥ ६ ॥

**शौर्यार्ज्योत्त तन्दृष्टा रक्षित्वा राघवोऽत्यजत् ॥**

**तदा गतः समाजग्मुर्दृष्टकर्मादिराक्षसाः ॥**

**चित्रकूटस्थितं ज्ञात्वा रामं सत्यपराक्रमम् ॥ ७ ॥**

भाषा—कैसे रामके चरण हैं एक तो शररूप है, दूसरा कोमलतारूप है, रामजी शरण जानके कागके प्राणकी रक्षा करते भये. तब काग चला गया तब दुष्टकर्म पेस्तर वर्णन हुए जो राक्षस सो चित्रकूटपर रामजीकूँ इके जानकर रामजीके सामने आते भये ॥ ७ ॥

**आर्द्धिं सहसोद्योगं चकुर्मरणकांक्षिणः ॥**

**सद्वर्मी मुनयश्चैव चित्रकूटवनाश्रिताः ॥ ८ ॥**

भाषा—राक्षस जलदी मरणकी इच्छा करके रामजीको दुःख देनेवास्ते उपाय करते भये तथा चित्रकूटके वनमें रहनेवाले सुंदरधर्मरूप जो मुनि हैं वो भी ॥ ८ ॥

**तेऽपि प्रापुर्महादुःखं पीडिता राक्षसैस्तथा ॥**

**तान्पीडितान्विलोक्याशु रामस्त्याज तं गिरिम् ॥ ९ ॥**

भाषा—राक्षसोंसे पीड़ा पायके दुःखी होते भये रामजीने विचार किया कि हमारे वास्ते राक्षस आते हैं सो मुनिलोग भी दुःख पाते हैं हम चित्रकूटदर नहीं होते तो राक्षस रोज यहां नहीं आते ऐसा विचारके और मुनियोंको दुःखी देखके चित्रकूट त्यागिके दूसरे बनकूं चले ॥ ९ ॥

**शत्रुघ्न्याणां विजयं चित्रकूटं रघूत्तमः ॥**

**तत्याज स्ववशं ज्ञात्वा नैते मां जयितुं क्षमाः ॥ १० ॥**

भाषा—काम क्रोध लोभ इन तीनों वैरियोंको जीतनारूप जो चित्रकूट तिसकूं अपनी वश जानके रामजी ये वैरी हमें नहीं जीत सकेंगे ऐसा जानिके चित्रकूटको त्यागते भये ॥ १० ॥

**कामादिसारं संगृह्य भूभारहरणाय च ॥**

**रक्षोविनाशनं चेव तैर्विना न भविष्यति ॥ ११ ॥**

भाषा—रामजीने विचारा कि कामका सार सुख, लोभका सार संसारमें अपनी स्तुति होना, क्रोधका सार वैरीको मारनेमें दया नहीं करना इन तीनोंका थोरा थोरा सार भूमिके भार नाश करने वास्ते लेते भये इन तीनों सारोंके विना राक्षसोंका नाश नहीं होगा ऐसा विचार करके ॥ ११ ॥

**एवं विचार्य सहसा जगामात्रेरथाश्रमम् ॥**

**मार्गं रुद्धा विराधस्तु ततस्तस्य पुरः स्थितः ॥ १२ ॥**

भाषा—रामजीने ऐसा विचार किया कि अब मुनियोंके पास चलना, तो प्रथम अत्रिमुनिके आश्रमकूं चलते भये, तब रामजीका रस्ता घेरके रामजीके सामने विराधनाम राक्षस खड़ा होगया ॥ १२ ॥

**राधः सदुपदेशश्च तेन यो विगतो भुवि ॥**

**सविराध इति ख्यातो भ्रमो भयविवर्द्धनः ॥ १३ ॥**

भाषा—सुंदर काजके उपदेशकूं राध कहते हैं, शास्त्रमें उसी राधसे दूर होजावे तिसका नाम विराध है, भयको बढ़ानेवाला जो भ्रम है उसका नाम विराध है ॥ १३ ॥

जानकी तेन सन्नीता ब्रह्मभक्तिश्च शाश्वती ॥

अतो रामेण तरसा हृतः प्राप्ता च जानकी ॥ १४ ॥

भाषा—सो विराध जानकीको हारि लेगया, इसवास्ते जलदी विराधको मारके रामजी जानकीको ले आये ॥ १४ ॥

तं हत्वा रामचन्द्रश्च जगामात्रः शुभाथ्रमम् ॥

न सन्ति शत्रवो यस्य जन्मतत्त्वय एव ते ॥ १५ ॥

भाषा—रामजीने तिस विराधको मारके सुंदर जो अत्रिमुनिका आश्रम तिसपर जाते भये, जन्मसे काम क्रोध लोभ ये तीन शत्रु जिसके नहीं है ॥ १५ ॥

सोऽत्रिमुनिः समाख्यातः शीलो ब्रह्मसवा महान् ॥

निंदा न जन्मतो यस्याः सानसूयेति कथ्यते ॥ १६ ॥

भाषा—तिनको अत्रिमुनि शास्त्रमें कहते हैं, सो अत्रिमुनि शीलका नाम है, शील ब्रह्मका बड़ा मित्र है जन्मसे जिसकी हृदयमें जीवमात्रकी निंदा नहीं है उसको शास्त्रमें अनसूया कहते हैं ॥ १६ ॥

शीलवृत्तिर्वरा श्रेष्ठा मुनिपत्री पतिव्रता ॥

सोऽत्रिः संपूजयामास स्वस्वभावोद्भवैर्गुणैः ॥ १७ ॥

भाषा—शीलकी वृत्तिका अनसूया नाम ह, बड़ी श्रेष्ठ है, शीलरूप अत्रिमुनि जिनकी स्त्री है, शीलको छोड़के दूसरी जगह अनेक दुःख पावे तो भी नहीं जाती, शीलरूप अत्रिमुनि अपने स्वभावसे उत्पन्न गुण करके रामजीको पूजन करते भये ॥ १७ ॥

जानकीं शिक्षयामास स्ववृत्तिं मुनिवल्लभा ॥

सत्सभान्वेषणं प्रेम दुःस्वभाववनेऽभवत् ॥ १८ ॥

भाषा—अत्रिमुनिकी प्यारी जो शीलकी वृत्ति अनसूया सो अपनी बड़ी उत्तमवृत्ति जानकीको सिखाती भई खोटा स्वभावरूप वनमें जीवको मोक्ष करनेवाली सभाको प्रेम करके सोध लगाना ॥ १८ ॥

रामचन्द्रस्य भ्रमणं पितृवर्षप्रमाणतः ॥  
पल्नीध्रातृसमायुक्तो जन्माश्विवारिदः प्रभुः ॥  
शरभंगं मुनिन्द्रधृष्टं जगाम रघुनन्दनः ॥ १९ ॥

भाषा—सोई रामजीको वर्ष १४ वनमें भ्रमण करना भया है, कैसे रामजी हैं जानकी लक्ष्मणसंयुक्त हैं. तथा जन्मवाधारूप जो अग्नि तिसको बुझानेवास्ते मेघरूप है, सो रामजी शरभंगमुनिका दर्शन करने वास्ते शरभंग मुनिके आश्रम-पर गये ॥ १९ ॥

तेजसा शरभंगेन पूजितो जानकीपतिः ॥  
शौचाद्याचारसाहित्यैस्सेपां प्रीतिः स्तुतिः कृता ॥ २० ॥

भाषा—तपका तेज सोई शरभंग मुनि है सो मुनिने शौच आचार आदि और उत्तम उत्तम कर्म हैं तिन्हों करके रामजीका पूजन किया, तथा राम लक्ष्मण जानकी उनके चरणमें बड़ी प्रीति की, सोई शरभंगमुनि रामजीकी रत्नति करते भये ॥ २० ॥

कौशलप्रीतिरचिता चिताश्री रामसंगतिः ॥  
दग्ध्वा देहं मुनिः शीघ्रं विवेके राघवेऽविशत् ॥ २१ ॥

भाषा—रामजीमें बड़ी चतुर प्रीति उस प्रीतिकी चिता बनाय तथा राम-जीकी संगति सो अग्नि भई है ऐसी सुंदर उत्तम चिता अग्निसे भावरूप देहका भस्म करके विवेकरूप रामजीमें शरभंग मुनि मिल गये ॥ २१ ॥

आविचारसुतीक्ष्णेन कृत्वा संभापणम्प्रभुः ॥  
सन्मार्गमुपादिश्याशु सुतीक्ष्णे मुनिसत्तमे ॥ २२ ॥

भाषा—रामजीके विचारसे रहित कर्म सोई सुतीक्ष्ण मुनि है तिससे संगाषण करके सुंदर धर्मका रस्ता सुतीक्ष्णको बतायके ॥ २२ ॥

रामो जगाम वेगेन कुंभजस्यानुजात्रमम् ॥  
मानवृद्धेश्च जीवस्य कदापि रघुनन्दनः ॥ २३ ॥

**भाषा—**जलदी रामजी अगस्त्य मुनिके छोटे भाईके आश्रमपर जाते भये कभी जीवके अभिमानकी वृद्धि होती है सोई अगस्त्यका भाई है ॥ २३ ॥

**दीनस्वभावो जीवानां सोऽगस्त्यो मुनिसत्तमः ॥**

**मानवृद्धिः कदा तस्य सोऽगस्त्यस्यानुजः स्मृतः । २४ ॥**

**भाषा—**जीवोंका स्वभाव बड़ा गरीब है सोई अगस्त्य मुनि है जावाके कभी मालकी वृद्धि होती है सो अगस्त्यका छोटा भाई है ॥ २४ ॥

**तस्मै सन्मार्गमुद्दिश्य कुंभजाथ्रममागतः ॥**

**पूजितः कुंभजेनैव रामो दीनदयागुणैः ॥ २५ ॥**

**भाषा—**तिस अगस्त्यके भाईकूँ दूधरका भजनरूप रस्ता बतायके रामजी अगस्त्य मुनिके आश्रम पर आये, जीवोंका दीन स्वभाव जो अगस्त्य है सो दीनके गुण दया आदि बडे उत्तम धर्म तिस करके रामजीका पूजन करते भये ॥ २५ ॥

**अगस्त्य वचनाद्रामो जयाहैन्द्रं महद्वनुः ॥**

**राक्षसानां विनाशाय समतालक्षणं विभुः ॥ २६ ॥**

**भाषा—**रामजीने अगस्त्यका वचन मालकर राक्षसोंका नाश करनेवाले समरूप इन्द्रका धनुष ग्रहण करते भये ॥ २६ ॥

**अगस्त्याज्ञा च संगृह्य रामो गोदावरीं यथो ॥**

**या ददाति स्वयं गां वै निर्मलां सततं स्थिताम् ॥**

**दृष्टिम्बह्मस्वरूपे च सा वै गोदावरी स्मृता ॥ २७ ॥**

**भाषा—**जो कोई वस्तु आपहीसे ब्रह्मके स्वरूपमें निय वास करनेवाली और निर्मल दृष्टि देवे उसकूँ गोदावरी नदी शाव्रमें कहते हैं सो रामजी अगस्त्यमुनिकी आज्ञा पाएके ऐसी गोदावरी नदीकूँ जाते भये ॥ २७ ॥

**उदासीनमतिर्ब्रह्मन् सा वै गोदावरी नदी ॥**

**विहर्षो मन्दभावश्च गोदावर्यस्तटौ स्मृतौ ॥ २८ ॥**

भाषा—हे भगवन् ! संसारमें उदासीनमति रखना कि संसाररूप बंदीधरसे मुझे कब छुड़ावोगे ऐसी मति जो है सर्वे गोदावरी नदी है संसारके मुखरूप चरित्रको देखके हर्ष नहीं मानना तथा पशु सरीखे अपने देहमें मंदता हानि मानना ये दोनों गोदारीके तट हैं ॥ २८ ॥

अनुद्वेगजलेनैव पूर्यमाणा दिवानिशम् ॥

क्षमालंबं च रामस्य लक्ष्मणस्य मुकोमलम् ॥ २९ ॥

भाषा—दुःखको पायके जीव उद्वेगको न प्राप्त होवे सो गोदावरीका जल है तिस जल करके रातदिन पूर्ण रहती है क्षमाका आलंब तो रामजीका और कोमलस्वभाव लक्ष्मणका ॥ २९ ॥

सत्संगस्मारिणी बुद्धिः सा वभूव द्वयोस्तदा ॥

तत्रानन्दयुते वासे संस्थिते रघुनन्दने ॥ ३० ॥

भाषा—इन दोनों लक्षणों करके दोनों भाइयोंकी रातदिन सत्संगके स्मरणमें बुद्धि होती भई, तिस गोदावरके तटपर आनंदसे रामजीको स्थित जये संते ॥ ३० ॥

किञ्चित्कालं व्यतीतं च सुखमानं दचिन्तनम् ॥

दुर्मतेस्तनया ऋणा दुःसंगेच्छातिकूरिणी ॥ ३१ ॥

भाषा—अनंदरूप भगवान् को चिंतना करते सत्ते दुर्मति जो, केकसी तिसी लड़की खोटे कर्मकी संगति करनेकी इच्छा बड़ी क्रूर ॥ ३१ ॥

आजगामातिवेगेन रावणस्य सहोदरी ॥

रामस्य सत्त्विर्धि दुष्टा दुष्टकामेन तापिता ॥ ३२ ॥

भाषा—ऐसी रावणकी बहिन शूरपणसा बडे वेगसे रामजीके सामने आती भई रामजीका सुंदर कर्म देखके उसको दुष्ट कर्म मालूम पड़ा सो दुष्टकर्म कामदेव करके जालि रही है ॥ ३२ ॥

उवाच वचनं स्त्रिग्धं पतिमै भव राघव ॥

सुखं भोद्यसि चात्यन्तं मया नीतं निरंतरम् ॥ ३३ ॥

**भाषा—**हँसके रामजीसे बोली हे रामजी ! तुम मेरे पति होवो मैं संसारमें  
ऐसा सुंदर सुंदर भुरे कर्मका सुख ले आऊंगी उस सुखकूँ आप  
बहुत करके भागेंगे ॥ ३३ ॥

इत्येवमुक्तस्तु तया रघृत्तमः प्रोवाच्च तामस्मि सपत्निक्मे ह्यहम् ॥

सहोदरोऽयं मम ते पुरः स्थितः करिष्यते ते सकलं विचितितम् ॥३४॥

**भाषा—**शूर्पणखा करके ऐसे कहे जो रामजी हैं सो बोलते भये, कि हे  
दुःसंगकी इच्छा मेरे तो न्हीं है, तेरे सामने ये हमारा भाई खडा है सो तेरा  
सम्पूर्ण विचार सिद्ध करेगा रामजीने विचार किया कि यह दुःसंगसे छूट जावे  
तो अच्छा होवे इस वास्ते संतोषरूप लक्ष्मणके पास भेज देते भये कि संतोष-  
की संगति पायके इसकी बुद्धि निर्मल हो जावेगी ॥ ३४ ॥

रामेण प्रेरिता बाला सा ययौ लक्ष्मणान्तिकम् ॥

तिरस्कृता लक्ष्मणेन पुनरायात्तदन्तिकम् ॥ ३५ ॥

**भाषा—**रामजीकी आज्ञा पायके लक्ष्मणके पास गई, लक्ष्मणने विचार  
किया कि यह जन्मजन्मांतरकी विगड़ी है इसकूँ मैं कुछ शिक्षा भी करूंगा तो  
मेरी शिक्षा मानेगी नहीं इसवास्ते पास नहीं आने दी तो फिर रामजीके  
सामने गई ॥ ३५ ॥

अप्या विभ्रामिता तत्र श्रुतवत्या पुनः पुनः ॥

प्रदुद्रावातिवेगेन भक्षितुं जनकात्मजाम् ॥ ३६ ॥

**भाषा—**राम लक्ष्मणने उसके कर्म मुनियोंसे पहिले सुन रखे थे सोई श्रवण-  
रूप जो भमी नाम हिंडोला है तिस हिंडोलना करके वारंवार रामजीके पाससे  
लक्ष्मणके पास लक्ष्मणके पाससे रामजीके पास फिरती भई, तब परमेश्वरकी  
आकृतिरूप जो जानकी तिसकूँ खानेवास्ते दौड़ती भई खाना क्या है जानकीका  
ईश्वरमें प्रेम है उसको बिगाड़ देना ॥ ३६ ॥

दुरालापदुराचारौ तच्छ्रोत्रौ लक्ष्मणस्तथा ॥

चकर्त तत्क्षणे शीत्रं नासिकां चापि दुर्गमाम् ॥ ३७ ॥

भाषा—तब लक्ष्मण क्रोध करिके जलदी शूर्पणखाके दो कान शुभा कर्ममें जो प्रीति है सोई तरवार है तिस तरवारसे काट लेते भये, कैसे कान हैं दुष्ट-वचन साधुओंको शूर्पणखा बोलती है, एक कान तो खोटा बोल है, दूसरा कान सज्जनोंको अनेक उपाय करिके खोटा आचार सिखानेका विचार करती है॥३७॥

**दुराश्रवणप्रेमाद्यां शुभप्रीत्यासिना सुधीः ॥**

**श्रोत्रादिवासनायुक्तै रक्तैश्चैव कुकर्मभिः ॥ ३८ ॥**

भाषा—तथा बडे दुःखसे भगवान्‌की चढ़ी वस्तुकी सुगंधि लेना ऐसी नाक-झी काट लेते भये । रातदिन शूर्पणखा खोटे कर्मकी कथा सुनती है सोई कान है दुष्ट संगतसे कान आदि इंद्रिय भष्ट हो गई उनकी वासनाका अर्थ तथा खोटी इन्द्रियसे खोटा कर्म करना ये दोनों रक्त हैं उसी रक्त करके शूर्पणखा लाल होगई है । इन दो श्लोकोंका अर्थ मिला है इसकूँ व्याकरणमें युग्म कहते हैं ३८

**रक्तांगी सा प्रदुद्राव प्राप्ता खरसभास्थलम् ॥**

**खरस्याये निपतिता रुरोद बहु सुस्वरम् ॥ ३९ ॥**

भाषा—शूर्पणखा उस रक्तसे लाल होके पेस्तर वर्णन भये जो खर आदि राक्षस तिन्होंकी कुमतिरूप सभा है तिस सभामें शूर्पणखा गई खरके आगे पड़के बडे उच्चस्वरसे रोने लगी ॥ ३९ ॥

**खरादिभिश्च संपृष्ठा वर्णयामास सर्वशः ॥**

**रामलक्ष्मणयोः कृत्यं नासिकाकर्णकृत्तनम् ॥ ४० ॥**

भाषा—खर आदि राक्षस शूर्पणखासे पूँछते भये तब राम लक्ष्मणका कर्म तथा अपनी नाक कानके काटनेका हाल कहती भई ॥ ४० ॥

इति श्रीवेदान्तरामायणे पं० दिवसहायबुधविरचिते आरण्यकाण्डे संवर्त-  
वरतन्तुसंवादे प्रथमो मोक्षार्थः सोपानः ॥ १ ॥

### संवर्त उवाच ।

**जारद्यूतमदापाना आययुः खररूपिणः ॥**

**चतुर्दशमहासैन्यैरेषां प्रीतिसमुद्भवैः ॥ १ ॥**

भाषा—वरतन्तु मुनि फिर बोलते भये जार, दूत, मदका पान आदि लेके पहिले वर्णन भये इन सब बुरे कर्मोंका रूप जो खर आदि राक्षस सोई जार दूतादि कर्मोंकी अनेक प्रकारकी प्रतिसे उत्पन्न हुए जो बुरे कर्म बहुत तिनमेंसे १४००० हजार सेना लेके रामजीसे युद्ध करनेको आते भये ॥ १ ॥

**जानकी भयसंयुक्ता छायामभ्यासनिर्मिताम् ॥**

**जगाम लक्ष्मणेनैव सार्द्धं सा तरसा गुहाम् ॥ २ ॥**

भाषा—इन दुष्टोंको देखके जानकी डरके निय भगवान्में मिलनेके वास्ते अभ्यास करती हुई उस अभ्यास करके बनाई जो भगवान्की बहुतही थोड़ी छायारूप रूपा सोई गुहा है तिस गुहामें लक्ष्मणको संग लेके गई ॥ २ ॥

**गुहागतां निरीक्ष्यैव रामो जनकनन्दिनीम् ॥**

**जघान खररसैन्यन्तं क्षणेकेन रघृत्तमः ॥ ३ ॥**

भाषा—गुहामें प्राप्त हुई जानकीको रामजी देखके एक क्षणमें खरकी सेनाको मारते भये ॥ ३ ॥

**हतसैन्यास्तु ते दैत्या रामं हन्तुं समुद्यताः ॥**

**तेऽपि रामेण निहताः पतिताः पृथिवीतले ॥ ४ ॥**

भाषा—अपनी सेनाको मरी देखके राक्षस सब रामजीके मारनेके वास्ते दौड़ते भये तिन राक्षसोंको रामजीने मार डाला कोई राक्षस भूमिपर मूर्च्छित हो पड़ गये ॥ ४ ॥

**हतेषु तेषु सर्वेषु राक्षसेषु खरादिषु ॥**

**तत्सैन्यमपि दृष्टा सा निहतं पतितं भुवि ॥ ५ ॥**

भाषा—शूर्पणखाने सेना सहित खर आदि सब राक्षसोंको मरा जानके तथा मूर्च्छित पृथ्वीमें पड़ा देखके ॥ ५ ॥

**दुःखिताश्च विमुच्चती पतिता स्वलिता पथि ॥**

**रुदती लक्ष्मणेनैव छिन्नकर्णान्तनासिका ॥ ६ ॥**

भाषा—तब शूर्पणखा लक्ष्मण करिके नाक कान कटी हुई दुःखित रोती गिरती पड़ती हुई ॥ ६ ॥

जगाम वेगेन सहोदरीदरीदुःकर्मप्रीतिस्थितिमुत्तमाम्पुरीम् ॥

लंकामनोरावणपाणिपालितां सभास्थितं वाक्यमुवाच भ्रातरम् ॥ ७ ॥

भाषा—दुष्ट कर्ममें हठपूर्वक ठहरनेवाली शूर्पणखा रावण करके पालित ऐसी लंकापुरीमें शीघ्र गई, हठसे दुष्ट कर्ममें चेष्टाखूप जो मनरावण आदि राक्षसों करिके शोभित रावणकी सभा तिस सभामें बैठा जो रावण तिससे शूर्पणखा बोली ॥ ७ ॥

त्वं क्रूरबुद्धे मदपानमादितो न बुध्यसे शश्वगणं समागतम् ॥

विकर्त्तयित्वा मम कर्णनासिकां सहानुजेनैव सपनिकः सुखी ॥ ८ ॥

भाषा—हे दुष्ट ! मदिरा पीके तू मन होगया है, तेरा नाश करनेवाला वैरण आय गया, परंतु तुझे मालूम नहीं है, तेरा वैरी अपने भाईसे मेरी नाक कान कटायके सुखसे भाता श्वीसहित गोदावरीपर बसता है ॥ ८ ॥

पुत्रौ दशरथस्यैव अयोध्याधिपतेः शुभ्रौ ॥

रामलक्ष्मणनामानौ राक्षसान्हन्तुमागता ॥ ९ ॥

भाषा—अयोध्याके राजा दशरथ तिसके पुत्र दो हैं राम १ लक्ष्मण २ यह नाम है, राक्षसोंका नाश करनेके वास्ते आये हैं ॥ ९ ॥

ताभ्यां किमर्थं ते नासा कर्णौ चैव विकर्तितौ ॥

वर्णयामास सर्वं सा चरितं तस्य चात्मनः ॥ १० ॥

भाषा—मन रावण पूँछता है तेरा कान नाक उन दोनोंने किस वास्ते काटे, तब शूर्पणखा अपना चरित्र तथा रामजीका चरित्र वर्णन करती है ॥ १० ॥

विचार्य हृदये स्वीये रावणः क्रूरशासनः ॥

किञ्चित्संस्मृत्य चात्मानं ज्ञानदृष्टया सुरोत्तमः ॥ ११ ॥

भाषा—शूर्पणखाका वचन सुनके बडे कठिनसे सिखाने योग्य जो रावण असुरोंमें उत्तम सो ज्ञानदृष्टि करके अपने आत्माको विचारके कि मैं ऐसे सर्वभरका पार्श्ववती हूं ॥ ११ ॥

रूपभक्तेश्च जानक्या सौंदर्यं ब्रह्मभावनम् ॥

तेन कामेन संतसो ममाप्येवं भवेत्कदा ॥ १२ ॥

**भाषा—**कैसा रावण है ब्रह्मकी भक्तिरूप जानकी तिसकी सुंदरता जो है सोई ब्रह्ममें भाव है, उस ब्रह्मके भावरूप कामदेव करके बहुत तम होरहा है यह विचारता है कि ऐसा ब्रह्मका भाव मेरेभी कभी हो जावे ॥ १२ ॥

तदाहं भवसंसारान्मुक्तो यास्यामि स्वां गतिम् ॥

एवं निश्चित्य मनसा हर्तुकामश्च जानकीम् ॥ १३ ॥

**भाषा—**तब मैंभी संसारसे छूटके अपनी गतिमें चला जाऊं ऐसा अपने मनमें निश्चय करके जानकीको हरण करनेवास्ते गया ॥ १३ ॥

रथारूढो जगमैको रात्रौ कामविमोहितः ॥

मदान्धतायां प्रययौ मारीचस्यान्तिकं द्रुतम् ॥ १४ ॥

**भाषा—**रात्रिको ब्रह्ममें भावरूप कामसे मोहित मनरूप रावण अभिमान करके अंधकाररूपी रात्रिमें रथमें बैठके अकेला जलदी अहंकाररूप जो मारीच तिसके सामने गया ॥ १४ ॥

मारीचस्तं ददर्शाथ दुराचाररथे स्थितम् ॥

तद्वर्षवाजिभिर्युक्ते गर्द्धमैश्च कुकर्मभिः ॥ १५ ॥

**भाषा—**कुकर्मरूप खच्चर करिके तथा रथके हर्षके बढानेवाले जो घोडे तिन करिके संयुक्त जो रावण भष्टरूपी आचार रथमें बैठके रावण मारीचके पास गया, तिसकूँ मारीच देखता भया ॥ १५ ॥

समुत्थायादरं चक्रे पृष्ठोवाच दशाननः ॥

भगिनीदुर्दशां चैव खरादीनां वधं तथा ॥ १६ ॥

**भाषा—**रावणको देखके मारीचने उठके आदर किया, और आनेका कारण रावणसे पूछा, तब रावण शूर्पणखाकी दुर्गति तथा खर आदि राक्षसोंका भरण सब कहने लगा ॥ १६ ॥

जानकीहरणार्थाय समायातस्तवांतिकम् ॥

विचित्रमृगरूपस्त्वं भव तात मयेरितः ॥ १७ ॥

भाषा—कि जानकीको मैं हरण करूंगा, इस वास्ते तुमारे पास मैं आयाहूं, हे भाई ! हमारी आज्ञा तुम मानिके चित्रविचित्र मृग बनो ॥ १७ ॥

श्रुत्वा दशाननोक्तिं च मारीचो मानगर्वितः ॥

स्वनाशभयभीतेन कर्मणा तं व्यबोधयत् ॥ १८ ॥

भाषा—बड़ा अभिमानी जो मारीच उसने रावणका वचन सुनके कहा कि हे रावण ! जो खोटेकर्म तुमने विचारे हैं तिस करके मेरा मरण होगा, और तुम दुःख पावोगे ॥ १८ ॥

बोधितोऽपि दशश्रीवो न बुबोध महाबली ॥

भयाद्वभूव मारीचः कुविचारो मृगोऽद्गुतः ॥ १९ ॥

भाषा—बड़ा बलवान् जो रावण है सो मारीचके वाक्यको सुनके नहीं माना तब मारीचने जाना कि जो मैं फिर कुछ ज्ञान देऊंगा तो मुझे मार डालेगा, ऐसे भयसे खोटा विचाररूप मृग होगया ॥ १९ ॥

कुमार्गतनयैर्युक्तः परपीडादिरोमभिः ॥

भूरिभिर्दुःखदैः पदैः कुवाक्याच्छलवंचनैः ॥ २० ॥

भाषा—खोटा मार्ग जो है सोई दुष्ट पुरुष है तिसके दूसरे जीवोंको दुःख देनेवाले आदि पुत्र जैसा ईर्षण मत्सरता चुगली इन आदि और जो दुष्ट हैं सोई रोम भये हैं तिन रोमों करके युक्त है, और खोटा वचन बोलना, छल करना, कपट करना, ठगाई करना ये चार पग हैं इन्होंकरके युक्त मारीच है ॥ २० ॥

कुरावकुशला शोभा कुतृष्णाबिन्दुरंकितः ॥

सत्तिरस्कारपुच्छेन संयुतोऽधर्मचंचलः ॥ २१ ॥

भाषा—खोटा वाक्य बोलनेमें चतुराई सोई मारीचके देहकी शोभा है, उरे कामोंकी बहुत तृष्णा सोई बिंदु है तिसका काला पीला सफेद आदि अनेक अकार करके चित्र विचित्र होरहा है, सत्पुरुषोंका तिरस्कार सोई पूँछ है

तिस पूँछ करके युक्त है अर्थम् सोई चंचलस्वभाव है तिस करके बहुत चंचलायमान है ॥ २१ ॥

सदानादरहस्याभ्यां शृंगाभ्यां शोभितः खलः ॥

जगाम रामवसाति तन्दृष्टा जनकात्मजा ॥ २२ ॥

**भाषा—**सुंदर कर्मको जैसा विद्यादान तलाव कूवा धर्मक्षेत्र आदि और कर्म तिनका अनादर तथा हँसी करना ये दो सींग हैं, ऐसी सींग करके खल मारीच शोभित होरहा है, ऐसा रूप बनायके रामजीकी पर्णकुटीके सामने गया, तब तिस मारीचको देखके जानकी ॥ २२ ॥

लुलोभ सहसा देवी स्वकार्यात्किंचिदातुरा ॥

बभूव प्रेरयामास रामं तद्रहणे सती ॥ २३ ॥

**भाषा—**अपने काजसे थोरी आतुर होके लोभकूं प्राप हुई जो जानकी उसने विचार किया कि मन रावणका भेजा आया है अब रामजी रावणको मारेंगे तो घर २ प्राणी २ प्रति हमारी वृद्धि होवेगी सबमें हम बरेंगे, रामजीसे जानकी बोली कि इस मृगको पकड़के ले आवो ॥ २३ ॥

करुणापृथिवीदुःखसंहारं रघुनन्दनः ॥

प्राप मोहं विचलितस्तद्धधे ग्रहणाय वा ॥ २४ ॥

**भाषा—**दयारूप जो पृथिवी तिसका दुःख संहार रूप मोहकूं रामजी प्राप होके मृगको पकड़ना अथवा मारना इस वास्ते चलते भये ॥ २४ ॥

सन्तोषलक्ष्मणेनैव स्वस्थत्वेन निवारितः ॥

स्वीकृतन्नैव रामेण गत्वा संघातितो मृगः ॥ २५ ॥

**भाषा—**संतोषरूप लक्ष्मणका संसारमें समस्वभाव है उसी स्वभाव करके रामजीको मना किया, कि आप इस मृगकूं मारनेवास्ते मति जावो, लक्ष्मणके विनयको रामजी नहीं मनते हुए और जायके मृगको मारते भये ॥ २५ ॥

आविर्भावं कदा कुर्वन्कदान्तर्ध्यनमेव च ॥

मानप्रीत्या विप्रीत्या च धावन्वेगतरं हतः ॥ २६ ॥

भाषा—मृग अभिमानकी प्रीति कभी थोड़ी कभी ज्यादा करके भागता भया सोई मृगका दौड़ना है तथा गुप्त होना है ॥ २६ ॥

हतो हा लक्ष्मणेतीव प्रोवाच मृगसत्तमः ॥

विवेकं चैव संस्मृत्य तत्त्वान् प्रविवेश ह ॥ २७ ॥

भाषा—मृगने मरते समय हा संतोषरूप लक्ष्मण ! मैंने बहुत पाप किया सो आप क्षमा करो ऐसा शब्द बोलता भया सोई लक्ष्मणका पुकारना है, तथा विवेकका स्मरण करके अभिमानरूप मारीच शरीरको त्यागिके रामजीके शरीरमें मिल गया ॥ २७ ॥

अहंकारसुताः सर्वे न मया वर्णितुं क्षमाः ॥

ते पितुर्मरणं दृष्ट्वा रावणं चैव संश्रिताः ॥

चकुर्विनाशनं सर्वे सज्जनानां महोद्यमाः ॥ २८ ॥

भाषा—अभिमानरूप जो मारीच है तिसके पुत्रोंको वर्णन करनेमें मेरा सामर्थ्य नहीं है । मारीचका मरण देखके मारीचके पुत्र जो बुरे काज हैं सब इकठे होके रावणके पास जायके साधुओंका नाश करने लगे ॥ २८ ॥

निहत्य रामो मृगरूपधारिणं त्वचं न लेभे मृगदेहसंश्रिताम् ॥

देहं त्यजन्हा खलु लक्ष्मणोति श्रुत्वा वचस्तस्य विसिस्मिये हृदिर९॥

भाषा—रामजी अभिमानरूप मारीचको मारके मृगके देहकी खाल नहीं पाये तथा मृग देह त्यागते समय लक्ष्मणको पुकारता भया, उस शब्दकूँ सुनिके रामजीके मनमें बड़ा विस्मय होगया ॥ २९ ॥

इति श्रीवेदान्तरामायणे पं०शिवसहायबुधविरचिते आरण्यकांडे मारीचवधे  
द्वितीयो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ २ ॥

## वरतन्तुरुवाच ।

हा लक्ष्मणोति संश्रुत्य जानकी व्यग्रमानसा ॥

दीपार्चिः पवनेनैव बभूव व्यथिता सती ॥ १ ॥

भाषा—वरतन्तु सुनि बोले हे संवर्त ! सुनो हा लक्ष्मण ऐसा शब्द सुनके जानकीने विचार किया कि अभिमान बडा बलवान् है, बडे बडे योद्धाओंकूँ जीत लिया सो मेरे प्राणनाथ जो विवेकरूप रामजी तिनकोभी जीत लिया सो दुःखी होके संतोषरूप लक्ष्मणको अपनी रक्षा करनेवास्ते बुलाते हैं ऐसा विचारसे दुःखी होगई जानकी जैसे हवा करके दीपककी ज्योति कांपती है तैसेही जानकी दुःखी होकर कांपने लगी ॥ १ ॥

उवाच वचनं स्तिर्गधं किंचिच्छलितपौरुषम् ॥

गच्छ लक्ष्मण ते भ्राता राक्षसेनैव पीडितः ॥ २ ॥

भाषा—थोरा लक्ष्मणकाभी पुरुषार्थ चलायमान हो रहा है मारीचका वचन सुनिके ऐसे जो लक्ष्मण तिनसे जानकी बोलिं हे लक्ष्मण ! जलदी जाओ तुम्हारे भाईको राक्षस दुःख देता है ॥ २ ॥

त्वां समाह्यते शीघ्रं प्राणं त्यक्षामि तं विना ॥

उवाच लक्ष्मणो देवी नैवं भवति कार्हीचित् ॥ ३ ॥

भाषा—दुःखी होके वे तुम्हां पुकारते हैं रामजी विना मैं मरजाऊंगी लक्ष्मण बोले हे देवि ! रामजी कभी दुःखी नहीं होवैंगे ॥ ३ ॥

न हंतारं प्रपश्यामि रामस्य भुवनत्रये ॥

तयोक्तो लक्ष्मणस्तूर्णं मां गृहीतुं समागतः ॥ ४ ॥

भाषा—हे देवि ! तीन लोकमें रामजीकूँ मारनेवाला कोई मैं नहीं देखता हूँ ऐसा लक्ष्मणका वचन सुनिके जानकीकी बुद्धि मलीन होगई सोई मलीनरूप ग्रहण करनेको जानकीने कहा कि हे लक्ष्मण ! तुम विचारते हो कि विवेकरूप रामजीका अंतकाल होजावे तो हम जानकीको लेलेवें सो ऐसा नहीं होगा ॥ ४ ॥

एवमुक्ते तु जानक्या गते दूरे च लक्ष्मणे ॥

तिरस्कारवृते दूरे ह्याजगाम दशाननः ॥ ५ ॥

भाषा—ऐसा भेद रूप वचन जानकीके कहनेहीसे लक्ष्मण रामजीके पासकूँ चले तब जानकीने लक्ष्मणका तिरस्कार किया सोई दूर है तिसी समय लक्ष्मणको दूर गये जान तब रावण जानकीके पास आता भया ॥ ५ ॥

महार्जवं च संन्यासं तद्वृत्तागादशाननः ॥

तत्प्रेमभस्मनाच्छन्नं तद्वर्द्धनकमंडलुम् ॥ ६ ॥

भाषा—बडा कोमल स्वभाव सोई संन्यास है तिस संन्यासका रूप धरके जानकीके पास मनरूप रावण आया उस कोमल स्वभावमें प्रेम सोई विभूति है तिस विभूतिको देहमें लगाये हैं तथा उसी विभूतिमें ल्लेह बढाना सोई रावणका कमंडल है ॥ ६ ॥

शौचं वस्त्रं च संधृत्य शुद्धगैरेयरंजितम् ॥

भिक्षां कपटप्रीतिं च ययाचे जानकीन्तदा ॥ ७ ॥

भाषा—देहमें पवित्रता राखना सोई वस्त्र है शुद्धस्वभाव सो गेहू है उसी गेहूसे शौचरूप कपडा रंगे हैं ऐसा रूप धरके कपटप्रीतिरूप भिक्षा जानकीसे मांगता भया ॥ ७ ॥

दयावर्द्धनं निर्दयायाश्च त्यागं ददौ जानकी साधवे कन्दमूलम् ॥

न जग्राह कामातुरो हर्तुकामस्तदा जानकी क्रूरवाक्यं समूचे ॥ ८ ॥

भाषा—तब जानकी दयाको बढानारूप कंद निर्दयको छोडनारूप मूल साधु जानके रावणकूँ देने लगी तब पहिले वर्णन हुआ जो काम तिस काम करके आतुर होरहा है रावण सो जानकीको हरण करनेकी इच्छा करके जानकीकूँ चिढानेवास्ते खोटी खोटी बातें बोलता भया ॥ ८ ॥

किं करिष्यसि रामेण वनस्थेन सुदुःखिना ॥

मां भजस्व वरारोहे राक्षसानामधीश्वरम् ॥ ९ ॥

भाषा—हे जानकी ! वनमें रहनेवाले रामके सांग तुझे कुछ सुख नहीं है राक्षसोंका मालिक जो मैं हूँ सो मेरी स्त्री त होजा ॥ ९ ॥

इत्युक्त्वा दर्शयामास स्वरूपं राक्षसाधिपः ॥

पूर्वोक्तं बालकांडे च दशास्यं विशहस्तकम् ॥ १० ॥

भाषा—ऐसा कहके जानकीकूँ रावणने अपना स्वरूप दिखाया कैसा स्वरूप है बालकांडमें पहिले दशमुख बीस भुजाका वर्णन भया है सो स्वरूप ॥ १० ॥

तन्दृष्टा जानकी भीता श्रुतपूर्वं खलं सती ॥

उवाच धैर्यमालम्ब्य यदि त्वं रावणः खलः ॥ ११ ॥

भाषा—पहिले मुनियोंसे जानकीने रावणका रूप सुनाथा उसी रावणकूँ देखके बहुत डरगई जानकी धीरज धरके बोलीं हे दुष्ट ! जो तू रावण है ॥ ११ ॥

क्षणं तिष्ठात्र मे भर्ता सत्वरश्चागमिष्यति ॥

नाशयिष्यति ते गर्वमित्युक्तश्च तया तदा ॥ १२ ॥

भाषा—तो एकक्षण हमारे सामने तू यदि खड़ा रह तो हमारा पति जलदी आय तेरे अभिमानका नाश करेगा ऐसा वचन जानकी रावणको कहती भई ॥ १२ ॥

गृहीत्वा मूर्ढ्जां तस्यां रामपादाब्जसन्नातिम् ॥

करेणैकेन चोरुं च रामरूपनिरीक्षणम् ॥ १३ ॥

भाषा—तब रामजीके चरणकमलको वारंवार नमस्कारकी प्रीति सोई ईश्वरकी भक्ति जानकीकी चोटी है, तिस चोटीकूँ एक हाथसे पकड़के तथा राम-जीके रूपको वारंवार देखना, सोई जानकीकी जंघा है तिस जंघाको ॥ १३ ॥

द्वितीयेनाशु संगृह्य रथमारोप्य कामतः ॥

ययावाकाशमार्गेण ज्ञानशून्यहृदा च सः ॥ १४ ॥

भाषा—तिस जंघाको दूसरे हाथसे पकड़के अपने रथमें बैठायके ज्ञानसे हीन जो हृदय सोई आकाश है तिस आकाशमार्ग करके जानकीको ले चला ॥ १४ ॥

हा राम राजीवदलायताक्ष त्वया विहीना विधिना कृता ह्यहम् ॥

वियोगचिंता तव पादपद्मयोश्चिरं सदा तिष्ठति मानसे मम ॥ १५ ॥

भाषा—जानकी विलाप करती है हे रामजी ! ब्रह्मदेवने आप करके हमकूँ हीन करदिया. आपके चरणकमलका वियोग मेरे चिन्तमें टिका रहेगा ॥ १५ ॥

एवमादीनि बहुधा विलापानि च जानकी ॥

कुर्वती रथमध्यस्था रक्षोपतिविमर्दनम् ॥ १६ ॥

भाषा—इस प्रकारका बहुत विलाप रावणके रथमें बैठी हुई जानकी करती  
भईं रावणका तथा दुष्टराक्षसोंका नाश रूप विलाप जानकी करती है ॥ १६ ॥

दुष्टकर्माद्वाम्प्रीति हठजाँ स्वपुरीं खलः ॥

सत्वरो गन्तुकामश्च लंकां राक्षससत्तमः ॥ १७ ॥

भाषा—दुष्ट कर्मसे उत्पन्न जो प्रीतिरूप हठ तिस करके ठहरना ऐसी जो  
लंकापुरी तिसको जानकीको ले जानेकी इच्छा की ॥ १७ ॥

दुर्लक्षणो जटायुश्च दुर्जानोद्वमामिषम् ॥

दुर्वाक्ययतुंडेन सदा यो भुनक्ति निरंतरम् ॥ १८ ॥

भाषा—तब दुष्ट जीवोंका लक्षण जो है सोई जटायुनाम गीथ है तथा दुष्ट  
ज्ञान जैसे विचारना कि चोरीमें धन कमाना, परम्परी भोगना इन आदि और  
अनेक बुरे कर्म हैं तिन्हों करके उत्पन्न जो कर्म सोई मांस है खोटा वचन  
बोलना सोई चोंच है, ऐसे चोंच करके उस मांसको रोज जटायु गीथ  
खाता है ॥ १८ ॥

दुश्चेष्टेहाकृतौ पक्षौ तत्सुतौ चरणौ स्मृतौ ॥

एतादशो जटायुश्च कृत्वा तेन सुभाषितम् ॥ १९ ॥

भाषा—दुष्ट कर्ममें चेष्टा तथा दुष्ट कर्म करनेकी इच्छा ये दोनों जटायुके पक्ष  
हैं इन दोनों चेष्टा तथा इच्छाके जो पुत्र नरकमें पड़ना तथा कुयोनिमें जन्म लेना  
ये दोनों जटायुके दो पग हैं ऐसा जटायु रावणसे संभाषण करके ॥ १९ ॥

पातितो रावणस्तेन सुवाक्यसंगरे रथात् ॥

पुनश्चोत्थाय वेगेन गृहीत्वा जनकात्मजाम् ॥ २० ॥

भाषा—सुंदर वचन रूप युद्ध करके रावणको रथसे जमीनमें जटायुने गिरा  
दिया तब रावण जलदी उठके जानकीको पकड़के रथमें बैठायली क्यों-  
कि जब रावणको जटायुने गिराय दिया तब जानकीभी रथसे पड़गयी थी भागने-  
वास्ते सो फिर पकड़लिया ॥ २० ॥

पक्षौ द्वौ तस्य खड़ेन छित्वागात्त्वरितः पुरम् ॥

स्वैश्वर्ये निश्चला बुद्धिमेने मे कर्हिचित्कदा ॥ २१ ॥

**भाषा**—रावण तरवारसे जटायुके दोनों पंख काटके लंकाको जाता भया मनरूप रावण ऐसा विचारता है कि यह मेरा ऐश्वर्य कभी नाशको नहीं प्राप्त होवेगा ॥ २१ ॥

नाशमेष्यति साशोकवाटिका रावणप्रिया ॥

तदुद्धवाः सुखा वृक्षास्तस्यां जनकनंदिनीम् ॥ २२ ॥

**भाषा**—नाशको नहीं प्राप्त होवैगी ऐसी जो रावणकी बुद्धि सो अशोकबाग है, रावणकी बड़ी प्यारी है उस बगीचामें उत्पन्न भये जो सुख सो वृक्ष हैं तिस बगीचामें जानकीकूँ ॥ २२ ॥

स्थापयामास दासीभिर्निन्देष्यसहनादिभिः ॥

कारयित्वाऽवनं तस्याश्तुर्दिक्षु निशाचरः ॥ २३ ॥

**भाषा**—जानकीको अशोकबगीचामें टिकाता भया क्या करके ऐसी राक्षसियोंसे जानकीकी रक्षा करायके कैसी राक्षसी हैं परजीवकी निंदा जीवको सुखी देखके अपने हृदयमें दुःखी होना जीवमात्रसें प्रीति नहीं राखना इन आदि और जो बहुत ऐसी मति सो राक्षसी हैं ॥ २३ ॥

निन्देष्यसहनासूयादुर्वाछाद्याश्च कोटयः ॥

दास्यस्तस्य समाख्याता वर्णितुं नैव ताः क्षमाः ॥ २४ ॥

**भाषा**—दूसरे जीवकी निंदा ईर्षा असहना अक्षमा जीव उपकार करे तो भी निंदा करना जीवोंको दुःख देनेकी इच्छा रूप इन्हों आदि गिनती रहित इतनी रावणकी दासी हैं ॥ २४ ॥

मृगं हत्वा रघुश्रेष्ठो निवृत्तः स्वाश्रमं प्रति ॥

मार्गे दृष्ट्वा तदायान्तं लक्ष्मणं विह्वलोऽभवत् ॥ २५ ॥

**भाषा**—अभिमानरूप मृगको मारिके रामजी अपने आश्रमको चले तौ रस्तामें लक्ष्मणको आते देखके रामजी विह्वल होगये ॥ २५ ॥

उवाचाधैर्यसंयुक्तं वचनं रघुनंदनः ॥

कर्मात्तात् त्वया त्यक्ता जानकी मम वल्लभा ॥ २६ ॥

भाषा—अधैर्ययुक्त वचन रामजी लक्ष्मणसे बोले हे भाई ! हमारी प्राणसे प्यारी जानकीको त्यागिके क्यों आये ॥ २६ ॥

उवाच लक्ष्मणः सर्वे कारणं तत्सविस्तरम् ॥

सहते नैव संयातो रामः स्वाश्रममंडलम् ॥ २७ ॥

भाषा—लक्ष्मण सब प्रकार कारण विस्तारपूर्वक कहते भये तब रामजी लक्ष्मणसाहित अपने आश्रमपर आते भये ॥ २७ ॥

विलोक्य जानकीहीनं विलापाकुलेद्रियः ॥

गंभीर्यस्थैर्यस्वास्तिक्ये चलत्वं किञ्चिदात्मनः ॥ २८ ॥

भाषा—रामजी अपने आश्रमपर आये सो जानकी करके हीन देखते भये तब अपनी शरीरकी स्थिरतासे तथा गंभीर स्वभावसे तथा अपने धर्मसे किंचिन्मात्र चलायमान होगये सोई विलाप है ॥ २८ ॥

एवं महाविलापश्च रामलक्ष्मणसंकृतः ॥

गृद्धनिपतितन्दृष्ट्वा चक्रे प्रश्नोत्तरं हरिः ॥ २९ ॥

भाषा—ऐसा विलाप राम लक्ष्मण करते भये गीधको भूमिमें पड़ा देखके उससे प्रश्न तथा उत्तर करते भये ॥ २९ ॥

अहं दुर्लक्षणो गृद्धः पातितो रावणेन वै ॥

जानकीरक्षणे शक्तस्त्वदर्शनजिजीविषुः ॥ ३० ॥

भाषा—जटायु बोले हे रामजी ! दुर्दैंका लक्षणरूप मैं गीध हूं जटायु मेरा नाम है, जानकीकी रक्षा करनेमें मैंने कुछ पराक्रम किया तब मेरेको रावणने पृथ्वीपर गिरादिया, आपके दर्थनकी इच्छा करके अबतक मैं जीता रहा हूं ॥ ३० ॥

इत्युक्त्वा तत्यजे प्राणान् गृद्धो रामसमीपतः ॥

रचित्वा प्रेमकाष्ठेन चितामास्थाप्य तं प्रसुः ॥ ३१ ॥

भाषा—गीधने ऐसे वचन रामजीसे कहे पीछे प्राण त्यागता भया, तब राम-

जीका प्रेम जटायुपर बहुत था तथा उसी प्रेमरूप काष्ठ करके चिता बनायके  
उसी चितामें जटायुको बैठायके ॥ ३१ ॥

ज्ञानाग्निना च तं दग्ध्वा भोजयामास पक्षिणः ॥  
तज्जातिजान्महाकूरान्दुर्मर्पदीन्सहस्रशः ॥ ३२ ॥

भाषा—ज्ञानरूप अग्निसे जटायुको जलायके उसकी जाति जो दुष्ट कर्मकी  
आवना, तिसमें उत्पन्न भये जो बडे क्रूर २ दुःख देनेवाले अर्थ कहे दूसरेके  
सुखको देखके जलना इन आदि लेके इनमें जो सुंदर पक्षी बडे दुष्टोंमें दुष्ट  
तिन बहुत हजार पक्षियोंको रामजी भोजन करवाते भये ॥ ३२ ॥

सदौपदैशिकैर्धम्मैर्भक्ष्यभोज्यैश्च भूरिशः ॥

भ्रेमतुः कानने वर्हौ सीतान्वेषणतत्परौ ॥ ३३ ॥

भाषा—रामजी दुष्ट कर्मोंको ईश्वरके भजनरूप उपदेश देते भये, सोई उप-  
देश अनेक प्रकारके पकवान हैं तिन करके पंक्षियोंको भोजन करायके जान-  
कीके शोधनेके वास्ते दोनों भाई वनमें भ्रमण करते भये ॥ ३३ ॥

सन्निन्दनकबंधेन वेष्टितौ रामलक्ष्मणौ ॥

असत्प्रशंसनारागभुजाभ्यां दैवयोगतः ॥ ३४ ॥

भाषा—सुंदर धर्मकी निंदा करना, ऐसा दुष्ट कर्म सोई कबंध है तथा दुष्ट  
कर्मकी तारीफ करना और उसी तारीफमें स्लेह करना ये दो कबंधकी भुजा हैं सो  
दैवयोगसे रामलक्ष्मणको कबंधने अपनी दोनों भुजाके बीच बांध लिया ॥ ३४ ॥

एकं चिच्छेद रामस्तु शिक्षाखङ्गेन तद्भुजाम् ॥

सूक्तासिना द्वितीयं च चिच्छेद लक्ष्मणो भुजाम् ॥ ३५ ॥

भाषा—कबंधको रामजी सुंदर धर्म सिखाते भये सोई खङ्ग है तिस खङ्ग  
करके रामजी एक भुजा काटते भये और सुंदर वचनरूप तरवारसे दूसरी भुजा  
लक्ष्मण काटते भये ॥ ३५ ॥

छिन्नौ भुजौ यदा तस्य तदा प्राणं ससर्ज ह ॥

हिंसाविरहितैः काष्ठैर्दयारूपा चिता कृता ॥ ३६ ॥

भाषा—जब कबंधकी दोनों भुजा कटगईं तब पहिले कथित जो कबंध है सो प्राण छोड़ता भया तब रामजीने कबंधको जलाने वास्ते जीवहिंसासे हीन जो कर्म जैसे कथाश्रवण मौन रहना दुष्टका संग त्यागना इत्यादि सब काष्ठ हैं तिस काष्ठसे चिता बनायके कैसी चिता है दयारूप ॥ ३६ ॥

रामेण सह ब्राह्मैव कृपाग्निदाहितोऽसुरः ॥

सद्रूपधारी विमलो ज्ञानानंदो बभूव ह ॥ ३७ ॥

भाषा—लक्ष्मणसहित रामजी कबंधके ऊपर रूपा करते भये उसी रूपारूप अग्निसे कबंधको जलाते भये तब कबंध सुंदर रूप धारण करके ज्ञानमें आनंद भया ॥ ३७ ॥

उवाच वचनं स्त्रिघं जानकीप्राप्तिकारणे ॥

अये तिष्ठति राजेन्द्र शबरी भिलनंदिनी ॥ ३८ ॥

भाषा—जानकीके प्राप होनेका उपायरूप वचन बड़ा कोमल कबंध राम-जीसे बोला कि हे राजोंके इंद्ररूप रामचंद्र ! यहांसे अगाड़ी थोड़ी दूरपर भीलकी कन्या शबरी रहती है ॥ ३८ ॥

तस्याश्रमं समागच्छ सा ते सर्वं वदिष्यति ॥

इत्युक्त्वा स गतः स्वर्गं सुरेंद्रभुजपालितम् ॥ ३९ ॥

भाषा—तिस शबरीके आश्रमपर आप जाओ तब जानकीके मिलनेकी संपूर्ण वारा शबरी आपसे कहेगी ऐसा रामजीसे कहके इश्वरके शरीरमें जो स्वर्गलोक है इंद्र करके रक्षा हो रही है ऐसे स्वर्गको कबंध गया ॥ ३९ ॥

निश्चम्य रामोऽपि कबंधभाषितं सलक्ष्मणो लक्ष्मणसेवितांश्रिः ॥

जगाम शीघ्रं शबरीशुभालयं श्रीजानकी जीवनवल्लभो हरिः ॥ ४० ॥

भाषा—रामजी कबंधका वचन सुनके शीघ्रही शबरीके आश्रमको जाते भये ॥ ४० ॥

इति श्रीवेदान्तरामायणे आरण्यकांडे शिवसहायबुधविरचिते संवर्तवरतंतुसंवादे

तृतीयो मोक्षाख्यः सोपनः ॥ ३ ॥

इत्यारण्यकांडं समाप्तम् ।

## अथ किञ्चिकधाकांडप्रारम्भः ।

---

**वरतन्तुरुवाच ।**

**कबंधवचनं श्रुत्वा रामो लक्ष्मणसंयुतः ॥**

**पुनरन्वेषमाणश्च जानकीं विरहातुरः ॥ १ ॥**

**भाषा—**वरतन्तुमुनि बोले लक्ष्मणसहित रामजी कबंधका वचन सुनके दुःखी होयके फिर खोटे स्वभावरूप वनमें भ्रमण करते भये ॥ १ ॥

**महामोहो वनचरः सद्गर्मपशुहिंसकः ॥**

**दुहिता तस्य विप्रेन्द्रं चंचला मतिरुत्तमा ॥**

**शबरी सा समारव्याता सज्जनानाश्च संगतः ॥ २ ॥**

**भाषा—**हे विप्रेन्द ! स्नान ध्यान दान जप पूजा विनय नमस्कार इन आदि और जो अनेक प्रकारके सुंदर धर्म तो सब पशु भये हैं तिनको मारनेवाला जो बड़ा मोह सोई भील है जीवोंकी चंचलमति उसकी कन्या है शबरी उसका नाम है सुंदर २ धर्म सो ब्राह्मण है तिन ब्राह्मणोंकी संगतको शबरी करती भई ॥ २ ॥

**चकार रामचंद्रस्य भक्तिं सा शबरात्मजा ॥**

**तदाश्रमं जगामाशु रामो लक्ष्मणसंयुतः ॥ ४ ॥**

**भाषा—**उस संगतिके प्रभावसे रामजीकी भक्ति शबरी करती भई तिसके आश्रमपर लक्ष्मणसहित रामजी जाते भये ॥ ३ ॥

**शबरी पूजयामास रामं सप्रातृकं तदा ॥**

**स्थैर्यस्वभावसाहित्यैः प्रार्थनैः विशेषतः ॥ ४ ॥**

**भाषा—**शबरीका स्वभाव धर्ममें बहुत स्थिर है अनेक दुःख परे तौभी भगवा-चका भजनरूप धर्म छोड़ती नहीं उस धर्मरूप पूजनकी सामग्री करके तथा बहुत प्रार्थना करके लक्ष्मणसहित रामजीका पूजन करती भई ॥ ४ ॥

**शरीरं रामप्रेमाग्नौ दहन्वाक्यमुवाच सा ॥**

**रामाये नलिनीं पश्य सरश्वै तदुद्धवम् ॥ ५ ॥**

भाषा—रामजीका प्रेम शब्दोंके हृदयमें बहुत है, उसी प्रेमरूप आश्रि करके देह जलायके बोलती भई, हे रामजी ! आपके रस्तेमें एक तलाई है, उसका पंपा नाम है, तथा उसी तलाईसे उत्पन्न भया एक तलाव है, उसका पंपासर नाम है इन दोनोंको आप देखोगे ॥ ५ ॥

**किञ्चिक्धां च पुरीं रम्यां प्रवर्षणगिरिन्तथा ॥**

**आस्ते तस्य गिरेमूर्धि सुग्रीवः कपिसत्तमः ॥ ६ ॥**

भाषा—तथा बड़ी सुंदर किञ्चिक्धा पुरी तथा प्रवर्षण पर्वत इनकूँ आप देखेगे, प्रवर्षण पर्वतके शिखरपर सुग्रीव नाम कपि रहता है ॥ ६ ॥

**तं गच्छ जानकीनाथ स ते कार्यं करिष्यति ॥**

**इत्युक्त्वा स्वतनुं दग्ध्वा गता स्वर्गं हृदालये ॥ ७ ॥**

भाषा—हे जानकीनाथ ! तिस सुग्रीवको दर्शन देनेके बास्ते आप जावेगे तब सुग्रीव आपका सब काम करेगा, ऐसा रामजीसे कहके शब्दी शरीरको भस्म करके अपने हृदयमें जो स्वर्गपुरी है, उस स्वर्गपुरीको गई ॥ ७ ॥

**रामोऽपि त्वरितं प्राप नलिनीमुल्पंकजाम् ॥**

**शांतिरूपां धैर्यजलां निर्मलज्ञानसन्तटाम् ॥ ८ ॥**

भाषा—तथा रामजीभी जीवोंकी शांतिरूप पंपानाम तलाईको जाते भये, कसी तलाई है, धीरजरूप जल करके भरी है, तथा मलरहित जो ज्ञान सोई तिस तलाईके तट हैं ॥ ८ ॥

**निश्चांकपंकजां स्वच्छां सरश्वै महासुखम् ॥**

**न पुनर्जन्मतोयेन संयुतं तज्ज राघवः ॥ ९ ॥**

भाषा—काम आदि राक्षसोंके भयसे हीन जो स्वभाव पंपाको सोई कमल है, बहुत निर्मल तलाई है, ऐसी जो शांतिरूप तलाईको सुख जो है सोई पंपासर नाम तलाव है, शांतिको सेवन कियेसे वारंवार जन्म नहीं होता, सोई जल है तिस जलसे तलाव भरा है ॥ ९ ॥

स्नानं चकार तत्तोये लोकविस्तारणं प्रभुः ॥

प्रवर्षणं गुरुध्यानं शिखरं तद्विच्छितनम् ॥ १० ॥

**भाषा**—तलावके सुयशको लोक २ में विस्तार रामजी करेंगे, सोई यश विस्ताररूप स्नान उस तलावमें रामजी करते भये, गुरुका रातदिन ध्यान करना सोई प्रवर्षण नाम पर्वत है, रातदिन गुरुदेवका वचन चिंतवन करना सोई प्रवर्षण पर्वतका शिखर है ॥ १० ॥

गुरुपदेशस्सुग्रीवस्तद्वियोगेन वालिना ॥

त्रासितो दुःखितोऽत्यन्तं सुचिरं तापतापितः ॥ ११ ॥

**भाषा**—गुरुदेवका उपदेश सोई सुग्रीव है, गुरुका वियोग सोई वाली है, तिस वाली करके सुग्रीव बहुत दुःख तथा त्रासको प्राप्त भया है, तथा बहुत दिन-तक वाली सुग्रीवको अपनी तेजरूप अधिसे जलाता भया, क्योंकि सब दुःख साधुलोग सह लेते हैं, परंतु गुरुका वियोग क्षणमात्रभी नहीं सहसके ॥ ११ ॥

निरीक्ष्य वीरावायान्तौ प्रेषयामास सत्वरम् ॥

बलवन्तं महावीरं हनुमंतं तदन्तिके ॥ १२ ॥

**भाषा**—तब प्रवर्षणके शिखरपर बैठा जो सुग्रीव सो राम लक्ष्मणको आते देखके शीघ्रही वीरोंमें बड़ा वीर ऐसा जो हनुमान् तिसको रामजीके सामने भेजते भये ॥ १२ ॥

तृष्णांजनेयं सहसा मोहं श्वाससमुद्घवम् ॥

सुखेच्छा हर्षलांगूलं तन्मयादिलसत्तनुम् ॥ १३ ॥

**भाषा**—कैसे हनुमान् हैं तृष्णा तो अंजनी है तथा जीवकी शरीरकी श्वास सो वायु है इन दोनोंके संयोगसे उत्पन्न भये जो हनुमान् इनको मोह नाम है और मोहरूप भी है रामजीके प्रेमका सुख प्राप्त होनेकी इच्छामें हनुमान्को हर्ष बहुत होता है सोई हर्ष हनुमान्की पुच्छ आदि सब अंग है तिसके हर्षमें रात-दिन उन्मत्त रहना आदि जो कर्म है जैसा रामजीकी सेवा इसी प्रकारके कर्ममें दृत रहना सोई हनुमान्के शरीरकी शोभा है ॥ १३ ॥

किंचित्कुशलविप्रस्य धृत्वा रूपमगात्कपिः ॥

रामान्तिकं प्रगच्छन्तं प्रोवाच कपिसत्तमः ॥ १४ ॥

भाषा—थोड़ा सुख सोई ब्राह्मणका रूप धरके रामजीके पास हनुमान् जाते भये रामजीके दर्शनका प्रेम सोई हनुमान् का रामजीके पास जाना है राम-जीके पास जाते जो हनुमान् तिससे सुधीर बोले ॥ १४ ॥

यदीमौ वालिना प्रेष्यौ दुष्टौ सम्प्रमविप्रमौ ॥

तदा ते चेतनं प्राप्य त्यक्ष्यामीदमहं गिरिम् ॥ १५ ॥

भाषा—जो ये दोनों भ्रम तथा विभ्रम होवें और वालीके भेजे आते होवें तब तुम्हारी चेतनरूप जो अनुशासन तिसकूँ पायके मैं इस पर्वतकूँ छोड़के भाग जाऊँ ॥ १५ ॥

इत्युक्तः कपिराजेन सत्वरं हनुमान्कपिः ॥

आजगामातिहर्षेण रामपादाब्जपदपदः ॥ १६ ॥

भाषा—ऐसा सुधीरने हनुमान् से कहा हनुमान् सुनिके रामजीके पद कमल हैं तिसके रस लेनेमें भ्रमररूप हनुमान् सो बडे हर्षसे रामजीके पास आते भये ॥ १६ ॥

नमस्कृत्य च द्वौ वीरों कौ युवां जगतीपती ॥

मुनिवेषेण पृथिवीं चरन्तो स्वेच्छया बर्ली ॥ १७ ॥

भाषा—राम लक्ष्मणको नमस्कार करके हनुमान् पूछते भये आप दो जो कौन हो ईश्वरकी प्रीतिके पति हो मुनिको रूप धरके अपनी इच्छासे पृथिवीमें भ्रमण कर रहे हो ॥ १७ ॥

हनुमद्रचनं श्रुत्वा वर्णयामास लक्ष्मणः ॥

श्रुत्वा तद्वाक्यमतुलं शमरूपं कपीश्वरः ॥ १८ ॥

भाषा—हनुमान् के वचन सुनके सब चरित्र लक्ष्मण कहते भये शम दम यम नियम आचार आदि कर्म लक्ष्मण कहता भया तिस शमरूप लक्ष्मणके वचनको हनुमान् सुनिके ॥ १८ ॥

कथयामास सर्वं हि सुग्रीवापत्तिकारणम् ॥

युवयोर्भविता मैत्री निःशंका यदि राघव ॥ १९ ॥

**भाषा**—गुरु उपदेशरूप सुग्रीवकी संपूर्ण विपत्ति हनुमान् रामजीसे कहते भये । हनुमान् बोले कि हे रामजी ! आप तो विवेक हो और सुग्रीव गुरुका उपदेश है दोनों जनेकी मिताई जब होवे ॥ १९ ॥

तव तस्य च सर्वं हि कार्यं भवति शोभनम् ॥

इत्युक्त्वा तौ समारोप्य स्वपृष्ठे रघुनन्दनौ ॥ २० ॥

**भाषा**—तब सब तुम्हारा तथा सुग्रीवका काज होवे । गुरुके वियोगरूप वालीको तो आप मारो और मन रावणके मारनेमें सहाय सुग्रीव करेगा ऐसा हनुमान् कहके रामजीके प्रेमका सुख तिसके हर्षरूप हनुमान् के शरीरकी शोभारूप पीठपर राम लक्ष्मणको बैठायके सुग्रीवके पास चलते भये ॥ २० ॥

जगाम चंचलमतिर्मग्नपृष्ठे कपीश्वरः ॥

नयित्वा यत्र सुग्रीवस्तत्र वीराववेशयत् ॥ २१ ॥

**भाषा**—जिस शिखरपर सुग्रीव विराजे थे उसी स्थानपर राम लक्ष्मणको हनुमान् प्राप्त करते भये । इन दो श्लोकोंका एकान्वय है ॥ २१ ॥

चकार मैत्रीन्दुभैद्यान्दुर्जनौरिन्द्रियोद्भवैः ॥

मध्ये कृत्वा गुरोर्भक्तिमग्निद्वौ गुरुभावनाम् ॥ २२ ॥

**भाषा**—रामजी तथा सुग्रीव अपनी अपनी गुरुदेवकी भावनारूप मित्रता करते भये, दुष्ट इन्द्रियों करिके उत्पन्न जो बुरे कर्म सो सब दुर्जन हैं तिन्हों करिके दुःखसे काटने योग्य हैं, सहजमें नहीं कट सकेगा गुरुदेवकी भक्तिरूप अथिको रामजी अपने तथा सुग्रीवके बीचमें रखके मित्रता करते भये, राम सुग्रीवका निश्चय सोई बीच है ॥ २२ ॥

जांबवान् जहृषे तत्र मायाचेष्टोऽतिदुःसहः ॥

तस्य च्छायास्वभावेन नलनीलौ महाबलौ ॥

लघुदीर्घौं तदाकारौ चक्तुर्हर्षमुत्तमम् ॥ २३ ॥

भाषा—मायाका विचार सोई जांबवान् हे, बडा कठिन है सो राम सुश्रीविकी मित्रता देखके खुशी भया, तथा जांबवान्की छायाका स्वभाव दो प्रकारका है एक बडा दूसरा छोटा सो नल नील हैं, सोभी बडे हर्षको प्राप्त भये ॥ २३ ॥

हिंसापराधं वसनन्दिजभावं च रावणे ॥

भूषणं जानकीत्यत्कन्दर्शयामस वानरः ॥ २४ ॥

भाषा—रावण ब्राह्मण है तिसमें ब्राह्मणका भाव तथा ब्राह्मण मारनेसे ब्रह्म-हत्या होती है येही दोनों गहना तथा वस्त्र जानकीके भये हैं इन दोनोंको पेस्तर रावणके रथमें बैठी जो जानकी त्यागि गयीथी, कारण रावणको ब्राह्मण नहीं मानता, ये तो चांडाल है, तथा रावणके मारेकी हत्याकोभी नहीं उरना ऐसा वस्त्र भूषण सुश्रीवि रामजीको दिखाते भये ॥ २४ ॥

दृष्ट्वा तज्जान कीवस्त्रं भूषणं रघुनन्दनः ॥

तच्चिंतनविलापं च तत्क्षणे कृतवान्प्रभुः ॥ २५ ॥

भाषा—पहिले श्लोकमें वर्णन भया जो गहना वस्त्र जानकीका तिसको रामजीने अपने नेत्रोंसे देखिके जानकीकी चिंता रामजी रात दिन करते भये सोई रामजीका विलाप है ॥ २५ ॥

पश्चात्प्रच्छ सुश्रीवं कस्माद्वससि कानने ॥

इति पृष्ठः समारेभे स्वकार्यकथनं कपिः ॥ २६ ॥

भाषा—ऐसा विलाप करके पीछे सुश्रीवसे रामजी पूछते भये कि दुःस्वभा-वस्त्रप वनमें तुम क्यौं बसते हो, रामजी ऐसा पूछते हुए तब सुश्रीव अपना हाल कहने लगा ॥ २६ ॥

उवाच सर्वे कपिसत्तमस्तदा स्वकर्मदुःखं बहुतापवर्द्धनम् ॥

चित्तं समाधाय रघूत्तमस्तदा शुश्राव सर्वे कपिवर्यवर्णितम् ॥ २७ ॥

भाषा—बहुत संतापकी वृद्धि करनेवाला जो अपना कर्म है तिस कर्मको

गुरुका उपदेशरूप जो सुश्रीव है सो सब चरित्र रामजीसे कहता भया, और विवेकरूप रामजी भी, चित्तको स्थिर करिके सुश्रीवका हाल सुनते भये ॥२७॥

इति श्रीवेदान्तरामायणे किञ्चित्कथाकांडे पं० शिवसहायबुधविरचिते संवर्तवरत-  
न्तुसंवादे सुश्रीवरामचंद्रविलये प्रथमो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ १ ॥

### वरतन्तुसुवाच ।

विवेकरामनन्द्रेण पृष्ठः प्रोवाच राघवम् ॥

सुश्रीवो दुःखितोऽत्यन्तं रामं सत्यपराक्रमम् ॥ १ ॥

भाषा—वरतन्तुमुनि फिर बोले, रामजीसे पूछा जो सुश्रीव सो बहुत दुःखी होके रामजीसे बोलता भया ॥ १ ॥

वालिनश्च ममोत्पत्तिं कपीनां चेव विस्तृतम् ॥

अयोध्याप्राप्तराज्याय मुनिस्ते कथयिष्यति ॥ २ ॥

भाषा—हे रामजी ! जब सुमतिरूप अयोध्यामें आप राजगादी पर बैठोगे तब कोई मुनि वालीकी तथा मेरी तथा सब वानरोंके जन्मकी कथा कहेंगे ॥२॥

मम भ्राता रघुथ्रेष्ट वालिज्येष्टोऽतिबुद्धिमान् ॥

ब्रह्मणा स्थापितो राज्ये कपीनां रघुनंदन ॥ ३ ॥

भाषा—हे रामजी ! गुरुका उपदेश रूप तो मैं हूँ सुश्रीव मेरा नाम है और मेरा बड़ा भाई गुरुसे वियोग होता है सो वह वालिनाम है, वालिका कर्म तो मेरे जन्म पाछे होता है परंतु वालि तो मेरे पेस्तर जन्मा है, क्योंकि संयोगसे पहिलेही वियोग जन्मता है सो ऐसे वालीको ब्रह्माने वानरोंका राजा किया ॥ ३ ॥

मनुष्यभावा ये सर्वे गुरौ ते कपयः स्मृताः ॥

मनुष्यभावकर्माणि चासंख्यानि च चंचलाः ॥ ४ ॥

भाषा—जो मनुष्यका कर्म अनेक प्रकारका है, जन्म, मरण, हानि, लाभ, दुःख, सुख आदि और जो बहुत कर्म हैं सो सब गुरुमें देखना, ऐसे अनेक प्रकारके स्वभाव सोई गिनतीसे हीन बानर हैं ॥ ४ ॥

गुरौ कुभावनालोकास्ते ऋक्षा हृदिजा मुने ॥

गुरौ दुर्बुद्धिरत्यन्तं सा किञ्चिकधापुरी प्रभो ॥ ६ ॥

भाषा—और जुवारी, चोर, व्यभिचारी, नसेबाज, परनिंदक, कृपण इन आदि और जो अनेक बुरे कर्म हैं सो सब ये लक्षण गुरुमें देखना, सोई कक्ष हैं तथा गुरुमें बहुत खोटी बुद्धि करना सोई बुद्धि किञ्चिकधा पुरी है ॥ ५ ॥

तस्यां स्थितो महाबुद्धिर्वाली विगतकल्पः ॥

यावत्स्ववल्सामर्थ्यं तावदुर्मतितां गुरौ ॥

जीवानां कारयामास तज्जर्ककपिशासनम् ॥ ६ ॥

भाषा—तिस किञ्चिकधापुरीमें टिकके बड़ा बुद्धिमान् पापसे रहित ऐसा जो वाली सो वानरोंका राजा होता भया, जहांतक गुरुके वियोगरूप वालीको जोर चला तहांतक जीवोंको गुरुमें खोटी मति कराय दिया, ऐसा वानरोंका तथा कक्षोंका राज्य करता भया ॥ ६ ॥

तस्य भार्या रघुश्रेष्ठ तारानाम्नी शुभावलिः ॥

चिंता गुरुवियोगस्य तस्यां जातोऽगदः सुतः ॥ ७ ॥

भाषा—हे रामजी ! गुरुके वियोगकी चिंता सोई वालीकी श्वी है तारा उसका नाम है, तिस तारामें वालीके अंगदनाम पुत्र भया ॥ ७ ॥

उपायो गुरुदेवस्य वियोगशामनस्य च ॥

मम भार्या महाराज रूमा नाम्नोति विश्रुता ॥

गुरौ राज्ञा सदा ग्राह्या सा मम प्राणवल्लभा ॥ ८ ॥

भाषा—गुरुके वियोगकी शांति करनेका उपाय जो है सोई अंगद है, हे महाराज ! नित्य गुरुकी आज्ञा विना विचारे ग्रहण करना ये नहीं विचारना कि ये आज्ञा गुरु खोटी देते हैं या भली देते हैं ऐसी मति सो मेरी श्वी रूमा उसका नाम है ॥ ८ ॥

एवं वालिर्महावीरश्वकार राज्यमुत्तमम् ॥

कपीनां चिरकालं च ममापि प्रीतिवद्द्वनः ॥ ९ ॥

**भाषा—**इस प्रकारसे वालीने बहुत दिनतक कपियोंका राजा होकर राज्य किया तथा मेरीभी प्रीति बढ़ाई ॥ ९ ॥

एकदा दुंदुभिर्नाम राक्षसो रघुनंदन ॥

आजगाम निशामध्ये वालिं जेतुन्निशाचरः ॥ १० ॥

**भाषा—**हे रघुनंदन ! एकदिन रात्रिमें वालीको जीतने वास्ते दुंदुभी नाम राक्षस आता भया ॥ १० ॥

अभिमानो गुरौ राम दुंदुभिर्बलवत्तरः ॥

गुरो मानस्य वा प्रीतिः सा निशा रघुनंदन ॥ ११ ॥

**भाषा—**जीवोंको गुरुमें अभिमान कि सब संसार छोटा है और हमारे गुरु बड़े हैं ऐसा मान सोई दुंदुभी है, बड़ा बली है, और उसी गुरुके अभिमानकी प्रीति सोई रात्रि है ॥ ११ ॥

तत्सौख्यांधयुता मध्यं सौख्याद्यं हर्षकारणम् ॥

दुंदुभिः क्रोधसंयुक्तोऽथाजुहाव कपीश्वरम् ॥ १२ ॥

**भाषा—**उसी गुरुदेवके अभिमानकी प्रीतिमें सुख मानना सोई अंधकार है, तिस करके रात्रियुक्त है, उसी प्रीतिके सुखमें बड़ा हर्ष मानना सोई अर्धरात्रि है, ऐसा जो दुंदुभी राक्षस सो क्रोध करके वालीकूँ पुकारने लगा अरे दुष्ट ! गुरुके वियोगलृप वाली तूने बहुतसे जीवोंको गुरुसेवासे दूर करके बैठा है सो तुझको मारके सब जीवोंकी गुरुदेवसे मुलाकात कराऊंगा ॥ १२ ॥

युद्धार्थे स्वस्त्रकार्यार्थे तच्छ्रुत्वा कपिसत्तमः ॥

आगत्य त्वरितं वीरो जघानैकेन मुष्टिना ॥ १३ ॥

**भाषा—**ऐसे शब्दको सुनिके वाली तो जीवोंको गुरुसे वियोग करने वास्ते और दुंदुभी जीवोंको गुरुसे मिलाप कराने वास्ते युद्ध करते भये, वाली एक हाथकी मुट्ठी करके दुंदुभीको मारने लगा ॥ १३ ॥

ताडितो मूर्खतामुष्टया दुद्रावाहृदवेगतः ॥

स्वगुहां गर्वद्वाद्धं वै आविवेश त्वरान्वितः ॥ १४ ॥

भाषा—जीवोंकी मूर्खबुद्धि सोई वालीके हाथकी मुष्टि है तिस करके मारा गया जो दुंदुभी है सो बड़े वेगसे भागके गुरुके अभिमानरूप दुंदुभीकी बुद्धि जो है सोई दुंदुभीकी गुहा है, तिस गुहामें घुस गया ॥ १४ ॥

वालिर्विवेश क्रोधेन तं हन्तुं तां गुहां सुधीः ॥  
ब्रातृस्नेहपरितेन मयापि गमनं कृतम् ॥  
मां स्थाप्य सा गुहाद्वारे सत्संगतिविवर्जिते ॥ १५ ॥

भाषा—दुंदुभीको मारने वास्ते वाली भी उस गुहामें प्रवेश करता भया, भाईका स्नेह जो है सोई मेरा गमन है इस प्रकारसे मैं भी वालीके पीछे २ जाता भया, सत्संगतिसे वर्जित जो कर्म सोई गुहाका दरवाजा है तिस दरवाजेपर वालीने मुझको टिकायके ॥ १५ ॥

तत्र युद्धं कृतं तेन वालिना च परस्परम् ॥  
स्थित्वाहं मासमेकञ्च ब्रातृस्नेहस्वरूपिणम् ॥ १६ ॥

भाषा—गुहाके भीतर गया तब वालीसे तथा दुंदुभीसे युद्ध होता हुआ मेरे ऊपर वालीका स्नेह बहुत रहा सोई एक मास गुहाके दरवाजेपर खड़ा रहा ॥ १६ ॥

वालिना निहतो रक्षस्तदा द्वारे ववाह च ॥  
बहुरक्तं मया ज्ञातं स्वभावचलनं सखे ॥ १७ ॥

भाषा—वालीने दुंदुभीको मारा तब गुहाके दरवाजेपर मेरे स्वभावका चलायमान होना सोई रक्त है सो बहुत बहता भया ॥ १७ ॥

हत्वा वालिं समायाति मां हन्तुं दुंदुभिः शठः ॥  
एवं ज्ञात्वा शिलामेकां स्वबुद्धिजडतां नृप ॥ १८ ॥

भाषा—हे मित्र ! मैंने विचार किया कि गुरुदेवमें अभिमानरूप दुंदुभी बड़ा जर्दस्त है क्योंकि दुंदुभीके ऊपर गुरुकी कृपा है सो वालीकूँ मारके मुझको मारेगा ऐसा जानके हे राजन् रामचंद्रजी ! मेरी बुद्धिकी जड़ प्रकृति सोई शिला है ॥ १८ ॥

गुहाद्वारि समाधाय किञ्चिंधामहमागतः ॥

प्रसद्यकारात्कपयः पूर्वोक्ता रथुनन्दन ॥ १९ ॥

भाषा—मैंने अपनी जडप्रकृतिरूप शिलासे सत्संगति वर्जित गुहाके दरवाजेको ढापिके किञ्चिंधापुरीको मैं चला आया तब हे रथुनन्दन ! पेस्तर वर्णन भये जो कपि हैं सो मुझको जर्बदस्तीसे ॥ १९ ॥

सखे मामप्यमिच्छन्तमभिपेचुर्मदाकुलाः ॥

गुरुदुर्बुद्धिकिञ्चिंधापुरीराज्ये स्थितो ह्यहम् ॥ २० ॥

भाषा—हे मित्र ! मेरे गुरुदेवमें दुर्बुद्धि रूप जो किञ्चिंधापुरी तिसका राज्य करनेकी मेरी इच्छा नहीं थी तौ भी मुझको अभिभानसे उन्मत्त ऐसे जो कपि हैं सो मेरेको किञ्चिंधापुरीका राज्य देते भये ॥ २० ॥

गुरुक्तिनिश्चयस्यैव भंगं प्राप्तं सुखं मया ॥

तत्रिहत्य समायातो वालिः स्वासनसंस्थितम् ॥ २१ ॥

भाषा—गुरुके वचनका विश्वास मेरा नष्ट होगया यह सुख किञ्चिंधाके राज्यमें मैं पाया हे रामजी ! दुंदुभक्ति मारके गुरुके वियोगरूप वाली आयके आसन पर बैठा ॥ २१ ॥

दृष्ट्वा मां हन्तुकामश्च दुद्राव त्वरितो यदा ॥

तदाहं त्रासितो राम सर्वं सन्त्यज्य विद्रुतः ॥ २२ ॥

भाषा—मुझको देखके गुरुके वियोगरूप वालि मुझको मारने दाढ़ता भया तब मैंने आपके गुरुदेवमें प्रेमजान्ति अनुरागसे वन आदि सब सुंदर कर्म तथा गुरुदेवकी आज्ञारूप मेरी रुमानाम श्री इन सबकूँ छोड़कै व्याकुल होयके भाग गया ॥ २२ ॥

करुणां पृथिवीं सर्वीं ब्रामाहं सुदुःखितः ॥

अमरणं दुर्बलत्वं मे स्वात्मनो रक्षणाय वै ॥ २३ ॥

भाषा—करुणारूप संपूर्ण पृथिवी मैंने भ्रमण किया परंतु वालीका द्रोही जानके मुझको किसीने शरण नहीं दिया क्यों कि गुरुका उपदेशरूप जो मैं हूँ

सो गरीब और गुरुका वियोगरूप वाली बड़ा जबरदस्त है इसवास्ते मेरी दुर्बलता सोई पृथ्वीमें मैंने भ्रमण किया है ॥ २३ ॥

**वियोगवालिनस्त्रासो वर्तते वसुधातले ॥**

**अविश्वासेन त्रासेन न लब्धं शरणं मया ॥ २४ ॥**

भाषा—गुरुमें वालीका विश्वास नहीं है वालीका त्रास सोई है तिस त्रास करके दयारूप पृथ्वीमें मैंने भ्रमण किया परंतु मुझे कहाँ शरण नहीं प्राप्त भई ॥ २४ ॥

**स्वस्वभावगुरोश्चाहं शरणं गतवानहम् ॥**

**तेनोपदिष्टः प्राप्तोऽहं गिरिमेनं समाश्रितः ॥ २५ ॥**

भाषा—पीछेसे मेरा स्वभाव जो है सोई मेरा गुरु है तिसकी शरणकूँ मैं गया तब मेरा स्वभावरूप गुरुदेवकी आज्ञा पायके इस पर्वतपर मैं टिका हूँ ॥ २५ ॥

**राम नात्र समायाति वालिमे मूलकृन्तनः ॥**

**मतंगशापाद्राजेन्द्र तस्मादत्र स्थितो ह्यहम् ॥ २६ ॥**

भाषा—हे रामजी ! मतंग क्रष्णिके शापसे इस पर्वतपर मेरे मूलको काटने-वाला वाली नहीं आता इस वास्ते मैं इस पर्वतपर टिका हूँ ॥ २६ ॥

**सुखेन मंत्रिभिः सार्द्धं चतुर्भीं रघुनंदन ॥**

**सुखे ते संगतिं प्राप्य मयोऽहं सुखवारिधौ ॥ २७ ॥**

भाषा—हे रघुनंदन ! सुख करके चार मंत्री सहित यहाँ टिकाहूँ, परंतु हे मित्र ! अब आपकी संगति पायके सुखके समुद्रमें मग्न भया हूँ ॥ २७ ॥

**गुरुपदेशेन सुकंठनामा विज्ञापितोऽभूदिति रामचन्द्रः ॥**

**प्रच्छ सर्वं मुनिवर्यकृत्यं रघूत्तमो वालिविनाशभीतिम् ॥ २८ ॥**

भाषा—सुग्रीवनाम जो गुरुपदेश तिस करके कहे हुए जो रामजी हैं सो मतंगके शापका हाल सुन जिससे वाली त्रास पाता है सो पूँछते भये ॥ २८ ॥

इति श्रीवेदान्तरामायणे किञ्चिकथाकांडे विवसहायबुधविरचिते सुग्रीव-  
रामसंवादे रामप्रभ्वे द्वितीयो मोक्षार्थ्यः सोपानः ॥ २ ॥

### वरतन्तुरुवाच ।

सुग्रीववाक्यावसरे रामः प्रोवाच सादरम् ॥

को मतंगो मुनिः शापं यो ददौ कपिसत्तमे ॥ १ ॥

भाषा—वरतंतु मुनि बोले सुग्रीव वचन कहचुके तब रामजी सुग्रीवसे पूँछते भये, वालीको शाप देनेवाले मतंगक्षणि कौन है ॥ १ ॥

रामस्य वचनं श्रुत्वा हरिः प्रोवाच राघवम् ॥

सखे शृणु कथामेतामेकदा महिषासुरः ॥ २ ॥

भाषा—विवेकरूप रामजीका वचन सुनके गुरुदेवका उपदेशरूप सुग्रीव बोलते भये, हे मित्र ! यह कथा सुनने लायक है सो आप सुनो एक दिन महिषासुर राक्षस ॥ २ ॥

वालिनं त्वसदाचारः स्ववशे करणाय च ॥

किञ्चिक्थामाजगामाशु भयवेगकलीर्धणैः ॥ ३ ॥

भाषा—हठ करके झूठ कर्मका आचरण करना सोई महिषासुर है, सो महिषासुर वालीको जीतने वास्ते किञ्चिक्था पुरीको आता भया, जीवोंको भय देना, काम करनेमें जलदी रखना, सब जीवोंसे लडाई करना सब जीवोंसे ईर्षा करना इन करके ॥ ३ ॥

पादैरतैश्च संयुक्तो दुराचर्यादिसम्भवैः ॥

रोमभिर्भृत्याभिर्व्याप्तन्देहं विभ्रन्मदाकुलः ॥ ४ ॥

भाषा—ये चार महिषासुरके पग हैं, इन चार पगों करके युक्त है, खोटे कर्मसे उत्पन्न जो कर्म सो रोम है, तिस बहुत रोमको धारण करके उन्मत्त होरहा है ॥ ४ ॥

दुरुक्तिनिरयाभ्यां वै नेत्राभ्यां रागरंजितः ॥

पैशुन्यपरघाताभ्यां शृंगाभ्यां तीक्ष्णनिर्मितः ॥ ५ ॥

भाषा—खोटा वाक्य बोलना तथा नरकमें पड़ने माफिक कर्म करना ये दोनों कर्म दो नेत्र हैं इन दोनों कर्ममें स्लेह सोई लाल रंग है तिस करके दोनों

आंख लाल होरही हैं, चुगली करना तथा दूसरेकूं मारना ये दोनों शींग हैं इन कर्मोंमें प्रेम सो शींगकी धार है ऐसे शींग करके युक्त है ॥ ५ ॥

**पैशुन्यसुखपुच्छेन लंबमानेन शोभितः ॥**

**एतादृशो हतो राम वालिना महिषासुरः ॥ ६ ॥**

भाषा—चुगलीमें सुख मानना सोई पूँछ है तिस पुच्छ करके शोभित है ऐसे महिषासुरकूं वालीने मारडाला ॥ ६ ॥

**हतमुत्थाय तं वीरश्चिक्षेप क्रोधसंकुलः ॥**

**पपात पर्वतस्यास्य समीपे रघुनन्दन ॥ ७ ॥**

भाषा—हे रघुनन्दन ! महिषासुरको मारके वाली उसकी देहको उठायके केंकता भया, तब वह देह इस पर्वतके सामने आय पड़ी ॥ ७ ॥

**स्वेच्छाचारमतंगस्य चाश्रमे पतितोऽसुरः ॥**

**दुष्टाचरणरक्तेश्च रंजितोऽभूतदाश्रमः ॥ ८ ॥**

भाषा—वेद शास्त्र लोकको संमत नहीं मानना अपनी इच्छामें आवे सोई करना ऐसे स्वभावको शास्त्रमें मतंग कृषि कहते हैं ऐसे मतंग मुनिके आश्रमपर मरा हुआ आय पड़ा, तथा खोटे कर्मका आचरणरूप करके जो रक्त उससे मुनिका आश्रम लाल होगया ॥ ८ ॥

**गुरुध्यानगिरेरस्य समीपे वानरोत्तम ॥**

**यद्यागन्तासि वै मृत्युस्तत्क्षणे ते भविष्यति ॥ ९ ॥**

भाषा—तब स्वेच्छाचाररूप मतंगमुनि बोले कि हे कपियोंमें उत्तम वालि ! यह जो गुरुदेवको ध्यानरूप प्रवर्षण पर्वत है इसके समीप जो तू आवेगा तो उसी समय मरजावेगा ॥ ९ ॥

**एवं ज्ञात्वा रघुश्रेष्ठ नायात्यत्र कदापि च ॥**

**एवं ज्ञात्वा च मे वासः कृतोऽत्र रघुनन्दन ॥ १० ॥**

भाषा—हे रघुनन्दन ! मैंने ऐसा जाना कि वाली यहां नहीं आसक्ता इस वास्ते इस पर्वतपर मैंने वास किया है ॥ १० ॥

श्रुत्वा च सुग्रीवसमीरितं वचः प्रोवाच रामः करुणाश्रुपूरितः ॥

अहं हनिष्यामि तवाशु द्रोहिणं सखेऽभिषेच्यामि च त्वानृपासने ११ ॥

भाषा—ऐसा सुग्रीवका वाक्य सुनके रामजी बोले कि हे मित्र ! तुम्हारे द्वेष करनेवाले वालीकूँ हम मारेंगे और तुमकूँ किञ्चिकथापुरीका राजा करेंगे ॥११॥

रामोक्ति कपिवीरस्तु निशम्योवाच राघवम् ॥

किञ्चिकथाधिपाति मान्त्वं वानराणामधीश्वरम् ॥ १२ ॥

भाषा—विवेकरूप रामजीका वचन सुनके गुरुका उपदेशरूप सुग्रीव बोले कि हे रामजी ! जो आप मेरे गुरुदेवमें खोटी बुद्धि करना ऐसी किञ्चिकथा पुरीका राजा ॥ १२ ॥

करिष्यसि यदा वीर तदा ते जानकीमहम् ॥

पुरीमपि शुभां कुर्यां सुबुद्धिं गुरुसत्तमे ॥

सप्तपातालविवरात्सप्तोर्धाद्रघुनन्दन ॥ १३ ॥

भाषा—करोगे तब मैं पुरीकोभी सुंदरबुद्धि गुरुमें कर देऊंगा, तथा जानकीकोभी सात पाताल नीचे सात ऊपर ॥ १३ ॥

विनाश्य जानकीदुःखदातारं सकुलम्प्रभो ॥

सगुरुं सपुरं दुष्टं समित्रं सहचारिणम् ॥ १४ ॥

भाषा—मैंभी जो जानकीको दुःख देनेवाले दुष्टको परिवार गुरु पुर मित्र संग रहनेवाले इन सबको नाश करके ॥ १४ ॥

दास्यामि तुभ्यं जनकात्मजामहं सखे ध्रुवं प्राप्य कपीश्वरेश-  
ताम् ॥ हनिष्यसे त्वं कथमद्य वालिनं वीरं सुवीरार्चितपाद-  
पल्लवम् ॥ १५ ॥

भाषा—जानकीको आपकूँ देऊंगा, परंतु हे मित्र ! जो मुझे किञ्चिकथाका राज्य मिलेगा तो हे रामजी ! बडे बडे वीर जैसे ध्यान ज्ञान उपदेश इन आदि और अनेक सुंदर कर्म वालीके पगका पूजन करतेहैं कि हे गुरुके वियोग दुष्ट वाली ! तू जीवोंको गुरुदेवसे वियोग मत कर, ऐसे वीर वालीको आप अभी कैसे मारेगे ॥ १५ ॥

इत्युक्त्वा दर्शयामास सप्ततालान्कपीश्वरः ॥

रामचंद्राय त्वरितं शुष्कं च दुंडुभेशिशरः ॥ १६ ॥

भाषा—रामजीसे सुश्रीव ऐसा कहके रामजीको सात तालके वृक्ष तथा दुंडुभीका सूखा शिर देखाते भये ॥ १६ ॥

कुतृष्णायास्तुतान्सप्त लंबमाननभश्वरान् ॥

परसौरव्यविनाशं च परवित्तकलत्रयोः ॥ १७ ॥

भाषा—खोटे कर्ममें तृष्णा करना तिस तृष्णाके सात पुत्र जमीनसे आकाशतक ऊचे दूसरे जीवके सुखका नाश करना और दूसरे जीवके धन तथा द्वीको ॥ १७ ॥

हरणं सुज्ञविद्वेषमन्याये वर्तनं सदा ॥

स्वन्मीनिरादरं नित्यं मरणाच्चितनं तथा ॥ १८ ॥

भाषा—हरण करना तथा ईश्वरके गुणको जानेवाले जीवोंसे वैर रखना रातिदिन अन्याय कर्ममें रहना अपनी द्वीका रोज अनादर करना मरनेकी चिन्ता नहीं करना ॥ १८ ॥

एतान्तालान् स्वस्वसुखैः पञ्चैश्व वर्द्धितान्कपिः ॥

प्रोवाच दर्शयित्वैतां धृत्वा कंपयतेऽसकृत् ॥ १९ ॥

भाषा—ये सात कर्मरूप सात तालके वृक्ष हैं ये सात तालके वृक्ष अपने अपने कर्ममें सुख मानना उसी सुखरूप पत्र करके वर्द्धित होरहे हैं, सुश्रीवने ऐसे सात तालके वृक्ष रामजीको दिखायके रामजीसे बोले कि इन सातों वृक्षोंको एकही बार बाली पकड़के हिलाता है ॥ १९ ॥

तालान्सप्तैकबाणेन यदि च्छेतुं क्षमः प्रभो ॥

तदा वालिवधे राम विश्वासो मे प्रजायते ॥ २० ॥

भाषा—हे रामजी ! जो एक बाण करके आप सात वृक्षोंको काटनेमें समर्थ हो तब बालीके मारनेमें विश्वास सुझको होवे ॥ २० ॥

सर्वप्राणोत्तमं ज्ञानं गूरौ यद्रघुनन्दन ॥

तदुंडुभिशिरश्चेदमाद्रै क्षितञ्च वालिना ॥ २१ ॥

भाषा—हे रघुनंदन ! सब जीवोंसे अपने गुरुको उत्तम मानना सोई दुंदुभिका  
शिर है सोई शिर यह आपके सामने पड़ा है यह गीला रहा था तब वालीने  
उठायके यहांपर फेंक दिया ॥ २१ ॥

तवास्योत्क्षेपणे राम चेत्पश्यामि पराक्रमम् ॥

तदा त्वया हतं मन्ये वालिनं वीरसंमतम् ॥ २२ ॥

भाषा—और अब यह शिर सूखा है तो भी आप इसके उठानेकोभी जो  
समर्थ होवें तो मैं जानूँ कि आपके मारे वाली मरेगा ॥ २२ ॥

इत्युक्त्वा कपिना रामो विवेको ज्ञानवारिधिः ॥

सत्संगार्बुदछायायाः छायाछायार्बुदेन वै ॥ २३ ॥

भाषा—ऐसा सुश्रीविका वचन सुनके ज्ञानके समुद्र रामजी विवेकरूप सो  
सत्संगकी अर्बुदभाग जो छाया तिस छायाकी छायाके अर्बुद भागका एक  
भाग सोई बाण है तिस एक बाण करके एकही दफेमें सातों वृक्षोंको काट डारे  
यह युग्म है ॥ २३ ॥

भाग्नेनेकेषुणा रामश्चिच्छेद युगपत्तरून् ॥

कदापि रामचंद्रस्य स्वभावोऽभ्यासतश्चलेत् ॥ २४ ॥

भाषा—विवेक रूप रामजीका स्वभाव कभी इश्वरके ध्यान करनेसे चलाय-  
मान होता है और कभी चलायमान नहीं होता ऐसा स्वभाव रामजीके दोनों पग  
हैं यह युग्म है ॥ २४ ॥

कदापि न चलेत्स्मादिमौ पादौ प्रकीर्तितौ ॥

अचलो दक्षिणो ज्ञेयश्चलो वाम इतीयर्यते ॥ २५ ॥

भाषा—रामजीका अभ्यासमें अचल स्वभाव सोई रामजीका दक्षिण पग है  
और चलस्वभाव वाम पग है ॥ २५ ॥

याश्चलश्चलयोः प्रीत्यस्ताश्चांगुल्यः प्रकीर्तिताः ॥

द्वयोरचलवृत्तं यत्तदंगुष्ठं निगद्यते ॥ २६ ॥

भाषा—चल पगमें तथा अचल पगमें जो बहुत प्रीति सो दोनों पगोंकी अंगुली  
हैं रामजीके दोनों पगोंका अचल स्वभाव सो दोनों पगोंका अंगूठा है ॥ २६ ॥

तच्छ्रश्वाशु चिक्षेप वामांगुष्ठेन राघवः ॥

एतत्पराक्रमं द्वजा रामस्य कपिसत्तमः ॥ २७ ॥

भाषा—रामजीने वामपगके अंगूठेसे उठायके जल्दी दुंदुभीका शिर बहुत दूर  
फेंकदिया ऐसा रामजीका पराक्रम सुग्रीव देखके ॥ २७ ॥

राज्यस्पृहां परित्यज्य ज्ञानयुक्तो बभूव ह ॥

बद्धा करांजलिं रामप्रोवाच विनयान्वितः ॥ २८ ॥

भाषा—राज्यकी इच्छा छोडके ज्ञानको प्राप्त भया जो सुग्रीव है सो हाथ  
जोडके रामजीसे बोला ॥ २८ ॥

राज्यं न कांक्षे रघुवीर दुःखदं त्वत्पादसँल्लग्नरजोऽभिवांछकः ॥

भवामि नित्यन्तव दासर्किकरः प्रदेहि राज्यं तव सेवनावधिम् ॥ २९ ॥

भाषा—हे रामजी ! जिस किञ्चिंधापुरीका राज्य पापके गुरुदेवमें दुष्टबुद्धि  
हैवै ऐसा दुःख देनेवाले राज्यको मैं नहीं चाहताहूं आपके चरणकी धूलि  
चाहताहूं आप आपके चरणोंकी सेवनरूप राज्य मेरेको देवो ॥ २९ ॥

इति श्रीविदांतरामायणे किञ्चिकप्राकांडे शिवसहायबुधविरचिते  
सुग्रीवानिश्चये तृतीयो मोक्षास्त्वयः सोपानः ॥ ३ ॥

### वरतन्तुरुवाच ।

सुग्रीववचनं श्रुत्वा संशिक्ष्य कपिसत्तमम् ॥

प्रेरयामास युद्धाय वालिना रघुनन्दनः ॥ १ ॥

भाषा—वरतंतु मुनि बोले सुग्रीवका वचन मुनके रामजीने सुग्रीवको सिखाके  
वालिके संग युद्ध करनेको भेजा ॥ १ ॥

चतुर्भिर्मर्मविभिस्सार्द्धं राघवाभ्यां च संयुतः ॥

क्रोशैके गुरुदुर्बुद्धिकिञ्चिंधायाश्च निश्चये ॥ २ ॥

भाषा—चार मंत्री सहित तथा रामलक्ष्मण सहित गुरुसे दुष्टबुद्धिरूप जो  
किञ्चिंधा तिसके एक कोशपर ॥ २ ॥

तद्वे लक्ष्मणौ स्थित्वा चत्वारश्चैव मंत्रिणः ॥

सुश्रीवेण तदाहृतो वालिर्विशिरोमणिः ॥ ३ ॥

**भाषा**—सुश्रीव खडा होके गुरुके वियोगरूप वालिको पुकारता भया और सुश्रीवसे कुछ दूरपर राम लक्ष्मण और सुश्रीवके चार मंत्री ये सब खडे रहे ॥ ३ ॥

तूर्णमागत्य युयुधे स्वानुजेन कपीश्वरः ॥

गुरुवाक्येषु विश्वासस्सुश्रीवपुच्छवर्णनम् ॥ ४ ॥

**भाषा**—गुरुकी वाक्यमें विश्वास मानना सोई सुश्रीवकी पुच्छ है कपीश्वर जो गालि है सो जलदी आयकर अपने भाई सुश्रीवसे युद्ध करता भया ॥ ४ ॥

तदविश्वासज्ञानं च वालिपुच्छविगद्यते ॥

ताभ्यां युद्धं च द्वौ चक्रे पुनर्मुष्टया प्रजग्नतुः ॥ ५ ॥

**भाषा**—उसी गुरुकी वाक्यसे विश्वास नहीं मानना सोई वालिकी पुच्छ है गो पहिले तो दोनों बीर पूँछसे युद्ध करते भये पछे मुष्टिसे युद्ध करते भये ॥ ५ ॥

ब्रह्मसृष्टौ च यद्वस्तु तन्मे सर्वे गुरुर्हरिः ॥

इति बुद्धिः समाल्याता सुश्रीवमुष्टिबंधनम् ॥ ६ ॥

**भाषा**—ब्रह्माके बनाये जो तीन लोक चौदह भुवनमें जो चीज है सो सब वीजरूप मेरा गुरु है ऐसे गुरुको ब्रह्मरूप माननेवाली बुद्धि सो सुश्रीवकी मुष्टिका बांधना है ॥ ६ ॥

बुद्धिरस्तदन्या या तस्मिन्सा वाल्यंगुलिबंधना ॥

मुष्टया युयुधतुवीरौ सुश्रीवो वालिताडितः ॥ ७ ॥

**भाषा**—और गुरुमें ऐसी बुद्धिसे हीन जो दूसरी बुद्धि है कि जैसी जुदी जुदी सब वस्तु है तैसेरी गुरुभी है ऐसी बुद्धि वालिका मुष्टिबंधन है ऐसी मुष्टिसे वालीको सुश्रीवने मारा सुश्रीवको वालीने मारा । सुश्रीव तो चाहता है कि गुरुके वियोगरूप वालीको मार डालूँ तो जीवोंसे गुरुवियोग नहीं होवे और वाली चाहता है कि गुरुके उपदेशरूप सुश्रीवको मार डालूँ तो गुरुको उपदेश संसारमें नष्ट होजावे और मेरा राज्य रहे सो वालीने सुश्रीवको मारा तब सुश्रीव दुःखी होगया ॥ ७ ॥

ष्टुव्यायाहुःसितो भूत्वा गिरिमूर्धि स्वमाश्रमम् ॥

स्पृष्टो विवेकरामेण करेण कपिसत्तमः ॥ ८ ॥

भाषा—तब सुश्रीव दुःखी होके भागके पर्वतपर अपने आश्रमपर आया तब विवेकरूप रामजी अयना हाथ सुश्रीवके ऊपर फेरते भये लूपा करके देखना सोई हाथ फेरना है ॥ ८ ॥

गतश्रमः सुखं पेदे शौर्येण मञ्चिभिः सह ॥

उवाच रामं सुश्रीवः कथं घातयसेऽरिणा ॥ ९ ॥

भाषा—तब सुश्रीवके देहकी पीड़ा नष्ट होगई और सुश्रीव सुखको प्राप्त भये मन्त्रियों सहित बड़े मानसे जैसा पुत्र पितासे मान करके बात करे कि मैं तो आपका बालक हूँ यह काम आपकूँ करना पड़ेगा तेसोई सुश्रीव रामजीसे बोले कि हे रामजी ! वैरीसे मेरेकूँ आप क्यों मरते हो मारना होवे तो आपही मेरेको मार डालो ॥ ९ ॥

इत्युक्तो राघवः प्राह न ज्ञातस्त्वं मया सखे ॥

एकरूपौ युवां वीक्ष्य न त्यक्तः सायको मया ॥ १० ॥

भाषा—ऐसे सुश्रीवके वाक्य सुनके रामजी बोले कि हे भाई ! तुम दोनों एकरूप रहे थे इसवास्ते मैं नहीं जाना कि कौन वाली है कौन सुश्रीव है इस वास्ते मैंने बाण नहीं छोड़ा ॥ १० ॥

वालिनं पुनराहाय हतं पश्यसि भूतले ॥

इत्युक्त्वा लक्ष्मणं प्राह रामः सत्यपराक्रमः ॥ ११ ॥

भाषा—सो फिर वालीको तुम पुकारो अब कि वालिको मरा देख लेना सुश्रीवसे ऐसा कहके सत्य है पराक्रम जिसका ऐसे रामजी लक्ष्मणसे बोलते भये ॥ ११ ॥

मत्प्रीतिरूपां बधीहि मालां कंठेऽस्य धीमतः ॥

ययेम चिह्नितं ज्ञात्वा वालिप्राणं हराम्यहम् ॥ १२ ॥

भाषा—हे लक्ष्मण ! मेरी प्रीति सुश्रीवपर बहुत है उसी प्रीतिरूप मालाको

सुर्यीविके गलेमें बांध देओ उस माला करके मैं जानूंगा कि यह सुर्यीव है ऐसा  
जानके वालीके प्राणको मैं हरूंगा ॥ १२ ॥

इत्युक्तो लक्ष्मणस्तूर्णं बद्धा मालां दृढं शुभाम् ॥

रामप्रीतिस्वरूपां च तद्वर्षपुष्पपुष्पिताम् ॥ १३ ॥

**भाषा—**रामजीके ऐसे वाक्य लक्ष्मण सुनके शीघ्रही सुंदर माला सुर्यीवके  
गलेमें बांधते भये रामजीकी प्रीतिरूप माला है सुर्यीवका हर्ष सो पुष्प भया है  
तिस पुष्पों करके माला फुलायमान हो रही है ॥ १३ ॥

बद्धमालस्तु सुर्यीवः पुनर्गत्वा तिशीश्रतः ॥

आह्वायामास प्रोच्चैस्तं वालिनं निर्भयो युधे ॥ १४ ॥

**भाषा—**मालाकूं गलेमें बाँधके सुर्यीव जलदी बडे जोरसे वालिको युद्ध करने  
वाले निर्भय होके पुकारता भया ॥ १४ ॥

वाली च पुनराहृतः सुर्यीवेणातिक्रोधितः ॥

तारया वारितोऽपीत्यं रामचंद्रगुणम्प्रति ॥ १५ ॥

**भाषा—**सुर्यीव करके पुकारा जो वाली है उसने बडा क्रोध करके चलनेका  
विचार किया तौ ताराने रामजीके सब गुण वालीको सुनायके बोली आप मति  
जावो, बडे जबरदस्तसे सुर्यीवकी मिताई भई है ॥ १५ ॥

तां तिरस्कृत्य समग्रात्सुर्यीवं युद्धलालसम् ॥

युद्धं प्रचक्रतुर्वीरौ वालिना विह्वलीकृतम् ॥ १६ ॥

**भाषा—**वालीने ताराका अनादर करके युद्धकी इच्छा किये जो सुर्यीव है  
तिसके पास आयके फिर दोनोंसे युद्ध होता भया, तब वालीने सुर्यीवको विह्वल  
करादिया ॥ १६ ॥

सुर्यीवं राघवो वीक्ष्य पूर्वोक्ते धनुषि प्रभुः ॥

पुनर्दिशक्षोद्भवं ज्ञानं बाणं संयोज्य शीश्रतः ॥ १७ ॥

**भाषा—**सुर्यीवको व्याकुल देखके रामजी पाहिले वर्णन भया जो धनुष  
तिसपर फिर सुंदर कर्मको सिखानारूप बाण जलदी चढायके ॥ १७ ॥

वियोगकृतमज्ञानं वृक्षं कृत्वा पुरस्सरम् ॥

आलक्ष्य हृदयं तस्य ससर्ज शरमुग्रिणम् ॥ १८ ॥

भाषा—गुरुके वियोग करके किया जो अज्ञान सोई वृक्ष है, तिस वृक्षको अपने सामने करके आप वृक्षकी आडमें होयके बालीके हृदयको देखके शिक्षारूप बाण बड़ा कठिन तिसकूँ छोड़ते भये ॥ १८ ॥

तेनाहृतः पपाताशु दृष्ट्वा रामं पुरःस्थितम् ॥

स्तुत्वा क्षमाप्य स्वाध च प्राणं तत्याज वानरः ॥ १९ ॥

भाषा—तिस बाण करके मृत्युको प्राप्त भया जो बाली सो शीघ्रही पृथ्वीमें पड़गया, तब रामजीको सामने देखके अपना अपराध रामजीसे क्षमा करायके प्राणोंको छोड़ देताभया, गुरुदेववियोगका मरण भया सो सब जीव आनंदयुक्त भये ॥ १९ ॥

चक्रविलापन्ते सर्वे सुश्रीवाद्याः कपीश्वराः ॥

जनिष्यति पुनस्सोऽयमिति शोकम्पचक्रिरे ॥ २० ॥

भाषा—गुरुके वियोगरूप बालीके मरणकूँ देखिके गुरुके उपदेशरूप सुश्रीव तथा सुश्रीव आदि और जो वानर हैं सो विलाप करते भये, कि यह गुरुका वियोगरूप किर कभी जन्मेगा ऐसा चिंतनरूप विलाप करते भये ॥ २० ॥

वालिनं निहतं श्रुत्वा ताराद्या वालिवल्लभाः ॥

अंगदादिसुताः सर्वे विलापं चक्रिरे तदा ॥ २१ ॥

भाषा—बालीके मरणको देखके गुरुके वियोगकी चिंतारूप तारा तिसको आदि लेके और जो बालीकी बी हैं सो सब तथा गुरुके वियोगको शांत करनेका उपायरूप जो अंगद है तिसको आदि लेके सब बालीके पुत्र विलाप करते भये ॥ २१ ॥

शरणं कस्य यास्यामः कोऽस्मान्संगृह्य पालयेत् ॥

एतादृशं विलापं च चक्रसर्वे विमोहिताः ॥ २२ ॥

भाषा—अंगदने विचार किया कि जो गुरुका वियोगरूप बाली जीतारहा

तब तो उस वालीकी शांति करनेका उपाय जो मैं हूँ सो मेरेको सब जीव आदर देते थे, कि इसको आदर करेंगे तो यह गुरुके वियोगरूप वालीको शांति करनेका उपाय है, और अब वाली मरगया, हम किसकी शरणकूँ जावें कौन हमारा पालन करेगा, ऐसा विलाप करते भये ॥ २२ ॥

**निन्दि॒ राघवं तारा पतिप्रेमपरायणा ॥**

**वियोगादर्शनं जातं तदेव निन्दनं मुने ॥ २३ ॥**

भाषा—पतिके प्रेममें कुशल जो तारा है सो गुरुके वियोगकूँ नहीं देखती भई सोई रामजीकी निंदा करती भई ॥ २३ ॥

**बोधिता रामचंद्रेण ज्ञानं प्राप्य तदा सती ॥**

**गुरुपदेशस्य पतेस्मुखहर्षं जहर्षं सा ॥ २४ ॥**

भाषा—तब रामजीने ताराकूँ ज्ञान दिया, तारा ज्ञानकूँ पायके गुरुके उपदेशरूप जो सुश्रीव है तिसके सुखके हर्षकूँ पायके बहुत खुशी भई, क्योंकि गुरुके वियोगकी चिंता तो तारा खुद है नित्य विचारती थी कि यह गुरुका वियोग शांत होवे तब जीवोंको सुख होवे, परंतु अज्ञानसे उसी वियोगकी खी भई रही, ज्ञान पायके जान लिया कि मेरा पति गुरुका उपदेशरूप सुश्रीव है ॥ २४ ॥

**परस्परं कृता वार्ता वालिनस्तस्य तैस्तदा ॥**

**पराक्रमस्य नित्यस्य सह रामकपीथरैः ॥ २५ ॥**

भाषा—तब रामजी सहित सब कपि आपसमें वालीके पराक्रमकी वार्ता करते भये, कि देखो भाई वाली कैसा बली था, कि गुरुकी महिमाका वेदशास्त्र पुराण लोक ये सब तारीफ करते हैं तिस गुरुका वियोग जीवोंसे कर देना यह बड़ा वालीका कर्म है ॥ २५ ॥

**सा वालिनो दाहक्रिया कृता तेनांगदेन वै ॥**

**राज्यं ददौ ततस्तूर्णं सुश्रीवाय रघूत्तमः ॥ २६ ॥**

भाषा—ऐसी वार्ता सब करते भये सोई वालीकी दाह आदि क्रिया अंगद करता भया, तब रामजी जलदी किञ्चिकथा पुरीका राज्य सुग्रीवको देते भये ॥ २६ ॥

राज्यासनस्थे सुग्रीवे कपीनां राघवप्रिये ॥

पुर्याः पूर्वस्वभावश्च नष्टोऽभूम्नैव हृश्यते ॥ २७ ॥

भाषा—रामजीका प्यारा सुग्रीव जब वानरोंका राजा भया तब किञ्चिकथा पुरीका स्वभाव जो प्रथम था कि गुरुमें खोटी बुद्धि देखना सो स्वभाव नष्ट होगया, कहीं देखनेमें नहीं आता, किसी स्थानपर गुरुमें किञ्चिकथापुरीकी सुंदर बुद्धि हो गई ॥ २७ ॥

सा राज्यप्राप्तिसुग्रीवे तत्सुखं मदवर्द्धनम् ॥

गुरोर्वियोगमरणं हृष्टा रामोऽतिहर्षितः ॥ २८ ॥

भाषा—सोई सुग्रीवको राज्य प्राप्त भया है तिस राज्यप्राप्तिमें सुख सोई अभिमानकी बृद्धि है, तथा गुरुके वियोगरूप वालीके मरणकूं देखिके रामजी भी खुशी होते भये ॥ २८ ॥

विज्ञापनं च गुरवे चोपदेशाय वालिजम् ॥

दातुं जीवान् यौवराज्यं चक्रे रामोऽत्यनुग्रहः ॥ २९ ॥

भाषा—बडे दयालु रामजी अंगदको युवराज करते भये, कि जब कोई जीव गुरुसे उपदेश लेनेको जावे तब अंगद गुरुदेवसे अर्ज करे, कि महाराज ! आपसे उपदेश लेनेकूं जीव आया, ऐसा कर्म सोई युवराज है सो युवराज-पदवी अंगदको रामजी देते भये ॥ २९ ॥

स एव वासो रामस्य प्रवर्षणगिरावभूत् ॥

आत्मज्ञानं स्वपितरन्निर्मोहं भरतन्तथा ॥ ३० ॥

भाषा—ऐसा अंगदको युवराजपद देना सोई रामजीका प्रवर्षण पर्वतपर टिकना भया है, तथा रामजीने अपने पिता जो आत्मज्ञान तथा निर्मोहरूप भरतको ॥ ३० ॥

शक्तिपुत्रं वशिष्ठं च जानकीविरहन्तथा ॥  
एतेषां चिंतनस्पर्शनमः प्रीत्यासिहेतवे ॥ ३१ ॥

भाषा—शक्तिके पुत्र जो वशिष्ठ तिनको, जानकीके विरहका चिंतवन जैसा पिताका चिंतवन तथा भरतका मिलाप, वशिष्ठको नमस्कार जानकीकी प्रीति इन सब कर्मोंमें प्रीति होनेको ॥ ३१ ॥

विचारा वार्षिका मासास्तत्सुखाश्च मनोहराः ॥  
संगतिम्प्राप्य दुष्टानां जानकी किं करिष्यति ॥ ३२ ॥

भाषा—विचार करना सोई चार मास वर्षा क्रतुके है उसी चार कर्मोंमें सुख सोई वर्षा क्रतुकी शोभा है रामजी ऐसे चार मास वर्षोंमें विचार करते भये कि दुष्ट जीवोंकी संगत पायके जानकी क्या करेगी ॥ ३२ ॥

भविष्यति स्वधर्माद्वा विच्युता साच्युताऽपि वा ॥  
ईद्विग्विलापो रामेण कृतः संगतिकारणात् ॥ ३३ ॥

भाषा—जानकीका धर्म ईश्वरकी भक्ति उस भक्तिरूप धर्मको छोड देवेगी कि नहीं छोड़ेगी ऐसा विलाप संगतिके कारणसे रामजी करते भये ॥ ३३ ॥

चतुर्णा च चतुर्णा च किंचिन्मासा गताः स्मृताः ॥  
चत्वारो विगतान्मासान्नायान्तं कपिसत्तमम् ॥  
द्वाष्टा रामो द्रुतं प्रेमणा प्रेषयामास लक्ष्मणम् ॥ ३४ ॥

भाषा—पहिले वर्णन भये जो चार महीने सो बीति गये कारण धीरज धर्मके रामजी पिताका वशिष्ठका भरतका जानकीका चिंतवन मिलाप नमस्कार प्रीति इन सबके विचारका थोरा कर्म करते भये सोई चार मासका बीतना भया है परंतु सुशील रामजीके पास नहीं आया तब प्रेम करके लक्ष्मणको जोजते भये ॥ ३४ ॥

इनि श्रीवेदान्तरामायणे पं० शिवसहायबुधविरचिते किञ्चिकधाकांडे  
मोक्षारत्यः चतुर्थः सोपानः ॥ ४ ॥

## वरतन्तुस्वाच ।

प्रेषणम्प्रेमरूपञ्च गमनं तद्विर्द्धनम् ॥

क्षुत्तृषा सुखदुःखो च हानिलाभौ प्रियाप्रिये ॥ १ ॥

भाषा—वरतन्तुमुनि बोले । रामजीका प्रेम सुश्रीवके ऊपर बहुत है उसी प्रेमरूप सुश्रीवके पास लक्ष्मणका भेजना भया है प्रेमकी वृद्धि सोई लक्ष्मणका सुश्रीवके पास जाना भया है। क्षुधा, तृषा, सुख, दुःख, हानि, लाभ, प्रिय, अप्रिय ॥ १ ॥

जीवनम्मरणं निद्रा यशोऽपयश एव च ॥

इत्याद्यश्च ये भावा संख्या येषां न विद्यते ॥ २ ॥

भाषा—जीवन, मरण, निद्रा, यश, अपयश इन आदि जो और सब जीवोंके कर्म हैं जिनकी गिनती नहीं है ॥ २ ॥

सर्वेषामंडजातानां नराणां च विशेषतः ॥

एते सर्वे गुरोर्दद्यर्या मन्तव्याश्च विशेषतः ॥ ३ ॥

भाषा—सब जीवोंके ये कर्म हैं परंतु नरस्वरूप जीवोंके तो बहुत हैं ये सब कर्म गुरुमें देखना तथा मानना कि जैसा सब है तैसाही गुरुभी है ॥ ३ ॥

त एव कपयः प्रोक्तास्तै रुद्धो लक्ष्मणस्तथा ॥

गुरौ ये दुष्टभावाश्च तैर्फङ्क्षैरपि सर्वशः ॥ ४ ॥

भाषा—सोई सब कर्म वानर हैं रामकी संगति जिनको भई थी वे तो स्वभा-वको छोड़ि देते भये और जिनको रामकी संगति नहीं भई सो दुष्ट रहे ऐसे दुष्ट कर्मरूप जो बंदर सो लक्ष्मणको रोकने लगे किञ्चिंधाके भीतर नहीं जाने दिया प्रथम कहे तृषा आदि आठ अवगुण गुरुमें देखना सोई कक्ष हैं वे भी लक्ष्मणको रोक लिये हैं ॥ ४ ॥

तेषां दुर्बुद्धिहरणं क्रोधं चक्रे रघूत्तमः ॥

ताराङ्गदाभ्यामानीतो मारुतेन विशेषतः ॥ ५ ॥

**भाषा-**तिन सब दुष्ट कर्मोंकी दुष्ट्बुद्धिको हरणरूप क्रोध लक्षण करते भये तब कपि लक्षणका क्रोधरूप उपदेश पायके बुद्धिको सुंदर धर्ममें लगाते भये खोटा कर्म छोड़ देते भये गुरुको ईश्वर मानने लगे, तब तारा अंगदहनुमान् ये तीनों लक्षणको आदर करके सुर्यीवके पास लेगये ॥ ५ ॥

**क्रोधशार्निं कपीनां वै दृद्धा बुद्धिं सुनिर्मलाम् ॥**

**अहं गुरुपदेशो वै नान्योऽस्ति पृथिवीतले ॥ ६ ॥**

**भाषा-**सुर्यीवने लक्षणको देखिके आदर किया तथा कपियोंके क्रोधकी शांति देखके और बुद्धि सुंदर कर्ममें देखिके सुर्यीवने ऐसा विचार किया कि विवेकरूप रामजी सरीखे मेरे मित्र और गुरुको उपदेशमें बड़े बंदर कर्म करनेवाले मेरे सब कपि ऋक्ष अब मेरे सरीखा पृथ्वीपर कोई दूसरा नहीं है ऐसा सुर्यीवको अभिमान भया ॥ ६ ॥

**तन्माननाशनं त्रास कृत्वा रामानुजः कपिम् ॥**

**सर्वैः कपिवरैस्सार्द्धं युवराजादिमारूतैः ॥ ७ ॥**

**भाषा-**तब लक्षणके सामने सुर्यीवका अभिमान नाश होता भया सोई सुर्यीवका त्रास करके सब वानर तथा सुर्यीव अंगदहनुमानसहित ॥ ७ ॥

**जांबवान्नलनीलाद्यैरानयित्वा त्वरान्वितः ॥**

**प्रवर्षणे निपेतुस्ते रामस्याये च वानराः ॥ ८ ॥**

**भाषा-**जांबवंत नल नील आदि वानर बहुत देशदेशके गुरुमें दुष्टकर्म देखनेवाले जो कर्म सोई वानर हैं तिनको संग लेके प्रवर्षण पर्वतपर रामजीके सामने सब पड़ते भये ॥ ८ ॥

**विवेकदर्शनं विप्र तेषां तत्पतनं स्मृतम् ॥**

**पृष्ठा रामेण ते सर्वे स्वकर्मकरणं सदा ॥ ९ ॥**

**भाषा-**सब गुरुमें दुष्ट्बुद्धि करनेवाले कर्म देशदेशसे आयके विवेकरूप रामजीके दर्शन करते भये सोई सबका पृथ्वीमें पड़ना है तब रामजी सबके कर्मकी कुशल पूछते भये ॥ ९ ॥

चतुर्दिशस्समायाताः कपीनां यूथपास्तदा ॥

असंख्या गणितुं शक्ता न शेषेणापि कर्हिचित् ॥ १० ॥

भाषा—तब चारों दिशासे और बहुत गुरुमें दुष्ट कर्म देखनेवाले जो दुष्ट कर्मरूप वानर सोभी आते भये जिन्होंकी गिनती करनेकी शेषजीको भी सामर्थ्य नहीं है ॥ १० ॥

पूर्वोक्ताः कपयः सर्वे दृष्ट्वा रामं च तत्यजुः ॥

नमस्कृत्य स्वभावन्ते प्रयाताः सर्वतो दिशम् ॥ ११ ॥

भाषा—सब कपि कक्ष रामजीको देखिके नमस्कार करिके अपना स्वभाव जो गुरुमें दुष्टकर्म देखना सो छोड़ देते भये, गुरुको ईश्वर मानते भये ॥ ११ ॥

सुश्रीवप्रेषिताः सर्वे जानकीशोधकारणे ॥

निर्वचनस्वभावश्च वृत्तिर्मासावधिः कृता ॥ १२ ॥

भाषा—सुश्रीव करिके भेजे जो सब वानर कक्ष जानकीको शोधने वास्ते चारों दिशाको जाते भये कपियोंका अपने स्वामीसे कपट नहीं करना ऐसे स्वभावकी वृत्ति सोई सुश्रीव एक मासका प्रमाण करते भये । श्लोक ग्यारह तथा वारहका अर्थ मिलाहे इसको कुलक कहते हैं ॥ १२ ॥

जांबवन्तं हनुमंतमंगदादीनेकशः ॥

दक्षिणं प्रेषयामास सुश्रीवो जानकीकृते ॥ १३ ॥

भाषा—जानकीको शोधने वास्ते सुश्रीव जांबवान्, हनुमान्, अगद आदि बहुत वानरोंको दक्षिणदिशाको भेजते भये ॥ १३ ॥

धर्मादीनां शुभा चिन्ताश्चतस्रश्च दिशः स्मृताः ॥

तत्प्राप्तिप्रेषणम्प्रोक्तं गच्छन्तं मारुतिम्प्रभुः ॥ १४ ॥

भाषा—धर्मकी चिंता सो पूर्वदिशा है, अर्थकी चिंता सो दक्षिणदिशा है, कामकी चिंता सो पश्चिम दिशा है, मोक्षकी चिंता सो उत्तरदिशा है, इन चारों अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्राप्ति होना सो कपियोंका भेजना भया है, हनुमान् जाने लगे तब रामजीने ॥ १४ ॥

रामो ददावांगुलेयम्प्रीतिजम्प्रेमनिर्मलम् ॥

हनुमते प्रसन्नश्च प्रोवाच वचनं हरिः ॥ १६ ॥

भाषा—रामजीकी प्रीति जानकीपर बहुत है उसी प्रीति करके उत्तम जो निर्मल प्रेम सोईं सुँदरी है उस सुँदरीको रामजी हनुमानको देते भये, तथा प्रसन्न होके हनुमानसे बोले ॥ १५ ॥

देया जनकजायैषा त्वया तात सुचेतसा ॥

एतां प्राप्य ध्रुवं देवी विश्वासं ते कारिष्यति ॥ १६ ॥

भाषा—हे सुंदरकर्ममें मोहरूप हनुमान् ! यह सुंदरी तुम जानकीको देना, इस सुंदरीको पायके जानकी तुम्हारा विश्वास करेगी, कि यह कोई विवेकरूप रामजीका दास है ॥ १६ ॥

तामादाय ययुः सर्वे नमस्कृत्य रघूतम्भम् ॥

मासे पूर्णे निवृत्तास्तु त्रिदिग्भ्यः कपयः शुभाः ॥ १७ ॥

भाषा—तिस सुंदरीको लेके हनुमान् आदि सब कपि चलते भये एक मास बीत गया उसी दिन तीन दिशासे वानर आयके ॥ १७ ॥

समागत्य समाचरव्युरप्राप्तिं कपिसत्तमाः ॥

जानक्याश्चुत्य तद्रामो लक्ष्मणश्च कपीश्वरः ॥

त्रयस्ते दुःखमापन्नास्त्वस्वकार्यविनाशनम् ॥ १८ ॥

भाषा—सुश्रीवसे कहते भये कि हम सब तो जानकीका अपनी २ दिशामें शोधन किया, परंतु जानकी नहीं मिली, ऐसे कपियोंके वचनकूँ सुनके राम लक्ष्मण सुश्रीव बहुत दुःखी होते भये, रामजीका तो जानकीका वियोगरूप दुःख भया और लक्ष्मणको रामजीका दुःख देखके दुःख भया, तथा सुश्रीवको राम-जीसे करार किया है, कि जानकीका शोधन मैं लगाऊंगा, सो दुःख भया ॥ १८ ॥

सुबोधितौ रामकपीश्वरौ तदा विमूर्छितौ तोषबलेन बन्धुना ॥

दुःखं परित्यज्य सुखेन संयुतौ वभूवतुर्धैर्यबलेन तौ तदा ॥ १९ ॥

भाषा-मूर्छाको प्राप्त भये जो रामजी तथा सुग्रीव इन दोनोंको संतोषरूप लक्षण रामजीके भाई उन्होंको ज्ञान देते भये. तब ज्ञान पायके रामजी तथा सुग्रीव दुःखको त्यागिके धीरज धरके सुखको प्राप्त होते भये ॥ १९ ॥

इति श्रीवेदान्तरामायणे किञ्चिकधाकांडे शिवसहायबुधविरचिते संवर्तवरतन्तुसं-  
वादे जानकीशोधने पञ्चमो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ ५ ॥

समाप्तश्चायं किञ्चिकधाकांडः ।

## अथ सुंदरकांडप्रारंभः ।

### वरतन्तुरुवाच ।

युवराजादयस्सर्वे कपयो दक्षिणान्दिशाम् ॥  
चकुर्विशोधनं तस्या गिरिदुर्गेष्वनेकशः ॥ १ ॥

भाषा—वरतंतु सुनि बोलते भये अंगद आदि सब वानर दक्षिण दिशामें पर्वतोंकी बड़ी बड़ी कठिन गुहा तिनमें शोधते भये ॥ १ ॥

न केषामपि सूक्तं च गृह्णते येन कारणात् ॥  
स गिरिः क्ररताकर्मदुर्गमित्यभिधीयते ॥ २ ॥

भाषा—जिस मुर्खपनसे जीवमात्रकी सुंदर वाक्य न सुने तथा बुरी वाक्य मुने ऐसे स्वभावकी पर्वत संज्ञा है उसी स्वभावरूप पर्वतमें बहुत बुरा कर्म करै परो पर्वतोंकी कठिन गुहा है ॥ २ ॥

ब्रह्मतां कपिवीराणां शोधार्थं जानकीकृते ॥  
निर्वचनास्वभावस्य गतो मासावधिस्तदा ॥ ३ ॥

भाषा—प्रथम वर्णन भये जो कपि तिन्होंमें वीर जो अंगद आदि तिनका जानकीके वास्ते शोधन करते २ निष्कपटका स्वभावरूप जो मास एकका रमाण सो बीत गया ॥ ३ ॥

तां व्यतीतां समालक्ष्य बभूवुर्दुःखसंयुताः ॥  
अंगदस्तु विशेषेण रुरोद पितृवर्जितः ॥ ४ ॥

भाषा—जो प्रमाण सुश्रीवने करदिया था मास १ जानकीका शोधन करके आना ऐसे प्रमाणको बीतगया देख सब हनुमान् आदि कपि दुःखी होते भये तथा अंगद तो गुरुवियोगरूप पितासे हीन हैं इसवास्ते रुदन करता भया ॥ ४ ॥

जांबवान्दुःखितान् दृष्ट्वा समस्तान्कपिसत्तमान् ॥  
उवाच वचनं वीरो मायाचेष्टोऽतिदुःसह ॥ ५ ॥

भाषा—बड़ा कठिन मायाका विचाररूप जांबवान् सो सब वानरोंको दुःखी देखके सब कपियोंसे बोलता भया ॥ ५ ॥

स्वभाववचनां त्यक्त्वा सर्वे जन्मावधिन्दृढम् ॥  
कुर्वन्तां जानकीप्राप्तिर्धुवनश्च भविष्यति ॥ ६ ॥

भाषा—अरे हे वानरो ! सुश्रीवने तौ निष्कपटस्वभावरूप एक मासका प्रमाण दिया सो तो बीत गया अब जबतक सब जीवे तबतककी प्रतिज्ञा करो विना जानकीकी शुद्धि लिये सुश्रीवके पास नहीं जावेंगे ऐसी दृष्टा करोगे तब निश्चय जानकी प्राप्त होवेगी ॥ ६ ॥

ऋक्षेशवचनं श्रुत्वा तथोक्तं कृत्यसादुरम् ॥  
जानकीशोधने यत्ताः पुनर्वीरा ययुस्तदा ॥ ७ ॥

भाषा—जांबवान् के वाक्य सुनके कपि फिर जानकीको शोधनेके वास्ते जाते भये ॥ ७ ॥

मार्गे प्राप्ता तदा तेषां योगिनी योगतत्परा ॥  
निर्वचनायास्तनुजाबिलं कपटभेदनम् ॥ ८ ॥

भाषा—तब रस्तेमें एक योगिनी मिली कैसी योगिनी है निष्कपटकी लड़की कपटको काटनारूप योगिनीका बिल है ॥ ८ ॥

निवृत्तसिद्धिस्सार्व्याता पातालं तत्सुखं मुने ॥  
तया विश्वासमार्गेण सर्वे निष्कासिता बिलात् ॥  
अपकहृदयाः पूर्वे ज्ञानपक्षास्तया कृताः ॥ ९ ॥

भाषा—मोक्षकी सिद्धिरूप सो योगिनी है उसी मोक्षकी सिद्धिमें जो सुख सो पाताल है कपटका नाश करनेवाला जो बिल सो पातालमें मिला है ऐसी निष्कपटकी लड़की योगिनी मोक्षकी सिद्धिरूप सो विश्वासरूप रस्ता करके वानरोंको उस बिलसे निकारके बाहर करदेती भई बाहर करना यह है कि प्रथम कपि कुछ ज्ञान नहीं जानते रहे सो योगिनीने कपियोंको ज्ञानमें पक्का करदिया ॥ ९ ॥

कपटोन्मूलनं तेषां तत्रिःकाशन्निगद्यते ॥

लंकाकनकहर्षाब्धितटे तस्थुश्च वानराः ॥ १० ॥

भाषा—मोक्षकी सिद्धि रूप योगिनीने पूर्वोक्त जो वानर हैं तिन्होंके कपटका मूलसहित नाश किया सोही बिलसे कपियोंका निकसना हुआ, बिलसे निकसिके लंका सुखका हर्ष सो समुद्र है तिसके तटपर वानर टिकते भये ॥ १० ॥

रामाणुलेयविश्वासदर्म विस्तीर्यते तदा ॥

पृथिव्यां त उपाविश्य प्राणान्त्यकुं समुद्यताः ॥ ११ ॥

भाषा—रामजीकी सुंदरी पास है इससे सब वानरोंको विश्वास है कि हम लोगोंको रामजी अपना कार्य सिद्ध विचारके तौ हमारे दलमें सुंदरी दिये हैं ऐसा विश्वास सोई कुश भया तिस कुशको जर्मीनमें बिछायके उसी कुश आसनपर बैठके सब वानर प्राण त्यागनेकी तयारी करते भये ॥ ११ ॥

स्वभावत्रूताप्राणं त्यजतां वनचारणाम् ॥

दैवयोगातदा प्राप्तसंपातिर्गृद्धसत्तमः ॥ १२ ॥

भाषा—वानरोंका स्वभाव बड़ा क्रूर है तिसको त्यागते जो वानर उसी समयमें दैवयोगसे संपाति नाम गीध आता भया ॥ १२ ॥

दुर्लक्षणजटायोश्च ब्राता दुर्गतिवर्द्धनः ॥

तं दृष्ट्वा कपयः सर्वे स्वात्मानं तेन भक्षितम् ॥ १३ ॥

भाषा—खोटा लक्षण जो जटायु तिसका यह भाई खोटी गतिको बढ़ावाला बड़ा लोभरूप संपाति गीध है तिस बड़े लोभरूप संपातिको वानर देखके अपनी २ देहका भक्षण ॥ १३ ॥

अमन्यन्त तदोक्तश्च युवराजेन गृद्धराद् ॥  
संपातिश्चरितं ब्रातुः श्रुत्वा विद्वल्मानसः ॥ १४ ॥

भाषा—मानते भये कि यह दुष्ट हम सब लोगोंको खावेगा तब अंगद संपातिसे पहिलेकी सब बात कहते भये संपाति जटायुका मरण सुनके विद्वल होगया विचार किया कि जीवोंको छोटा लक्षण जटायु बड़ा लोभ जो मैं हूँ तिस मेरा आदर करता था अब वह मरगया जीवमात्र सब मुलक्षण होगये मेरेको आदर कौन देवेगा इसवास्ते संपाति दुःखी भया ॥ १४ ॥

कथित्वा सस्स्ववृत्तांतं जानक्याश्च कपीन्यति ॥  
प्राप्तपक्षो ययौ पक्षी स्वगतिन्त्वरितं खगः ॥  
स्वस्थावासाज्वौ प्रोक्तौ गृद्धपक्षौ शुभाशुभौ ॥ १५ ॥

भाषा—अतिलोभरूप संपाति अपना हाल तथा जानकीका प्राप्त होनेका हाल कहके सुंदर अवस्थामें वास तथा बड़े लोभकां दुष्टस्वभाव छोड़के कोमलस्वभाव ये दो पक्ष प्राप्त होके चला गया ॥ १५ ॥

कपीनां दर्शनफलादतिलोभं वित्यज्य सः ॥  
गते गृद्धे निरीक्ष्याथ कपयस्सागरं तदा ॥ १६ ॥

भाषा—कपियोंके दर्शनके फलसे अति लोभको त्यागके संपाति महात्मा होगया तब गीधके गये पीछे वानर समुद्रको देखके सब ॥ १६ ॥

एनमुल्लंघ्य को वीरो लंकां गत्वा च जानकीम् ॥  
द्वङ्गा ख्यास्यति रामाय जानकीकुशलं सुधीः ॥ १७ ॥

भाषा—आपसमें विचारने लगे कि ऐसा वीर कौन है जो वीर इस समुद्रको कूदिके लंकाको जायके जानकीको देखके जानकीकी कुशल रामचंद्रसे कहे ॥ १७ ॥

स्वस्वर्वीर्यं वदन्ति स्म सर्वे कपिवरास्तदा ॥  
गुरुमानवभावं वै कार्य्यं कर्तुन्त ते क्षमाः ॥ १८ ॥

भाषा—युरुको मनुष्यसरीखे देखतेथे वानर लोग सो वानरका पराक्रम है उसी अपने २ वर्यिको समुद्रके लांधन वास्ते आपसमें सब वानर कहते भये परंतु समुद्रको कूदिके लंकाको जाकर जानकीका हाल रामजीसे कहनेको किसीकी सामर्थ्य नहीं होती भई ॥ १८ ॥

**दुःखितान्वानरान्वीक्ष्य प्रेरयामास मासतिम् ॥**

**ऋक्षेशो रामचंद्रस्य प्रीतिरुष्णासमुद्भवम् ॥ १९ ॥**

भाषा—वानरोंको दुःखित देखिकै रामजीमें जो प्रीति तिसकी जो तुष्णा तिस तुष्णाके पुत्र जो हनुमान् तिसको जांबवंत आज्ञा देतेभये ॥ १९ ॥

**रामपादरतेमौहं हनुमन्तं महाकापिम् ॥**

**आरुरोह गिरि वरि रामनिन्दनस्तपिणम् ॥ २० ॥**

भाषा—कैसे हनुमान् हैं रामजीके चरणोंकी जो रति तिस रतिमें मोहरूप है ऐसा जो हनुमान् है सो दुष्ट जन रामजीकी निंदा करते हैं सोई निंदारूप पर्वतपर चढिगये ॥ २० ॥

**दासाभिमानपादेन तमापीच्य महागिरिम् ॥**

**सिन्धूलंघनकार्यार्थमारुरोह नभः कपिः ॥ २१ ॥**

भाषा—हनुमानने विचारा कि मैं रामजीका दास हूं ऐसा दासको अभिमान सोई हनुमानका पग है तिस पग करिके रामजीके निंदनरूप पर्वतको दाबिके समुद्रको कूदने वास्ते हनुमान् आकाशको चढिगये ॥ २१ ॥ ।

**कार्यसिद्धं स्वतो ज्ञात्वा चिंताशून्यं नभः स्मृतम् ॥**

**पूर्वोक्तसागरे हर्षतोयवृद्धिप्रपूरिते ॥**

**तिष्ठंती वनिता कान्चित्कुर्मरीतिरुद्धुता ॥ २२ ॥**

भाषा—रामजीके कार्यकी सिद्धि हनुमानने आपमें जानिके चिंताको त्याग दिया सो चिंताहीन हनुमानका चिन्त सोई आकाश भया है प्रथम कर्णेन भया हर्ष सोई जल है तिस जलकी वृद्धि करिके पूर्ण जो समुद्र तिसमें कुर्कर्मकी रीति रूप कोई स्त्री बड़ी अद्भुत ॥ २२ ॥

सिंहिका सा समाख्याता तया ग्रस्तस्तदा कपिः ॥

छायामार्गेण सा वीरञ्चकर्प स्वान्तिकं हि सा ॥ २३ ॥

भाषा—सिंहिका उसका नाम सो द्वी हनुमानकी छाया पकरिके अपने सा-  
मने हनुमानको खाँचि लेती भई ॥ २३ ॥

स्वछायां हनुमान्वीक्ष्य कार्यबुद्धि दृढां कपिः ॥

शीत्रं गमनकोधेन कार्यविघ्नेन मुष्टिना ॥ २४ ॥

भाषा—रामजीके काजमें हनुमानकी बुद्धि बहुत इद है सोई हनुमानकी छाया  
है तिस छायाको ग्रसित देखिकै तब रामजीके काज वास्ते जल्दी जाना तिसमें  
विद्व होना सो हनुमानके हाथकी मुष्टि है तिस मुष्टि करिके ॥ २४ ॥

तां हत्वा च पुनर्गतुमरेभे सुरसा कपिः ॥

सुरैर्जयाह् तं वीरम्प्रेषिता मुरसा सती ॥ २५ ॥

भाषा—सिंहिकाको मारिके जल्दी चलते भये तब देवताओं करिके भेजी  
जो मुरसा उसने हनुमानको पकड़लिया ॥ २५ ॥

सुकार्येत्रान्तिस्ता ज्ञेया मार्गन्देहीति तां कपिः ॥

प्रोवाच न ददो मार्गं सुमनस्तञ्च सा यदा ॥ २६ ॥

भाषा—सुंदर काजमें जो भ्रांति होती है सोई मुरसा है तब मुरसासे हनुमान  
बोले हे मुरसे ! त सुंदर काजकी भ्रांति है सो मेरे सुंदरमनरूप रस्ता दे रामजीके  
काज करनेमें मेरे मनमें भ्रांति रूप तू मति टिक ऐसा हनुमानने कहा तब मुरसा-  
ने रस्ता नहीं दिया ॥ २६ ॥

तदा कपिस्तान्निर्भर्त्स्यं गंतुकामः प्रचकमे ॥

गच्छतं सा कपिन्दृष्ट्वा भक्षितुं समनुद्यता ॥ २७ ॥

भाषा—तब हनुमान उसको त्रास करिके जबरदस्तीसे चलते भये तब  
चले जाते हुए जो हनुमान तिनको खानेवास्ते उपाय करती भई ॥ २७ ॥

रामकार्येषु विद्वेषन्ततस्या मुखवर्द्धनम् ॥

अहं द्रक्ष्यामि वैदेहीमिति हर्षरवन्तनुः ॥ २८ ॥

भाषा-रामजीके काजमें वैर सोई सुरसाका मुखका बढाना भया तथा  
हनुमानजीने विचारा कि मैं जानकीको देखूँगा ऐसे हर्षकी वृद्धि सोई जलदी हनु-  
मानकाजी देहका बढाना हुआ ॥ २८ ॥

कपिना वर्द्धितस्तूर्णं ज्ञात्वा तस्य पराक्रमम् ॥  
तदास्यमदनाशश्च तम्प्रविश्य तनुं कपिः ॥ २९ ॥

भाषा-सुरसा हनुमानके पराक्रमको देखिके तब सुरसाके मुख बढानेका  
अभिमान नष्ट होगया तब हनुमान सुरसाके तनुरूप मुखमें प्रवेश करिके ॥ २९ ॥

गन्तुकामन्निरीक्ष्यै ददावाशिपमुत्तमाम् ॥  
निर्मोहताशिपन्दत्त्वा गताकाशं च सा पुनः ॥ ३० ॥

भाषा-यह श्लोक युग्म है हनुमानको जाता देखिके निर्मोहरूप आशीर्वाद  
हनुमानको देती भई कि हे हनुमान ! रामजीकी चरणके प्रीतिमें तुम्हारा मोह  
सदा बना रहेगा ऐसा कहिके आकशको जाती भई ॥ ३० ॥

चिंतापानीयतद्वीर्यं सुरकार्यविवर्जनम् ॥  
दुष्टकर्माण्यनेकानि तेपाम्मध्ये शातैस्तदा ॥ ३१ ॥

भाषा-तब हनुमान समुद्रके पार जाने भये कैसा समुद्र है हनुमानकी  
चिंतारूप जल सोई समुद्रका पराक्रम है दुष्टोंके कार्यको करने नहीं देना सोई  
अनेक दुष्टकर्म हैं तिन दुष्टोंके मध्यमें सैकड़ों १०० दुष्ट करिके ॥ ३१ ॥

महाबलैर्वस्तृतं च दुरीहजन्तुसंकुलम् ॥  
ईदृशं सागरन्तीर्त्वा गतः पारं च दक्षिणम् ॥ ३२ ॥

भाषा-बडे बली करिके विस्तार होरहा है तथा दुष्टोंका रातिदिन खोटे  
कर्ममें भाव सोई जलके जीव हैं तिन जीवों करिके व्याप होरहा है ऐसे समुद्रको  
पार जायकै समुद्रके दक्षिण तटको हनुमान प्राप्त भये तीन श्लोक ३० तथा ३१,  
तथा ३२ का अर्थ मिला है सो कुलक है ॥ ३२ ॥

मंस्यन्ति मातरं मेऽद्य धन्यामेतच्चराचरम् ॥  
इति हर्षे कपिमेने तदक्षिणतटं मुने ॥ ३३ ॥

**भाषा—**हनुमान् ने विचार किया कि अभी यह संसार चराचर जीव मेरी 'माताको धन्य मानैगे ऐसा हर्ष हनुमान अपने हृदयमें मानते भये सोई समुद्रका दक्षिण तट है ॥ ३३ ॥

**संस्मृत्य रामस्य स्वरूपमद्गुत कपोथरः सिंधुतटस्थितो बभौ ॥**

**अहं भविष्यामि द्वयोस्मुवीरयोस्मुकंठसन्तोषनुदोस्सदा प्रियः ॥ ३४ ॥**

**भाषा—**हनुमान् रामचंद्रके अद्गुत स्वरूपको स्मरण करिके खुशी भये सोई समुद्रके तटपर टिके जो हनुमान तिनकी शोभा है. जानकीकूं देखिके रामजीके पास जाऊंगा. तब रामजीको तथा सुर्यीवको बड़ा प्यारा होऊंगा ऐसा आनंद मानते भये ॥ ३४ ॥

इति श्रीवेदान्तरामायणे शिवसहायबुधविरचिते सुंदरकांड  
प्रथमो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ १ ॥

### वरतन्त्रुरुवाच ।

**सिंधोस्तटे समासीनो विचारं कृतवान्कापिः ॥**

**रामचन्द्रपदध्यानन्तदिच्चारं हनूमतः ॥ १ ॥**

**भाषा—**वरतंतु मुनि बोले हर्षरूप समुद्रके तटपर हनुमान् टिकिके राम-जीके चरणका ध्यान करते भये, सोई ध्यान लंकामें प्रवेश करने वास्ते हनु-मानका विचार करना भया ॥ १ ॥

**रामचन्द्रपदद्वंद्वप्रीतितृष्णा सुतस्य वै ॥**

**जगतो लघुज्ञानत्वं लघुरूपं च तद्वृतम् ॥ २ ॥**

**भाषा—**रामजीके चरणमें जो प्रीति उसी प्रीतिकी तृष्णा तिसके पुत्र हनुमान सो अपनी हृदयमें ऐसा विचार करते हैं कि तीन लोक चौदा भुवन विवेक-रूप रामसे थोरा है ये रामजी सबसे बडे हैं ऐसा विचार सोई छोटा रूप भया है ऐसे रूपको हनुमान धरिके लंकामें प्रवेश करते भये ॥ २ ॥

**दुष्टकर्मस्थितिः प्रीत्या हठात्सा रावणाल्या ॥**

**प्रविशन्तं कपिन्दृष्टा तर्ज्यामास सा निजैः ॥**

**चिरसंस्थैश्चित्रैश्च दुष्टराक्षससंस्थितैः ॥ ३ ॥**

भाषा—तब हठसे खोटे कर्ममें प्रीतिसे टिकना ऐसी जो लंकारूप राक्षसी सो लंकामें प्रवेश करते जो हनुमान तिनको अपने चरित्र करके डराती भई, कैसा चरित्र है बहुत दिनोंसे दुष्ट राक्षसोंके संग वासरूप चरित्र ॥ ३ ॥

लंकाप्रवेशर्हर्षस्य या तृष्णाभूत्कपेस्तदा ॥

तया मुष्टया महावीरो हत्वा ताम्प्राविशत्पुरीम् ॥ ४ ॥

भाषा—हनुमानने लंकामें प्रवेश किया तब बड़ा हर्ष भया, उस हर्षमें जो तृष्णा सो हनुमानके हाथकी मृठी भई उसी मृठी करके लंका राक्षसीको मारिके लंकामें प्रवेश करते भये ॥ ४ ॥

जानकीशोकसविता जगामास्तन्तदा कपिः ॥

कपर्दीर्यमभूत्सायम्प्रवेशं हर्षवर्द्धनम् ॥ ५ ॥

भाषा—तब जानकीके शोकरूप सूर्यका अस्त होगया तथा हनुमानकी धीरता सोई सायंकाल होगया, हनुमान अन्यंत खुशी भये सो खुशी होना लंकामें हनुमानका प्रवेश भया है ॥ ५ ॥

मदांघबुद्धिदैत्यानां रावणादिप्रतापिनाम् ॥

सा निशा जानकीं द्रष्टुं तस्याम्ब्राम वानरः ॥ ६ ॥

भाषा—रावण आदि लेके बडे बडे राक्षसोंकी बुद्धि अजिमान करके अन्धी होरही है सोई रात्रि भई तिस रात्रिमें जानकीके देखने वास्ते प्रेमरूप भ्रमण हनुमान करते भये ॥ ६ ॥

नापद्यज्ञानकीं तत्र ब्रह्मभक्तिं कपीश्वरः ॥

राक्षसानां दुरावृत्तिस्सा चिन्ताप्यभवत्कपेः ॥ ७ ॥

भाषा—ब्रह्मकी भक्तिरूप जानकीको नहीं देखे हनुमान तब राक्षसोंकी खोटी वृत्तिरूप चिन्ताको हनुमान प्राप्त भये ॥ ७ ॥

चिन्ताप्रस्तः कपीशश्च जगामाशोकवाटिकाम् ॥

कदापि दैवात्सत्संगो रावणस्यापि संभवेत् ॥ ८ ॥

भाषा—उसी चिन्ता करके ग्रसित जो हनुमान सो अशोकबगीचामें गये, कभी दैवयोगसे रावणको भी सत्संग हो जावेगा ॥ ८ ॥

यत्रकुञ्चापि तद्वर्षस्साऽशोकतरुरुच्यते ॥

तत्प्रीतिर्वाटिका प्रोक्ता चान्ये वृक्षास्त्वनेकशः ॥ ९ ॥

**भाषा-**जिसी किसी जगहपर ऐसा विचारमें जो हर्ष सो अशोक नाम वृक्ष है, उसी हर्षरूप अशोकवृक्षमें जो प्रीति सो अशोक बर्गीचा है तथा दूसरे कामके हर्षरूप वृक्ष तौ अनेक हैं ॥ ९ ॥

ते सर्वे शाकवृक्षानां सुखाश्चामितशाखिनः ॥

फलिनस्तस्वच्छान्ये दुःकर्मामोदरूपिणः ॥ १० ॥

**भाषा-**और जो वृक्ष अनेक अनेक प्रकारके हैं सो अशोकवृक्षोंके सुखरूप हैं. और खोटे कार्यमें आनंद माने ऐसा रूप वृक्ष फूलबाले भी हैं क्योंकि बर्गीचामें एकही रकमका वृक्ष नहीं रहता बहुत प्रकारके रहते हैं ॥ १० ॥

पूर्वोक्ता वाटिका मुख्या चेयमाभ्यन्तरस्थिता ॥

राक्षसानां विलासाय चान्यास्तासु च भूरिशः ॥ ११ ॥

**भाषा-**तथा अरण्यकांडमें जानकीके टिकाने समय अशोक वाटिकाका वर्णन भयाहै, असल वह है यह तो बर्गीचाके भीतर भी बर्गीचा रहता है सो यह है, राक्षसोंके आनंद करने वास्ते अशोकबर्गीचामें इससे भी और बहुत बर्गीचा हैं ॥ ११ ॥

समारुद्ध्य कपिर्वीरो द्रष्टिमानं तरुं सुधीः ॥

ददर्श तदृधो वीरो हर्षशोकस्वरूपिणीम् ॥ १२ ॥

**भाषा-**हनुमानके हृदयमें ऐसी दृढ़ता है कि मैं रामजीका कार्य करूँगा, सोई एक वृक्ष है जिसके नीचे जानकी रहती थी, तिसवृक्ष पर हनुमान चढ़िके कभी हर्ष कभी शोक ऐसा हनुमानके हृदयमें होता है. सोई उस वृक्षका नीच-तल भया है. ऐसे वृक्षके नीचे जानकीको हनुमान देखते भये ॥ १२ ॥

जानकीं ब्रह्मणो भर्त्ति जन्ममृत्युविनाशिनीम् ॥

एकवेणीधरान्देवीं रूपचिन्तास्वरूपिणीम् ॥ १३ ॥

**भाषा-**कैसी जानकी है ब्रह्मकी भाकि है. जन्म तथा मरणके बाधाकी

नाश करनेवाली है । भगवानके रूपकी चिंता जानकी राति दिन करती है सोई शिरमें एक पाटी बनायकै उसी पाटीको शिरमें धारण किये है ॥ १३ ॥

**कृशितां राक्षसानां वै मुक्तिदानस्य चिंतया ॥**

**बिश्रतीम्मलिनं वस्त्रं रामचन्द्रवियोगजम् ॥**

**दुःखरूपं विलोक्याशु जहर्ष कपिसत्तमः ॥ १४ ॥**

भाषा—इन दुष्ट राक्षसोंका मोक्ष कैसा होवेगा ऐस्थि चिंतारूप सोई जानकी दुर्बल होरही है । रामजीका वियोगरूप मैला वस्त्र जानकीने धारण किया है ऐसा दुःखरूप जानकीका स्वरूप हनुमान जलदी देखिके बहुत खुशी भये कि जानकी दुःखी है परंतु मैंने जानकीका दर्शन पाया । इसवास्ते खुशी भये ॥ १४ ॥

**आजगाम तदा वीरो रावणो राक्षसेश्वरः ॥**

**जानकीं स्वास्त्रिय कर्तुं तन्दृष्टा पिहितः कपिः ॥ १५ ॥**

भाषा—तब उसी समय जानकीको रावण अपनी ही बनाने वास्ते आता भया । तिसको देखिके हनुमान छिपि गये ॥ १५ ॥

**दर्शयित्वा च सामादि रावणो वै पराजितः ॥**

**न स्वीकृतन्तया सर्वा राक्षसीः प्रत्युवाच ह ॥ १६ ॥**

भाषा—रावणने साम दान दंड भेद जानकीको देखायके हारि गया, जानकी रावणके वाक्यको नहीं मानती भई, तब रावण बोला हे देवि ! मैंभी भगवानका अश हूं इति साम । हे देवि ! मैं भी तुम्हारा नाम लेऊंगा इति दान । हे देवि ! मेरी विनती नहीं मानो तो मैं तो भष्ट होगया हूं परंतु तुमको भी भष्ट करिदेऊंगा इति दंड । अपनी प्रकृतिरूप राक्षसियोंको भेजिके जानकीके पास चुगली कराया, मेरी मंडलीमें आ जाओ यह चारं भेद जानकीने नहीं माने तौ राक्षसियोंसे रावण बोला ॥ १६ ॥

**द्विमासाभ्यन्तरे सीता न मद्रशमुपैष्यति ॥**

**तदास्त्याः कर्त्य चांगानि राक्षसेभ्यः प्रदास्यथ ॥**

**पूर्वोक्ता राक्षसाः प्रोक्तास्त्यागन्ततनुकृन्तनम् ॥ १७ ॥**

भाषा—दो महीनेके बीचमें सीता हमारे वशमें नहीं आवेगी तो इस जानकीकी देहको काटिके राक्षसोंको तुम सब मिलके देदेना, जानकीको लंकासे निकालि देना यही देहका काटना है पहिले कहे हुए राक्षसोंको जानकीके रक्षा वास्ते देना सोई देह काटके देना है ॥ १७ ॥

इंद्रियाणां च द्वे चेष्टे कर्मज्ञानेति सर्वदा ॥

इत्युक्त्वा राक्षसीं रक्षो जगाम स्वाल्य शठः ॥ १८ ॥

भाषा—दश इंद्रियोंकी दो चेष्टा हैं पांच ज्ञानेंद्रिय स्वभाव पांच कर्मेंद्रिय स्वभाव यह सदा है सोई दो महीने भये हैं ज्ञानसे तथा कर्मसे समझाओ ऐसा राक्षसियोंसे कहिके रावण जो शठ है सो अपने घरकूँ गया ॥ १८ ॥

गते दशानने सीतार्भिदेष्याद्यास्त्वनेकशः ॥

राक्षस्यस्त्रासयामासुस्त्रासनन्तन्मदक्षयम् ॥ १९ ॥

भाषा—रावणके गये पीछे परनिंदा पराई ईर्ष्या इन्हों आदि लेके गिनती रहित जो राक्षसी हैं सो सब अपना अनेक प्रकारकी मदका क्षयरूप जो त्रास सो जानकीको देनेलगी ॥ १९ ॥

वर्जयित्वा च तास्सर्वास्त्रिजटा वाक्यमन्वीत् ॥

शत्रुत्रयविनाशाय त्रिधा बुद्धिश्च सा स्मृता ॥ २० ॥

भाषा—काम क्रोध लोभका नाश करनेकी बुद्धि जो त्रिजटा है सो राम-जीकी प्यारी है वह सब राक्षसियोंको मना करके बोलती भुई ॥ २० ॥

मा त्रासयथ वैदेहीं रावणस्य कुलक्षयम् ॥

अचिरेणैव मे हष्टो राज्यातिश्च विभीषणे ॥ २१ ॥

भाषा—अरे दुष्टिनी राक्षसियो ! जनकपुत्रीको त्रास मत करो रावणके कुलका नाश थोड़ेही दिनमें मैं देखती हूँ और लंकाका राज्य विभीषणका होवेगा यह भी मैं देखती हूँ ॥ २१ ॥

एवमुक्तास्तया सर्वा बभूवुर्निद्रया युताः ॥

जानक्यै शमनीभुद्धिन्द्रत्वागात्रिजटा गृहम् ॥ २२ ॥

भाषा—त्रिजटा करके इस प्रकार कही जो राक्षसी हैं सो सब निद्रासे व्याकुल होयके सो गई त्रिजटा जानकी प्रति शांतिबुद्धि देके अपने घरकूँ गई राक्षसियोंका बुरा कर्म छूटना सो निद्रा सोना है ॥ २२ ॥

संसारसुखन्यागश्च त्रिजटागेहमुत्तमम् ॥

तदादि सर्वे रामस्य चरितं कपिरभाषत ॥ २३ ॥

भाषा—संसारके सुखका त्याग सोई त्रिजटाका घर है त्रिजटाके गये पछ्ये आदिसे रामजीका सब चरित्र हनुमान् कहते भये ॥ २३ ॥

श्रुत्वापि सर्वे रामस्य चरितं कपिवर्णितम् ॥

स्वपतिप्रीतिसन्त्यागाविश्वासं प्राप जानकी ॥ २४ ॥

भाषा—कपिके मुखसे कहा जो रामजीका चरित्र सो संपूर्ण जानकीने सुना तो भी चित्तमें विचार किया कि मैंने अपने पतिकी प्रीति रक्षा करनेके बास्ते दूसरेका वचन नहीं सुनती हूँ दूसरेका वचन सुननेसे अपने पतिकी प्रीतिका त्याग होता है ऐसा अविश्वास किया विश्वास नहीं मानती हुई ॥ २४ ॥

जानक्या रामचंद्रस्य प्रीतिरत्यंतवल्लभा ॥

तदुत्पन्नं च यत्प्रेम ददौ तद्बनुमान् कपिः ॥ २५ ॥

भाषा—जानकीके ऊपर रामजीकी बड़ी प्यारी प्रीति है तिस प्रीतिसे जो उत्पन्न भया प्रेम सो मुद्रिका है उस मुँदरीको हनुमान् जानकीकूँ देते भये ॥ २५ ॥

रामांगुलीयं संगृह्य सुतं मेने कर्पिं सती ॥

तितिक्षारूपसंवादं चकतुः पुत्रमातरौ ॥ २६ ॥

भाषा—रामजीकी मुँदरी लेके जानकी हनुमान्कूँ अपना पुत्र मानती हुई दुष्टके कर्मको देखके क्रोध नहीं करना ऐसी बात पुत्र जो हनुमान् माता जो जानकी ये दोनों करते भये ॥ २६ ॥

क्षुद्रावणमिलोपेच्छा तयातीं राजकन्यया ॥

अनुज्ञातो बभक्षाशु फलानि निर्भयः कपिः ॥ २७ ॥

भाषा—हनुमान् जीकी रावणसे मुलाकात करनेकी इच्छा सोई भूख है तिस

भूखमें बड़ा दुःखी होके हनुमान् जनककी कन्या जो जानकी तिससे आज्ञा मांगके और भय छोड़के फल खाते भये ॥ २७ ॥

दुष्टकर्मादितरवः फलं तेषां परार्दनम् ॥  
तानुत्पात्य कपिवीरो भक्षित्वा तत्फलानि च ॥ २८ ॥

**भाषा-**जुआ चोरी जहर देना आग लगाना इनको आदि लेके और जो बुरे कर्म हैं सो सब वृक्ष भये हैं तिनको हनुमान् मूलसे तोड़ता हुआ इन वृक्षोंका फल क्या है दूसरेकूँ दुःख देना ऐसे फलोंको भी खाया. त्रेता द्वापरमें ये नष्ट होगये. कलियुगमें पुनि भये ॥ २८ ॥

जगर्ज दुष्टनाशं च राक्षसीभिर्निवेदितः ॥

गर्जन्वीरो मनश्चके रावणं हनुमुद्यतः ॥ २९ ॥

**भाषा-**बुरे कर्मका नाशरूप हनुमान् का गर्जना भया. तथा राक्षसियां रावणसे सब हाल कहती भई गर्जना करते करते हनुमान् जी मनरूप रावणको मारनेका विचार करते भये ॥ २९ ॥

विवेकरूपस्य रघूतमस्य तृष्णासुतः प्रेमरसस्य मोहः ॥

गर्जन्कपीशाधिपतेश्च दूतो वितर्कयामास दशास्यमृत्युम् ॥ ३० ॥

**भाषा-**विवेकरूप रामजीके भजनकी तृष्णाके पुत्र हनुमान् तथा रामजीके प्रेमके मोहरूप सुर्यावके दूत ऐसे हनुमान् रावणका मरण विचारते हुए ॥ ३० ॥

इति श्रीविदान्तरामायणे सुंदरकांडे संवर्तवरतन्तुसंवादे शिवसद्वायबुधविरचिते

अशोकवाटिकानाशे द्वितीयो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ २ ॥

### वरतन्तुरुवाच ।

राक्षसीभिः समाश्रुत्य कपेः कर्म च रावणः ॥

स्वपुत्रमक्षनामानं कालिं याहीत्यनोदयत् ॥ १ ॥

**भाषा-**वरतन्तुमुनि बोलते भये राक्षसियों करके कथित जो हनुमान् का किया कर्म तिसको रावण सुनके अपना पुत्र जो सब जीवोंसे लडाईरूप अक्ष नाम तिसको भेजता हुआ उससे कहा कि त जायके हनुमान् को पृकड़ लावो ॥ १ ॥

पित्राज्ञातो ययौ शीश्रं कलहो रामपादयोः ॥

तृष्णात्मजं च तन्मोहं ददर्श स्वस्थूपिणम् ॥ २ ॥

भाषा—पिताकी आज्ञाको पायके जलदी अक्षकुमार गया, जायके बहुत हुशियार होयके टिके जो हनुमान् तिसको देखा, कैसे हनुमान् हैं रामजीके दोनों चरणोंकी जो तृष्णा तिसका बेटा है, तथा रामजीके पगका जो मोह सोई हनुमान् है ॥ २ ॥

सद्गोहो राक्षसेन्द्रस्य प्रासादो वाटिकास्थितः ॥

तमारूढं कपिन्दृष्ट्वा हन्तुं सोईभिप्रदुद्गुवे ॥ ३ ॥

भाषा—मनरूप रावणने सुंदर कार्यमें द्रोह किया, सोई द्रोहरूप अशोक-बगीचामें हवेली है अक्षकुमार तिस हवेलीपर बैठा जो हनुमान् तिनको मारनेके बास्ते दौड़ता भया ॥ ३ ॥

स हतः कपिवीरेण पपात धरणीतले ॥

विरुद्धबुद्धिसम्भूते दुर्वाक्ये रावणात्मजः ॥ ४ ॥

भाषा—रावणका पुत्र हनुमान् करके मारा थका सो भूमिमें पड़ गया खोटी बुद्धिसे उत्पन्न जो खोटा वचन सो भूमिका तल कहाता है तहाँ पड़के मर गया ॥ ४ ॥

किंचित्कालिं स्वतनयं हतं दृष्ट्वा च रावणः ॥

दुश्चेष्टिं मेघनादं प्रेरयामास सत्वरः ॥ ५ ॥

भाषा—रावण थोडा कलहरूप अपना बेटा अक्ष तिसको मरा देखके जलदी खोटे काजकी प्रति जैसा दूसरेका सुख देखके जलना सोई मेघनाद है तिसको भेजता भया ॥ ५ ॥

स तेन कृतवान्युद्धं स्वस्वकर्मप्रशंसनम् ॥

सत्तिरस्कारपाशेन बबंध त्वरितं कपिम् ॥ ६ ॥

भाषा—मेघनादने अपने कुलकी तारीफ तथा हनुमान् ने रामजीके समाजकी

तारीफ की, ऐसा युद्ध दोनों करते भये तिस पीछे साधुलोगोंका जो अनादर  
सोई पाश भया है तिस पाश करके हनुमानको बांधता भया ॥ ६ ॥

**रामचन्द्रविरुद्धेच्छा सा सभा रावणस्य च ॥**

**कपिर्बद्धो ययौ तां च तेनानीतो दुरात्मना ॥ ७ ॥**

भाषा—रामजीके संग विरुद्ध करनेकी इच्छा सोई रावणकी सभा है सो  
खोटे काजमें प्रेमरूप मेघनाद उसी सभामें बंधे हुए हनुमानकुं लेगया ॥ ७ ॥

**मनसा रावणेनैव पृष्ठः कस्त्वमिहागतः ॥**

**किमर्थं काननन्नाष्टं कृतं ते मे सुतो हतः ॥ ८ ॥**

भाषा—मन रावण हनुमानसे पूँछने लगा तू कौन है यहाँ क्यों आया और  
अशोकवाटिकाका नाश क्यों किया तथा हमारे पुत्रको क्यों मारा ॥ ८ ॥

**इति पृष्ठस्तदोवाच निर्भयो हनुमान्कपिः ॥**

**दूतोऽहं रामचन्द्रस्य निर्मोहो हनुमान्कपिः ॥**

**जानकीदर्शनायात्र प्रातसुश्रीवप्रेरितः ॥ ९ ॥**

भाषा—मैं विवेकरूप रामजीका दूत हूं हनुमान् मेरा नाम है युरुका उप-  
शेषरूप जो सुर्याव उसने जानकीको देखनेके बास्ते मेरेको लंकामें भेजा है ॥ ९ ॥

**इत्युक्तस्ताडयामास रावणो राक्षसैस्तदा ॥**

**कर्पि विषयजैस्सौख्यर्गणनावर्जितैर्मुहुः ॥ १० ॥**

भाषा—हनुमानका वाक्य सुनके गिनतीसे हीन जो विषयका सुख तिस  
करके रावण राक्षसोंसे हनुमानको मराता भया ॥ १० ॥

**रामचन्द्रपदं प्रीतितृष्णापुत्रस्य दाहनम् ॥**

**विचार्य राक्षसाश्वकुस्तत्पुच्छे वस्त्रवेष्टनम् ॥ ११ ॥**

भाषा—रामचन्द्रके चरणकी तृष्णा तिसके पुत्र हनुमान् मोह नाम ऐसे  
हनुमानको भस्म करने वास्ते खोटा कर्मरूप वन सब राक्षस हनुमानकी पुच्छमें  
वस्त्र लपेटते भये ॥ ११ ॥

रामसेवासुखे हर्षं तल्लांगूलं कपेः स्मृतम् ॥

दुष्टकर्मसुखैर्वस्त्रैवैष्टित्वायां समाददुः ॥ १२ ॥

**भाषा—**रामजीकी सेवामें जो सुख तिस सुखका हर्ष सोई हनुमानकी पुच्छ है तिस पुच्छमें खोटे कर्मोंमें जो सुख सोई कपड़ा भया है तिस कपड़ेको हनुमानकी पुच्छसे लपेटके अग्नि लगा देते भये ॥ १२ ॥

स्वशत्त्यभावः कार्येषु स्तोऽग्निरित्येव कीर्त्यते ॥

चिंताप्रजागरं तैलं रज्ज्वक्षशोकमुत्तमम् ॥ १३ ॥

**भाषा—**खोटे काजोंमें राक्षसोंकी शक्ति नष्ट होगई सो अग्नि भई तथा राक्षसोंको चिंता करके नींद नहीं आती सो तेल है अक्षकुमारका शोक सो बढ़ी पुष्ट रस्ती है तिस रस्तीसे पूँछमें वस्त्रको बांधके अग्नि लगा देते भये ॥ १३ ॥

ग्रहणं हठसंवेगो भ्रमणं च दुरासदम् ॥

हसनं राक्षसानां वै रामचन्द्रपराजयः ॥ १४ ॥

**भाषा—**राक्षसीकों हठकी वृद्धि सोई राक्षसों करके हनुमानका पकड़ा भया है राक्षस बड़े दुःखसे जीतने योग्य हैं ऐसा दुष्टोंका बल सोई लंकामें हनुमानका भ्रमण करना भया है रामजीको हम जीति लेवेंगे ऐसा राक्षसोंका विचार सोई हास्य भया है ॥ १४ ॥

राक्षसानां कुकर्मद्यास्ते सर्वे न्यायकौशलाः ॥

त एव ताडना भूरि कपेर्हपविवर्द्धनाः ॥ १५ ॥

**भाषा—**राक्षसोंके खोटे कर्म आदि लेके चतुराई सोई हनुमानका हर्ष बढ़नेवाला ताडना भया है ॥ १५ ॥

एतैश्चान्यैश्च बहुभिश्चरिस्थैश्च राक्षसैः ॥

प्रेरितैर्दशभालेन संमाहस्त्रासितः कपिः ॥ १६ ॥

**भाषा—**इनसे और भी जो शरीरमें बहुतसे राक्षस टिके हैं सो सब मनरावणकी आज्ञा पायके रामजीके प्रेमका मोहरूप जो हनुमान तिसको त्रास देते भये ॥ १६ ॥

आमितो हसितश्वैव ताडितोऽपि प्रकुत्सनैः ॥

संमोहो हनुमानाप शार्न्ति रामप्रकोपतः ॥ १७ ॥

**भाषा—**रामके प्रेममें मोहरूप जो हनुमान् सो दूसरे जीवोंको दुख देनेवाले राक्षसों करके बुमाये गये तथा मारेजाते भये तथा हँसे जाते भये तौमी विवेकरूप रामजीके ऋधसे शांतिको प्राप्त भये विचार किये कि लंकामें जो मैं कुछ ज्यादा उत्पात करूंगा तो रामजी मेरी दुर्गति करेंगे ॥ १७ ॥

न किञ्चिद्राक्षसान्सर्वान्मन्यते कपिसत्तमः ॥

लघुना कृतरूपेण पाशान्त्रिगत्य तत्क्षणे ॥ १८ ॥

**भाषा—**हनुमान् राक्षसोंको कुछभी बलवान् नहीं गिनते थे यह जो राक्षसोंकी लबुता सो हनुमानका लबुरूप भया है ऐसा लबुरूप धरके हनुमान् उसी समय राक्षसोंके पाशसे निकल गये ॥ १८ ॥

दुष्टकार्यस्थितिं प्रीत्या हठजाहनुमान्कपिः ॥

ददाह लंकान्तर्गर्भं राक्षसानां प्रपश्यताम् ॥ १९ ॥

**भाषा—**बुरे काजोंमें हठसे प्रीतिसे टिकना ऐसी लंका है तिस लंकाको राक्षसोंके देखते २ हनुमान् भस्म करदेते भये ॥ १९ ॥

पूर्ववृद्धिपरित्यागस्त्वैव दाहो विकथ्यते ॥

निन्देष्या भूरितृष्णाद्या दुष्टकर्मरतिस्सदा ॥

परवित्तकलत्रादिस्पृहा च सततं हृदि ॥ २० ॥

**भाषा—**हनुमानके त्राससे राक्षसोंकी प्रथमवाली बुद्धिका थोड़ा थोड़ा त्यागना सोई लंकाका जलाना भया है तथा परजीवकी निंदा ईर्ष्या बहुत तृष्णा बुरे काजोंमें प्रीति सदा करना दूसरेका धन स्त्री आदि हरण करनेकी सदा इच्छा करना ॥ २० ॥

एवमाद्यास्त्वसंख्याता राक्षस्यो भुवनत्रये ॥

ग्रन्थवृद्धिभयाच्चैव नोक्तास्त्वर्वा मयाऽधुना ॥ २१ ॥

**भाषा—**इनको आदि लेके गिनती नहीं जो कुकर्ममें प्रीति सो राक्षसी तीन

लोकमें भई हैं सब राक्षसियोंका वर्णन करै तो ग्रंथ बहुत बड़ा होजावेगा इस भयसे मैंने वर्णन नहीं किया ॥ २१ ॥

भयं तासां विलापश्च मदहानिश्च रक्षसाम् ॥  
पुच्छशीतलता सा च लंकादुःखमनेकधा ॥  
रूपभक्तेश्च जानक्याः सैवाश्वासनकं पुनः ॥ २२ ॥

भाषा—लंकाको जरती देखके राक्षसी सब बहुत डर गईं सोईं राक्षसियोंका विलाप हुआ तथा राक्षसोंके मदका नाश भया सोईं हनुमान् पूँछ बुझायके ठंडी करते भये और जो जीव लंकामें बसेथे सबको बहुत दुःख भया सोईं हनुमान् फिर जानकीको विश्वास देते भये ॥ २२ ॥

पुत्रप्रीतिं महावीरे तं मणिं जानकी ददौ ॥  
तं गृहीत्वा नमस्कृत्य तूर्णं चलितुमुद्यतः ॥ २३ ॥

भाषा—जानकी हनुमानमें पुत्रसरीखी प्रीति करती भई सोईं चूडामणि है जानकीने तिस मणिको हनुमान्‌को दिया उस मणिको हनुमान् लेके रामके पास चलते भये ॥ २३ ॥

कार्यसिद्धिं स्वतो वीक्ष्य हर्षं चक्रे कपिस्तदा ॥  
तदेव लंघनं सिन्धोः पुनराभूत्सुनीश्वर ॥ २४ ॥

भाषा—हनुमान् अपने पराकमको देखके खुशी भये सोईं फिर समुद्रके पार उत्तर आये ॥ २४ ॥

गुरुदेववियोगस्य शान्त्युपायांगदस्य च ॥  
आश्वासनं कपिश्चक्रं स्वचरित्रप्रवर्णनैः ॥ २५ ॥

भाषा—गुरुके वियोग शान्तिका उपाय जो अंगद तिसको हनुमान् जो लंकामें कर्म किया उस कर्म रूप विश्वासको देते भये ॥ २५ ॥

कपेर्गेहरूपदेशस्य विशुद्धाचरणं गुरौ ॥  
तत्त्व्यातं काननं तस्य कदापि विच्युतं फलम् ॥ २६ ॥

**भाषा-**गुरुके उपदेशरूप सुशीव तिसका नित्य गुरुके पूजनमें शुद्ध आचार सोई सुशीवका मधुनाम बगीचा है दैवयोगसे सोई आचार कभी क्षण भरको नष्ट हो जाता है सोई फल है ॥ २६ ॥

तस्यैव भक्षणं चक्रः कपयोऽगदप्रेरिताः ॥

गुरावाचारमननध्यानचिन्तनकीर्तनाः ॥ २७ ॥

**भाषा-**क्षणभरको आचार नष्ट होजाता है सोई फलोंको अंगदकी आज्ञा पायके कपि खाते भये गुरुके चरणोंमें आचार मानना ध्यान चिंतन कीर्तन करना ॥ २७ ॥

एते वनेशाः कपिना कृता रक्षापरायणाः ॥

एतेषु च कदालस्यास्ते न्यूनवनपार्दिताः ॥ २८ ॥

**भाषा-**ध्यान आदि इन्होंको सुशीवने वनका मालिक किया है ये सब गुरुके आचारके रखनेमें बड़े चतुर हैं इनको जो कभी आलस्य होजाता है सो वनके रक्षा करनेमें छोटे मालिक हैं उनको कपिलोग मारते भये ॥ २८ ॥

निपीडितास्ते वनपाः कपीश्वरैर्विप्राव्यमानाः स्व लिता मुहुः पथि ॥

सुशीवमूचुः करुणापरास्तदा तत्काननस्यैव विनाशनं मुने ॥ २९ ॥

**भाषा-**हे मुनिजी ! कपियोंसे पीडित जो प्रथम वर्णन हुए बगीचाकी रक्षा करनेवाले सो सब अपना दुःख तथा बगीचाका नाश सुशीवसे कहते भये ॥ २९ ॥

इति श्रीवेदान्तरामायणे सुन्दरकाण्डे संवर्तवरतन्तुसंवादे पं० शिवसहायबुध-  
विरचिते कपिमधुवनफलमक्षणे तृतीयो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ ३ ॥

### वरतन्तुरुवाच ।

ते न्यूनवनपाः सर्वे प्रेरितैः कपिभिस्तदा ॥

अंगदेन भृशं चैव ताडिता विप्र दुदुबुः ॥

तेषां विस्मरणं नष्टं स्मरणासिश्च ताडना ॥ १ ॥

**भाषा—**वरतंतु मुनि बोले अंगदकी आज्ञाको पायके कपि वनमें जो छोटे २ मालिक तिनको मारते भये, मारना क्या है ये सर्व ध्यान आदि सुंदर कर्मोंको गुरुदेवमें भूलजाते रहे सो भूलना नष्ट होगया, अब ध्यान आदिका स्मरण नित्य करेंगे यह मारना हुआ, इस प्रकारसे ताडनाको प्राप्त होकर जो वनके रखवाले सो भागते भये ॥ १ ॥

कम्पनं प्रुवनं प्रोक्तं प्राव्योचुः कपिसत्तमम् ॥  
सर्वं कपिकृतं श्रुत्वा कपीशो हर्षमाययौ ॥ २ ॥

**भाषा—**वनके रखवालोंके हृदयमें ध्यान आदिका आलस्य रूप पाप कांपने लगा, सोई तिनका भागना हुआ, इस प्रकारसे भागके सुश्रीवसे सब हाल कहते भये कि हमारी सबकी अब पूर्वदेहका लक्षण नष्ट होगया सोई कहना भया है, वानरोंके कर्मको सुनके सुश्रीवको बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ ॥ २ ॥

स्वात्मानमचलं मेने कविस्तद्धर्षमुच्यते ॥  
स्वपक्षवर्द्धनं ज्ञानं तत्प्रथं राघवस्य च ॥ ३ ॥

**भाषा—**सुश्रीव अपने रूपको अचल मानते भये कि जो दुष्टकर्म गुरुदेवकी आज्ञासे मेरेको दूर करते थे सो धीरे २ नश भये चले जाते हैं यह सुश्रीविका हर्ष है तथा रामजी अपना पक्ष जो ज्ञान, विराग, सत्संग, यम, नियम, इन्होंसे आदि लेके सुंदर कर्मोंकी वृद्धि मानते भये सोई सुश्रीवसे रामजीका प्रभ भया है ॥ ३ ॥

एतस्मिन्नंतरे चैव कपयस्ते समागताः ॥  
स्वस्वभावं परित्यज्य पतिता राघवान्तिके ॥ ४ ॥

**भाषा—**ऐसे आनंदसमयमें प्रथम कहे हुए जो वानर सो सब अपने अपने स्वभावको छोड़के रामजीके सामने पड़ जाते भये ॥ ४ ॥

पृष्ठा रामेण ते सर्वे कुशलं विविरे तदा ॥  
कृपया तव राजेंद्र वयं निर्मलिनः कृताः ॥ ५ ॥

**भाषा—**विवेकरूप रामजीने वानरोंसे कुशल पूँछा तो वानर बोले कि, हे रामजी ! जिस दिन हमारे सबके ऊपर आपकी लृपा भई उसी दिन गुरुमें बुरा कर्म देखना इससे आदि और जो कर्म ऐसे वानर वृक्ष हम सर्व जो हैं सो अपने मलरूप स्वभावसे छूट गये ॥ ५ ॥

**प्रोवाच हनुमान्सर्वे लंकावृत्तांतमादितः ॥**

**स्वस्मिन्तनयप्रीतिं च जानक्या मणिमाददौ ॥ ६ ॥**

**भाषा—**लंकाका सब समाचार हनुमान् रामजीसे कहते भये, अपनेकूँ जानकी लड़का मानके पुत्रवाली प्रीति करती हुई सोई पुत्रकी प्रीति मणि भई है, सो मणि हनुमान् को देती भई, सोई मणि हनुमान् ने रामजीको दिया, रामजी मणि पायके खुशी भये ॥ ६ ॥

**जानकीबालकोऽय वै प्रेमरूपः पुनः पुनः ॥**

**उवाच रामस्तं प्रीत्या तत्तदादरमुच्यते ॥ ७ ॥**

**भाषा—**रामजी वरंवार सबसे कहते भये कि जानकीका ब्रह्ममें जो प्रेम सो पुत्ररूप हनुमान् है, ऐसा रामका वाक्य सो हनुमान् का आदर भया है ॥ ७ ॥

**गुरौ दुर्भावना त्यक्ता कप्यक्षेत्रं सुभावना ॥**

**कृता च सैव सेनाया योजना गणना शुभा ॥ ८ ॥**

**भाषा—**जीवोंका गुरुदेवमें दुष्टभाव छूट गया, सुंदर भाव करने लगे कि हमारे गुरु साक्षात् ईश्वर हैं ऐसी जीवोंकी बुद्धि सोई सेनाकी गिनती तथा लंकाको जाना भया है ॥ ८ ॥

**दुष्टकर्मस्थितिप्रीतिलंकासौख्यस्य कांचनम् ॥**

**तद्वर्षवारिधेव्राशिर्चिता सा तत्र संस्थितिः ॥ ९ ॥**

**भाषा—**खोटे काजोंमें हठ करके टिकना ऐसी जो लंका तिसका सुख सो सुवर्ण तिसका हर्ष सो समुद्रके नाश करनेकी चिन्ता सोई समुद्रके तटपर राम-जीकी फौजका उतरना होता भया ॥ ९ ॥

**कुर्कर्मत्रासरूपेण वोधितश्च दशाननः ॥**

**त्रात्रा विभीषणेनैव तेन निष्कासितो बलः ॥ १० ॥**

भाषा—बुरे कार्यमें डरना सो विभीषण है, सो मनरूप रावणको विभीषणने ज्ञान दिया, कि भाई सुंदर कर्म करो, बुरा कर्म छोड़ देवो ऐसा वचन सुनके लंकासे विभीषणको रावणने निकाल दिया, बुरा कर्म करनमें राक्षस भयसे हीन भये सोई विभीषणका लंकासे निकालना हुआ ॥ १० ॥

**सत्यार्जवनिरानन्दा हिंसनास्तस्य मंत्रिणः ॥**

**समायान्मंत्रिभिश्चैतैः शरणं राघवस्य वै ॥ ११ ॥**

भाषा—सत्यवचन, कोमलस्वभाव, अजिमानहीन चित्त, जीवमात्रपर दया यह चार विभीषणके मंत्री हैं इन चारोंको संग लेके विभीषण रामजाकी शरणमें आया ॥ ११ ॥

**नामश्चार्थमविज्ञातं कपिभिस्तस्य कर्हीचेत् ॥**

**त्रासं दास्यत्ययं तस्मान्नोऽतश्चकुर्विवारणम् ॥ १२ ॥**

भाषा—त्रासरूप विभीषणके नामका अर्थ कपियोंने कभी नहीं जानाथा यह त्रासरूप राक्षस सबको त्रास देता है, ऐसा विचार किया कि, यह आवेगा तौ हम सबको त्रास देवेगा, इस वास्ते रामजीके सामने विभीषणको नहीं आने दिया ॥ १२ ॥

**आज्ञाता रामचन्द्रेण वोधिताश्चापि वानराः ॥**

**कपयश्चानयामासुस्तं च राक्षससत्तमम् ॥ १३ ॥**

भाषा—रामजी वानरोंसे बोले कि यह विभीषण सबको त्रास नहीं देता यह तौ खुद बुरे कार्यसे डरता है इसको लावो, ऐसा रामजीसे ज्ञान पायके विभीषणको रामजीके पास ले आये ॥ १३ ॥

**ईश्वरप्राप्युपायस्य मूलं प्राप्य जहर्षे सः ॥**

**स एव पातो रामस्य पादाये तस्य वर्णितः ॥ १४ ॥**

भाषा—ब्रह्ममें प्राप्त होनेके उपायका मूल रूप विवेकरूप रामजी जिनको पायके विभीषण खुशी भया सोई रामजीके चरणके सामने विभीषणका पड़ जाना हुआ ॥ १४ ॥

लंकायाः शिक्षणार्थाय लंकाराज्यं ददौ हरिः ॥

भविष्यति च सा लंका साधूनां प्राणवल्लभा ॥ १५ ॥

भाषा—लंकाको भगवान्‌का सेवन आदि सुंदरकर्म सिखानेके वास्ते लंकाका राज्य रामजीने विभीषणको दिया कि लंकाका राजा विभीषण होवेगा तो यह लंका साधुलोगोंको प्राणसे प्यारी होवेगी ऐसा विचारके ॥ १५ ॥

लंकासुखहिरण्यस्य हर्षवारिधितारणे ॥

ईश्वरप्रार्थनारूपं विचारं कृतवान्प्रभुः ॥ १६ ॥

भाषा—लंकाका सुख सोई सुवर्ण है तिस करके लंका जड़ी है, उस सुवर्णमें हर्ष मानना सो समुद्र है जैसा समुद्रका पार नहीं तेसेही हर्षका पार नहीं ऐसे समुद्रके पार जानेके वास्ते ईश्वरकी विनीतरूप विचार रामजी करते भये ॥ १६ ॥

एतस्मिन्प्रेरितौ शीघ्रमागतौ शुक्सारणौ ॥

रामसेनां रावणेन कृतमग्रुद्गोहिणौ ॥ १७ ॥

भाषा—ऐसा विचार रामजी कर रहे हैं कि उसी समय रावणकी आज्ञा पायके जलदी शुक सारण ये दो राक्षस रामजीकी फौजमें आये शुक तो कृतमग्रुप है जो उपकार करे उसको नहीं माने और सारण गुरुसे द्रोह करता है तिसका रूप है ॥ १७ ॥

दूतौ दशाननस्यैतो कृतमग्रुद्गोहिणौ ॥

कपयस्ताड्याश्चकुर्व्वात्वा कपिनृपाज्या ॥ १८ ॥

भाषा—ये दोनों कृतमग्रुप तथा गुरुद्रोहरूप रावणके दूत हैं ऐसा विचारके सुधीरकी आज्ञा पायके बानर इनको मारने लगे ॥ १८ ॥

स्वकर्मणि द्रयोः प्रीतिर्या पुरा जन्मतोऽप्यभूत् ॥

रामदर्शनमात्रेण विनष्टा सा च ताडना ॥ १९ ॥

भाषा—ऋग्व तथा गुरुद्वेष्ट्रप शुक सारणका स्वभाव है कि उपकारको नहीं मानना तथा गुरुका द्वोह करना ऐसी जो दूतोंकी अपने २ कर्ममें प्रीति रही सो प्रीति रामजीके दर्शनसे नष्ट होगई सोई शुक सारणकी ताडना हुई ॥ १९ ॥

**मोचितौ रामचंद्रेण गतौ रावणसन्निधिम् ॥**

**ख्यापयांचक्तुः सर्वे रावणाय यथाक्रमम् ॥ २० ॥**

भाषा—रामजीने दूतोंको कपियोंके त्राससे छुडा दिया तब दोनों दुष्ट निर्मल होके रावणसे रामजीका हाल जो देख गये सो सब कहते भये ॥ २० ॥

**पूर्वप्रकृतिनिर्मुक्तौ तदेव मोचितौ तदा ॥**

**तिरस्खृतौ रावणेन कुसंगत्यागकारणात् ॥ २१ ॥**

भाषा—शहिलेके दुष्ट स्वभावसे दोनों छूट गये सोई कपियोंके त्राससे रामजीका छुडाना हुआ तथा खोटी संगतिसे छूट गये सोई रावणमे अनादर पायके ॥ २१ ॥

**शरणं रामचन्द्रस्य समायातौ पुनर्द्रुतम् ॥**

**रामसंगतिजं सौख्यं प्रापितौ मुक्तिकारणम् ॥ २२ ॥**


भाषा—शुकसारण जलदी रामजीकी शरणमें आते भये मुक्तिका बीज ऐसा जो रामजीका संग तिसमें उत्पन्न हुआ सुख उस सुखको प्राप्त होते भये ॥ २२ ॥

इति श्रीवेदान्तरामायणे सुंदरकाण्डे संवर्तवरतन्तुसंवादे पं०शिवसहाय-

बुधविरचिते शुकसारणमोक्षे चतुर्थो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ ४ ॥

इति सुंदरकाण्डः समाप्तः ।

## अथ युद्धकांडप्रारंभः ।



### वरतन्तुरुवाच ।

**सर्वैर्पां मतमागृह्य रामः सत्यव्रतसुधीः ॥**

**लंकासुखहिरण्यस्य हर्षपालनहेतवे ॥ १ ॥**

भाषा—वरतन्तुमुनि बोलते भये सब वानर तथा कक्षोंके मतको लेके

बडे बुद्धिमान् रामजी है सो लंकापुरीका सुखरूप सुवर्ण तिसका हर्ष सोई समुद्र तिसकी रक्षा करनेके वास्ते ॥ १ ॥

**प्रेमोत्कंठः शामादीनां ते कुशा विजयं रिपोः ॥  
तद्रूपमासनं कृत्वा व्रतं रामः समादधे ॥ २ ॥**

**भाषा—**शम यम दम दया इन्होंसे आदि लेके और जो ईश्वरके प्यारे कर्म हैं तिन कर्मोंमें प्रेमसे गद्द होना वचन न कहा जाना ऐसा स्वभाव कुश है तथा रावणको जीतके अपना विजय सोई आसन है ऐसा कुशके आसनपर बैठिके जीवमात्रके मोक्ष करनेका विचाररूप व्रत रामजी धारण करते भये ॥ २ ॥

**त्रयः काला दिनाः प्रोक्ताः सर्वानाकृष्य मंडले ॥  
सत्सङ्गस्य नयिष्यामि सर्वाञ्जीवाञ्चराचरे ॥ ३ ॥**

**भाषा—**भूत भविष्यत् वर्तमान ये तीन काल तीन दिन भये हैं रामजीने विचारा कि, मनरूप रावणका नाश करके तिस पीछे सब जीवोंको ज्ञानकी रस्सीसे पकड़के सत्संगेमें ले आवेंगे मोक्ष होनेके वास्ते ऐसा उत्तम व्रत रामजी धारण करते भये ॥ ३ ॥

**मूलमालस्यमुक्तं च फलं तत्सुखवर्धनम् ॥**

**सत्कर्मनाशकौ ज्ञात्वा तत्यजे द्वौ रघूत्तमः ॥ ४ ॥**

**भाषा—**दो प्रकारका आलस्य है एक तौ बुरे काममें दूसरा सुंदर कर्ममेंसे ब्रह्ममें प्रीति तिसमें आलस्य करना सोई वनके मूल हैं तिसको रामजी त्याग देते हुए उसी आलस्यमें हर्ष मानना सो फल है उन फलकोभी त्यागके रामजी निराहारव्रत करते भये ॥ ४ ॥

**लंकासुखहिरण्यस्य हर्षवारिधिमुत्तमम् ॥**

**हानिरूपं महामार्गमयाचत रघूत्तमः ॥ ५ ॥**

**भाषा—**लंकाका सुख सोई सुवर्ण उसमें हर्ष सोई समुद्र तिस समुद्रका हानिरूप बड़ा रस्ता रामजी समुद्रसे मांगते भये कि तूं हानि मानके सूख जावो तौ लंकामें हमारा राज्य होजावै ॥ ५ ॥

अद्वा हर्षहार्नि वै रावणस्य वधोद्यतः ॥

तद्वानिशमनोपायं क्रोधञ्चके च राघवः ॥ ६ ॥

भाषा—समुद्रकी हानि रामजी नहीं देखते हुए रावणके मारनेके वास्ते उपाय करते हैं ऐसे रामजी तिस हर्षकी शांति होनेके वास्ते उपायरूप क्रोध करते हुए ॥ ६ ॥

लंकां शुभां पुरीं कर्तुं विचारं प्रकरोति सः ॥

अनेकयतं रामश्च तत्सागरविशोषणम् ॥ ७ ॥

भाषा—रामजीने लंकापुरीको सुंदर बनानेके वास्ते रोज विचार करते हैं सोई समुद्रका शोषण है ॥ ७ ॥

धैर्येण विचकर्षाशु तेजोरूपं शरं प्रभुः ॥

विकर्षं शरं द्वजा रामं सत्यपराक्रमम् ॥ ८ ॥

भाषा—धीरज करके तेजरूप जो शर है तिसको रामजी हर्षरूप समुद्रके शोषण करने वास्ते खेंचते भये ॥ ८ ॥

परपीडादयः सर्वे व्यथिता जलजन्तवः ॥

अपश्यन्तस्त्वशरणं दुःखिताश्च मुहुर्मुहुः ॥ ९ ॥

भाषा—परको दुःख देनेवाले जो खोटे कर्म हैं सोई सब जलजीव हैं सो सब अपनी रक्षा करने वास्ते जीविको नहीं देखे तो वारंवार दुःखी होते भये ॥ ९ ॥

न रामो मानवोऽयं वै विवेको मोक्षदायकः ॥

इति ज्ञानं समुद्रस्य द्विजरूपं तदेव च ॥ १० ॥

भाषा—समुद्रको ऐसा ज्ञान हुआ कि रामजी मनुष्य नहीं है ये तो मोक्ष देनेवाले विवेक है ऐसा ज्ञान सोई ब्राह्मणका रूप है ॥ १० ॥

तत्रासो धारणन्तस्य पात्री तत्प्रीतिरूपमा ॥

मया संतोषिते रामे पूर्ववन्मे सुखस्थितिः ॥ ११ ॥

भाषा—रामजीका त्रास सोई ब्राह्मणके रूपका धारण भया है तिसको धारिके

उसी ब्राह्मणके रूप धारणमें प्रीति सोई थाली भई है समुद्रने विचार किया कि जो मैं रामजीको प्रसन्न कर लेऊंगा तब प्रथम सरीखी मेरी स्थिति ॥ ११ ॥

वर्तिष्यन्ति च सौख्याद्या भविष्यन्ति च मे तदा ॥

एते चान्ये च तस्यासन्विचारा रत्नसंचयाः ॥ १२ ॥

भाषा—बनी रहैगी, तथा बडे बडे सुखभी मेरेको होवेंगे इस सरीखे और जो अनेक प्रकारके समुद्रके विचार सोई अनेक प्रकारके बहुतसे रत्न भये हैं ॥ १२ ॥

सागरस्तान्समादाय संप्राप राघवान्तिकम् ॥

स्वस्यापि राघवे प्रेमवर्द्धनं स्तवनं कृतम् ॥ १३ ॥

भाषा—पूर्वोक्त ब्राह्मणका रूप धारके तथा पूर्वोक्त थालीमें पूर्वोक्त रत्न धारके समुद्र रामजीके पास आता भया, समुद्रका भी प्रेम रामजीमें बहुत होगया सोई समुद्र रामजीकी स्तुति करता भया ॥ १३ ॥

समुद्रेनैव रामस्य कृता या विस्मृतिः पुरा ॥

दिगुत्तरा च सा ज्ञेया पूर्वमानो रिषुः स्मृतः ॥ १४ ॥

भाषा—समुद्र प्रथम रामजीको भूलि गया था सोई उत्तर दिशा है रामजीसे प्रथम समुद्रने अभिमान किया था, सो समुद्रका वैरी है, जिसने समुद्रका ज्ञान हारिलिया था ॥ १४ ॥

पूजितः संस्तुतो रामः क्षामितः सिंधुना मुहुः ॥

तेन संप्रार्थितो रामो जघान तद्रिपुन्तदा ॥

राक्षसानां विनाशाय भूभारहरणाय च ॥ १५ ॥

भाषा—समुद्रने रामजीकी पूजन स्तुति की तथा अपना अपराध रामजीसे क्षमा कराया, वैरीको मारने वास्ते प्रार्थना की, तब रामजी प्रथम वर्णन हुआ जो समुद्रका वैरी तिसको मारते भये राक्षसोंका नाश करने वास्ते तथा पृथ्वीका भार हरने वास्ते ॥ १५ ॥

पण चक्रे स्वयं रामः सः सेतुस्सागरेऽभवत् ॥

क्षमारूपञ्च पाषाणं रामस्य सेतुबंधने ॥

अन्ये सत्संगवीर्याद्यास्साहित्यास्तत्प्रबंधने ॥ १६ ॥

**भाषा—**रामजी प्रतिज्ञा करते हुए सोई समुद्रमें पुल भयाहै, रामजीके चिन्तर्में क्षमा बहुत है सो क्षमा पुल बांधने वास्ते पत्थर भयाहै, तथा पुल बांधनेमें और जो अनेक प्रकारकी सामग्री चाहिये सो सत्संगके अनेक प्रकारके सुंदर कर्म हैं सो सब सामग्री भई है ॥ १६ ॥

बंधनं रामचंद्रस्य दृढत्वं स्वपणेऽभवत् ॥

ईदृशः सागरे सेतुर्बद्धो रामेण वै तदा ॥ १७ ॥

**भाषा—**रामजी अपनी प्रतिज्ञासे चलायमान कर्त्ती नहीं होते सोई पुलका बांधना भयाहै, तब ऐसा पुल समुद्रमें रामजी बांधते भये ॥ १७ ॥

रावणस्यातिबलिनो युद्धे ज्ञात्वा रघृतमः ॥

महादुःखं भवेत्तत्र क्रूरे क्रूरतरेऽपि च ॥ १८ ॥

**भाषा—**बड़ा बली रावण तिसके युद्धमें क्ररसे क्रूर युद्धमें बड़ा दुःख होवैगा ऐसा रामजी जानिके ॥ १८ ॥

चक्रे संस्थापनं तस्य स्वकर्मशिवरूपिणः ॥

अचलत्वं च विश्वासम्पूजनं तत्र निश्चितम् ॥ १९ ॥

**भाषा—**तब अपने स्वभावके अचल विश्वासरूप शिवकी स्थापना करते भये कि या तौ रावणको मारेंगे या हम मरेंगे पण युद्ध नहीं छोड़ेंगे ऐसा स्वभाव पुष्ट करते भये अपने स्वभावमें रामजीका निश्चय है कि मैं स्वभावको जैसा राखूंगा तैसा रहैगा, ऐसा निश्चय सोई शिवका पूजन भया है ॥ १९ ॥

एवं कृत्वा विर्धि तत्र विवेको राघवस्तदा ॥

संस्मृत्य च मनोरूपरावणं प्रबलं प्रभुः ॥ २० ॥

**भाषा—**विवेकरूप रामजी मनरूप रावणको बड़ा बली जानिके ऐसा उपाय करते भये ॥ २० ॥

स्वभावन्तत्यजुस्सर्वे पूर्वोक्तं गुरुसत्तमे ॥

पूर्वोक्ताः कपयश्चैव ऋक्षाश्च रामसंथ्रयात् ॥ २१ ॥

भाषा—तथा वानर ऋक्षभी रामजीकी संगति पायकै प्रथम जो गुरुमें दुष्ट-  
स्वभाव था उसको त्यागदेते भये ॥ २१ ॥

गुरौ सद्भावनं चकुर्वृक्षाश्च कपयोऽनिशम् ॥

तसैन्योत्तारणं ब्रह्मन्बभूव राघवस्य च ॥ २२ ॥

भाषा—वानर तथा ऋक्ष गुरुमें सुंदर कर्म देखने लगे रातिदिन सोई राम-  
जीकी सेनाका समुद्रके दक्षिण पार जाना भया है ॥ २२ ॥

दुष्टे कार्ये दशास्यस्य सदा प्रेमाचलम्मुने ॥

सः सुवेलो गिरिः प्रोक्तो युद्धचिंता दशानने ॥ २३ ॥

भाषा—हे मुनि ! खोटे कर्ममें रावणका प्रेम कभी चलायमान नहीं होता  
सोई सुवेल नाम पर्वत है तथा रावणके भी रामजीके संग युद्ध करनेमें चिंता  
रहती है ॥ २३ ॥

सा स्थिती रामसैन्यानामभवत्तत्र पर्वते ॥

महानंदयुतो रामो बभूव मुनिसत्तम ॥ २४ ॥

भाषा—सोई सुवेल पर्वतपर रामजीकी सेनाका टिकना भया है. हे मुनिजी !  
समुद्रके पार जायके सेनाका सुवेलपर वास देखिके रामजीको बहुत आनंद  
होता भया ॥ २४ ॥

दुःकर्मप्रीतिहठसंस्थितिसौख्यहर्षसिंधुं व्यतीर्य कपिसैन्ययुतो

विवेकः ॥ तस्यौ विभीषणमतेन विभीषणाढ्यो भूमारहारकुशलो

रघुवंशकेतुः ॥ २५ ॥

भाषा—प्रथम वर्णन हुआ जो समुद्र तिसके पार जायके विभीषणके  
मतसे विवेकरूप रामजी सुवेलपर टिकिके भूमिके भार नाश करनेमें बडे चतुर-  
खुशी होते भये ॥ २५ ॥

इति श्रीवेदान्तरामायणे युद्धकांडे शिवसहायबुधविरचिते सैन्यरामस्य सुवेला-  
द्रिस्थितिवर्णने प्रथमो मोक्षारब्यः सोपानः ॥ १ ॥

### वरतन्तुरुवाच ।

तृष्णा रतिर्मतिभूतिर्दुष्टकायेषु सर्वदा ॥

वर्तते मुनिशार्दूल मनसो रावणस्य वै ॥ १ ॥

भाषा—वरतंतुमुनि बोले । हे मुनियोंमें श्रेष्ठ ! खोटे कर्मोंमें सदा तृष्णा प्रीति बुद्धि विभूति ये सब रावणकी बनी रहती है ॥ १ ॥

ताश्चत्नो दिशः प्रोक्ता लङ्काया दुष्टकर्मणि ॥

पणप्रीतिस्थितेः पूर्वे कथितायाः सविस्तरम् ॥ २ ॥

भाषा—प्रथम वर्णन भई जो लङ्का तिसकी ये चार चार दिशा भई हैं ॥ २ ॥

सत्संगनिंदनब्रित्यं तद्विनाशाय चिन्तनम् ॥

कचित्कचित्कृतं चापि सतां हासादिताडनम् ॥ ३ ॥

भाषा—सत्संगकी निंदा रोज करना सत्संगका नाश करने वास्ते चिंता करना किसी जगह सत्संगका नाशनी कर देना साधु लोगोंको देखिके हसना आदि ताडने करना ॥ ३ ॥

एते द्वाराश्च चत्वारो लङ्काया मुनिनायक ॥

तेषु तासु च जीवानामकरोन्मतिवारणम् ॥ ४ ॥

भाषा—ये लङ्काके चार दरवाजे हैं इन दरवाजोंमें तथा चारों दिशामें रामजीने दुष्टजीवोंकी बुद्धिका नाश करके सुंदर बुद्धि करदियी है ॥ ४ ॥

तदेव रोधनं विप्र लङ्कायाश्च चतुर्दिशः ॥

चतुर्षु द्वारदेशेषु राघवेण कृतं मुने ॥ ५ ॥

भाषा—सो हे मुनिजी ! ऐसा कर्म सुंदर जीवोंको सुख देनेवास्ते रामजीने किये सोई लङ्काके चार दरवाजे तथा चारों दिशा रामजी घेरिलेते भये ॥ ५ ॥

सत्संगनाशनं चैव राक्षसैश्च क्वचित् क्वचित् ॥

कृतन्तदेव लङ्कायाश्चोत्तरं द्वारमुच्यते ॥ ६ ॥

भाषा—राक्षसोंने किसी किसी जगहपर सत्संगका नाश करदिया सोई लंकाका उत्तर तरफ दरवाजा है ॥ ६ ॥

विनष्टस्य पुनः कर्तुं वर्धनोपायाचितनम् ॥

सैव स्थितिः समाज्ञेया रामचंद्रस्य चोत्तरे ॥ ७ ॥

भाषा—नष्ट भया जो सत्संग तिसकी फिर बृद्धि हेनेके उपायको चिंतवन रामजी निय करते हैं सोई लंकाके उत्तर दरवाजे पर रामजीका टिकना भया है ॥ ७ ॥

सञ्ज्ञानशिक्षणं रामे लक्ष्मणे च कपिष्वपि ॥

ऋक्षेष्वपि विशेषेण संगत्या शोधितेषु च ॥ ८ ॥

भाषा—रामजीमें लक्ष्मणमें तथा वानरोंमें भी तथा रामकी संगतिको पायके शुद्ध भये जो ऋक्ष तिन्होंमेंभी सुंदर ज्ञान सिखानेकी बुद्धि बहुत है ॥ ८ ॥

चक्रस्ते शिक्षणं स्वस्वकर्मणो राक्षसेषु च ॥

दुष्टकर्माणि सर्वाणि विधिना निर्मितानि च ॥ ९ ॥

भाषा—राम लक्ष्मण वानर ये सब अपने अपने सुंदर कर्मको राक्षसोंको सिखाते भये जैसी जिसकी बुद्धि है तिस माफिक तथा तीन लोक चौदह भुवनमें जो ब्रह्माके बनाये हुए बुरे कर्म जितने हैं ॥ ९ ॥

रावणे तानि वर्तते कुम्भकणे विशेषतः ॥

दुष्टसंगादिकर्माणि सुरेशविजये तथा ॥ १० ॥

भाषा—सो सब रावणमें वसते हैं कुंभकर्णमें तौ विशेषसे वसते हैं तथा मेघनादमें कुंभकर्णसे ज्यादा बुरे कर्मीका वास है ॥ १० ॥

अन्येषु राक्षसेष्वेवमन्यायास्सर्वदा स्थिराः ॥

शिक्षणन्ते प्रकुर्वन्ति विवेकादीन्स्वकर्मणः ॥ ११ ॥

भाषा—इसी प्रकारसे और जो राक्षस हैं तिन्होंमेंभी बुरा कर्म रातिदिन टिका रहता है रावण आदि लेके सब राक्षस जो हैं सो सब विवेकरूप रामजी आदि लेके जो मोक्षके मित्र हैं तिन्होंको बुरा कर्म सिखाते हैं ॥ ११ ॥

एवं परस्परं युद्धं रामरावणयासुने ॥  
संकृत्य जीवन्दूतन्दौ रामरावणवैरिणौ ॥ १२ ॥

**भाषा-**इस प्रकारका अपना अपना कर्म सिखावनरूप युद्ध राम रावणका होता भया राम रावण ये दोनों आपसमें वैर मानिके जीवका जुवा करिके युद्ध करते भये ॥ १२ ॥

सुयोन्यै स्वर्गमोक्षाय महदेश्यभुत्ये ॥  
सर्वसौख्याय जीवस्य प्राप्तये रघुनंदनः ॥ १३ ॥

**भाषा-**जीवोंको सुंदर योनिमें जन्म लेनेवास्ते तथा स्वर्गप्राप्ति होने वास्ते तथा बहुत स्वर्ग भोगने वास्ते तथा बहुत सुख भोगने वास्ते तथा मोक्ष होने वास्ते रामजी रण करते भये विवेककी इच्छा तौ जीवोंको मोक्ष देनेकी है परंतु जो मोक्षकी उपायमें जीव भृष्ट होजावे तौ संसारको सुख तो होवै ऐसा विचारके रामजी युद्ध करते भये ॥ १३ ॥

सहित्वानेकदुःखानि युद्धं चक्रे रघूत्तमः ॥  
कुयोन्यै नरकायैव रौरवाद्याप्तिहेतवे ॥ १४ ॥

**भाषा-**अनेक दुःख सहिके रामजी युद्ध करते भये तथा जीवोंको खोटी योनि प्राप्त होने वास्ते तथा रौरव आदि नरक प्राप्त होने वास्ते ॥ १४ ॥

अनेकदुःखभोगाय जन्ममृत्युभवाय च ॥  
जीवस्यानेकदुःखात्यै युद्धं चक्रे च रावणः ॥ १५ ॥

**भाषा-**गिनतीसे हीन दुःख जीवोंको भोग करने वास्ते, तथा वारंवार जीवोंको जन्म लेने वास्ते तथा शरीरको छोड़ने वास्ते और अनेक प्रकारके दुःख जीवोंको देने वास्ते रावण युद्ध करता भया ॥ १५ ॥

परितापान्यनेकानि सहित्वा परतापनः ॥

कामः क्रोधश्च लोभश्च मोहमानावहन्तथा ॥ १६ ॥

**भाषा-**दूसरे जीवोंको दुःख देनेवाला जो रावण अनेक दुःख सहता है परंतु जीवोंको दुःख देनेवास्ते युद्ध करता भया, तथा काम क्रोध लोभ मोह मान अहंकार ॥ १६ ॥

सदसत्सु प्रवर्तते कर्मस्वेते निरंतरम् ॥

असत्कर्मस्वसत्प्रोक्तास्मत्कर्माणि च सज्जनाः ॥ १७ ॥

भाषा—ये सब सुंदर कार्मोंमें भी रहते हैं तथा बुरे कार्मोंमेंभी रहते हैं खोटे कर्ममें खोटा कहाते हैं तथा सुंदर कर्मोंमें सज्जन कहाते हैं ॥ १७ ॥

असज्जाः कामवर्गाश्च युद्धचेष्टाश्च सज्जनेः ॥

कुर्वति राक्षसा भूत्वा सद्वर्मानपीडयन्ति च ॥ १८ ॥

भाषा—खोटे कर्मों करिके उत्पन्न जो खोटे कर्म जैसा काम क्रोध आदि कर्म सो सब राक्षस होके सज्जन लोगोंसे युद्ध करते हैं तथा सुंदर धर्म जैसा कथाश्रवण स्नान दान दया जप पूजन इनको आदि लेके और जो सुंदर धर्म तिन्होंको नाश करते भये उसी वास्ते युद्ध करते भये क्योंकि विवेकरूप रामजी सुंदर धर्मका नाश नहीं करने देते ॥ १८ ॥

एव परस्परं युद्धं बभूवाहीनिशम्मुने ॥

रामरावणयोः क्रूरं जन्ममोक्षातिहृतुकम् ॥ १९ ॥

भाषा—इस प्रकारसे जीविको मोक्ष होने वास्ते रामजी युद्ध करते भये तथा जीविको वारंवार जन्म लेने वास्ते मनरावण युद्ध करता भया सुंदर तथा बुरे कर्मका करना यही युद्ध भयाहै ॥ १९ ॥

छिन्नं विवेकेन पुनः पुनश्चिरारो ज्ञानासिना राघवर्यसूनुना ॥

मनोदशास्यस्य महाहवे मुने तच्चंचलत्वं च तदेव तच्छिरः २० ॥

भाषा—मनकी चंचलता जो है सोई मनरूप रावणका शिर है तिस शिरको रामजी वारंवार काटते भये ॥ २० ॥

लज्जात्रमविहीनश्च रावणो राक्षसेश्वरः ॥

स एव वर्द्धनस्तस्य शिरसञ्चलस्य वै ॥ २१ ॥

भाषा—मनरावण लज्जा तथा श्रमसे हीन है सोई रावणके शिरकी युद्धमें वृद्धि होती भई ॥ २१ ॥

कापथात्तं समाकृष्य सत्पथे चञ्चलं शठम् ॥

रामो निवेशयामास चासकृद्यया हठात् ॥ २२ ॥

भाषा—रामजी दया करिके रावणको खोटे रस्तासे खैचिके सुंदर रस्तामें हँडसे टिकाते भये ॥ २२ ॥

तदेव छेदनं तस्य कृतं रामेण संगरे ॥

प्रवेशितोऽपि तेनाशु सत्पथे हरिवल्लभे ॥ २३ ॥

भाषा—सोई राम करके शिरका काटना भयाहै युद्धमें मनरूप रावणको शमजी भगवान्‌का प्यारा रस्ता जो सत्संग तिसमें टिकाते भये तौ भी ॥ २३ ॥

तत्परित्यज्य सहसा कापथम्पुनराश्रितः ॥

तत्स्य भूमिपतनमाकाशे व्याप्तिरेव च ॥ २४ ॥

भाषा—उस रस्ताको त्यागके खोटे रस्तामें फिर टिकता भया सोई शिरका भूमिमें पड़ना भया तथ आकाशको जाना भया ॥ २४ ॥

कदा तृष्णां कदा निद्रां कदा शान्तिं कदा क्षमाम् ॥

कदा हार्निं कदा ग्लार्निं नीत्यनीतीं कदा मुने ॥ २५ ॥

भाषा—हे मुनिजी ! मनरूपरावण कभी तृष्णा कभी निद्रा कभी शान्ति कभी मोक्ष कभी हानि कभी ग्लानि कभी नीति कभी अनीति ॥ २५ ॥

ज्ञानाज्ञानसुखं दुःखं मूर्खतां सुज्ञतां कदा ॥

एवमादीन्यनेकानि येषां संख्या न विद्यते ॥ २६ ॥

भाषा—कभी ज्ञान कभी अज्ञान कभी सुख कभी दुःखको प्राप्त होता है कभी मूर्खबुद्धि कभी सुंदर बुद्धि इन्होंका आदि लेके गिरतीसे हीन और जो चीज है ॥ २६ ॥

प्राप्नोत्यज्ञानतो नित्यं कदा राजा कदा प्रजाः ॥

धनाद्यो वित्तहीनश्च दानीं च कृपणस्तथा ॥ २७ ॥

भाषा—मनरूप जो रावण है सो अज्ञानके वश होके नित्य कभी राज्यको प्राप्त होता है कभी प्रजाकी रीतिको प्राप्त होता है कभी बड़ा धन-

वान् हो जाता है कभी दरिद्री होजाता है कभी दानी होजाता है कभी रूपण हो जाता है कभी ईश्वरसे वैर रखता है इस वैरके प्रतापसे अनेक दुःख सहता है तौभी ईश्वरसे प्रीति नहीं लगता इस वास्ते दुःख भोगता है ॥ २७ ॥

क्षणे क्षणे भवत्येवं सा माया दर्शिता मुने ॥  
संग्रामे रावणेनैव राक्षसेन मुदुर्मुदुः ॥ २८ ॥

भाषा—क्षण में अनेक प्रकारका जंजाल मन करता है सोई युद्धमें रावणकी माया देखना हुआ है ॥ २८ ॥

प्राणनाशो भवेन्मे चेत्तथापि न त्यजाम्यहम् ॥  
स्वकर्मरक्षसान्नाश करिष्यामि हठादपि ॥ २९ ॥

भाषा—रामजीने ऐसी प्रतिज्ञा की है कि चाहे मेरा प्राणरूप सत्संग नाश होजावे परन्तु मेरा कर्म जो राक्षसोंका नाश करना है सो तो मैं करूंगा नहीं छोड़ूंगा ॥ २९ ॥

रामेणेति प्रतिज्ञातं रावणेनापि तत्था ॥  
रामादिसर्वसाधूनां कर्ताहं मूलकृन्तनम् ॥ ३० ॥

भाषा—तैसेही रावणनेभी प्रतिज्ञा की कि चाहे मेरा प्राणरूप खोटा कर्म नाश होवे परन्तु तौभी रामजी आदि लेके जो साधु हैं जैसा विवेक राम संतोष हीरमें प्रेम तीर्थ इन आदिको जड़से उखाड़ नाश कर देऊंगा ॥ ३० ॥

द्वयोः पणो रामदशास्ययोर्मुने सेवेदशः संगरवर्द्धनस्तदा ॥

बभूव पेतुश्च परस्परं हता भूमौ कपीशाः खलु राक्षसा मुने ॥ ३१ ॥

भाषा—हे मुनिजी ! रामरावणकी ऐसी प्रतिज्ञा सोई युद्धकी वृद्धि भई रामकी सेनासे मारे हुए जो राक्षस तथा रावणकी सेना करके मारे हुए जो वानर भूमिमें पड़के मरजाते भये ॥ ३१ ॥

इति श्रीवेदान्तरामायणे युद्धकांडे शिवसहायबुधविरचिते संवर्तवरतन्तुसंवादे  
द्वितीयो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ २ ॥

### वरतन्तुरुवाच ।

दुस्संगकुम्भकर्णस्य सदा प्रीतिस्स्वकर्मणि ॥

सत्संगनाशनं चैवं सा निद्रा तस्य वै मुने ॥ १ ॥

भाषा—वरतन्तुमुनि बोलते भये खोटी संगतिरूप जो कुंभकर्ण है तिसकी बुद्धि खोटे कर्ममें जो प्रीति रोज लगी रहती है तथा सत्संगका नाश करनेमें नित्य प्रीति रहती है सोई कुंभकर्णकी निद्रा है ॥ १ ॥

तस्य लोभगृहीस्य स्वप्नो मत्तस्य सः स्मृतः ॥

अहर्निशं न तज्ज्ञातं कदापीत्थम्बभूव ह ॥ २ ॥

भाषा—सत्संगके नाश करनेके लोभसे कुंभकर्ण दुःखी होरहा है सोई उसका शयन करना है, रात दिन कुंभकर्णको मालूम नहीं होता ऐसा सोनेमें मत्त होरहा है ॥ २ ॥

चिन्तनं च द्वयोर्नित्यं करोति द्विज मानसे ॥

दुःसंगपणवर्षे च द्वाविमौ चिंतनौ मुने ॥ ३ ॥

भाषा—हे मुनिजी ! कुंभकर्ण भले और बुरे दोनों कर्मका चिंतवन करना है यही दोनों कर्मोंका चिंतवन बारह महीने करता रहता है ॥ ३ ॥

निद्राक्षयदिनौ प्रोक्तौ कुंभकर्णस्य दुर्मतेः ॥

भविष्यति जयो युद्धे रावणस्योति निश्चितम् ॥ ४ ॥

भाषा—कुंभकर्णके जागनेको दो दिन भये हैं रावणको ऐसा निश्चय है कि युद्धमें मेरा निश्चयसे जय होवेगा ॥ ४ ॥

कुंभकर्णेन तत्तस्य कारयामास रावणः ॥

प्रोक्तं जागरणं विप्र दुस्संगहर्षगर्जनम् ॥ ५ ॥

भाषा—परंतु कुंभकर्ण करके जय होवेगा ऐसा रावणका विचार सोई कुंभकर्णका जगना भया है, खोटे कर्मरूप कुंभकर्णको खोटे कर्ममें हर्ष है सोई कुंभकर्णका गर्जना भया है ॥ ५ ॥

सत्कार्यालस्य द्यूताद्यैः सत्तिरस्कारनिन्दनैः ॥

असंख्यैर्विधिना सर्वैर्नीर्मतैश्च कुकर्मभिः ॥ ६ ॥

भाषा—ब्रह्मा करके बनाये हुए गिनतीसे हीन कुकर्म जैसा सुंदर काजमें आलस्य तथा जुआ खेलना तथा साधुजनोंका अनादर करना निंदा करना ॥६॥

एतेपां प्रेमसौख्याद्यैः शस्त्रैरस्त्रैश्च भूरिशः ॥

संयुतः सैनिकैरागाद्युद्धाय रघुनन्दनम् ॥ ७ ॥

भाषा—इन कर्मोंका प्रेम तथा सुख सोई हथियार भया है. तथा येही दुष्ट-कर्म फौज हुई है. ऐसी फौज तथा हथियार करके युक्त कुंभकर्ण रामजीसे युद्ध करनेको आता भया ॥ ७ ॥

शीघ्रं दुसंगरूपश्च कुम्भकर्णो महाबली ॥

तं समायान्तमालोक्य विवेको रघवस्तदा ॥ ८ ॥

भाषा—शीघ्रही दुसंगरूप कुंभकर्ण युद्धमें आता भया. तिसको देखके विवेकरूप रामजी भी ॥ ८ ॥

कपीनयोजयच्छूरानंगदादींश्च कोटिशः ॥

स्वयं ब्रातृसमायुक्तो युद्धं चक्रे रघृत्तमः ॥ ९ ॥

भाषा—अंगद आदि वानरोंको युद्ध करने वास्ते अज्ञा देते भये तथा आप दोनों भाई युद्ध करने वास्ते चलते भये ॥ ९ ॥

पैशुन्यमत्सरशुभद्रपिपातैस्तत्सैनिकाः कपिवरान्विभिदुः

कुकार्याः ॥ अज्ञानवीर्यमदिरां मदवर्द्धिनों वै पीत्वा च सोऽपि

बिभिदे कपिवर्यवीरान् ॥ १० ॥

भाषा—चुगली करना, दूसरे जीवोंके सुखको देखके बुरा मानना, सुंदरका-जमें खोटा कर्म देखना तथा खोटे काजमें सुंदर काज देखना. ऐसी आंखोंसे खूब तरहसे निशान लगाय लगाय दुष्ट काजरूप प्रथम वर्णन भये जो राक्षस सो सब वानरोंको मारते भये. अभिमानको बढ़ानेवाली जो अज्ञानका पराक्रमरूप मदिरा तिसको पीके कुंभकर्णजी वानर कक्षोंको मारता भया ॥ १० ॥

ते वै हताश्च कपयः पतिताः पृथिव्यां सत्संगचिन्तनमर्यां गमि-  
ताश्च मूर्छाम् ॥ ताह्यस्य रावणसहोदरनाशनाय प्रोत्थाय  
सर्वदितिजान्विभिदुर्नखायैः ॥ ११ ॥

**भाषा—**राक्षसों करके मारे गये जो वानर तथा कक्ष सो सब पृथिवीमें पड़के सत्संगकी चिन्ताखूप मूर्छाको प्राप्त होते भये. क्षणमात्रमें सत्संगकी चिन्ताखूप मूर्छाको त्यागके कुंभकर्णके नाश करनेके वास्ते उठके सब राक्षसोंको अपने अपने नखके अथवाग करके छेदन भेदन करते हुए ॥ ११ ॥

संचिन्तनं निजगुरोर्बहुधा नखानि तत्पादध्यानबहुप्रेमनखाग्रसु-  
कम् ॥ तन्मानसार्चनमहागिरिभिश्च वृक्षैर्जघुर्गस्तनामृत-  
चिन्तनैस्तान् ॥ १२ ॥

**भाषा—**वानर अपने अपने गुरुका बहुत प्रकारसे ध्यान करते हुए तथा गुरुका ध्यान नखका अथ भाग भया है, मन करके गुरुका पूजन करना सोई बड़े पर्वत भये हैं, गुरुके सामने टिकनेका चिन्तन तो वृक्ष भये हैं, ऐसे वृक्ष पर्वत करके वानर राक्षसोंको मारते भये ॥ १२ ॥

तान्स्वान्निराक्ष्य कपिभिर्विगतांश्च प्राणैः सम्यग्द्वातान्निपतिता-  
भुवि सैनिकांश्च ॥ मूर्छागतान्कपिवरांश्च मदावलीढान्दुद्राव  
दुष्टगमनः खलु कुंभकर्णः ॥ १३ ॥

**भाषा—**कुंभकर्ण अपनी दुष्टकर्मरूपी फौजको वानरोंसे नष्ट भई तथा भगी पतित देखके युद्ध करनेको दौड़ता भया ॥ १३ ॥

सज्जनैस्तत्तिरस्कारो गतिवेगो निगद्यते ॥

तं द्रवन्तं विलोक्याशु कपीन्हन्तुं रघृत्तमः ॥ १४ ॥

**भाषा—**सुंदरकर्म जो साधु है सो कुंभकर्णका अनादर करदिया सोई कुंभकर्णका दौड़ना भया है, वानरोंको मारने वास्ते दौड़ते हुए कुंभकर्णको देखके रामजी ॥ १४ ॥

सज्जनार्चनद्रावेण द्रुत्वा तत्साक्षिर्धिं गतः ॥  
पूर्वोत्तेरस्त्रशक्त्वैश्च कुंभकर्णं च राघवौ ॥ १५ ॥

**भाषा—**सुंदर कर्मका पूजन करना सोई रामजीका दौड़ना है इस प्रकारसे दौड़के कुंभकर्णके सामने आते हुए, कुंभकर्णजी सामने राम लक्ष्मणको देखके प्रथम कहे हुए बाण करके ॥ १५ ॥

स्वसंगप्रष्टमतुलं क्रोधं कृत्वा जघान तौ ॥  
जग्नतुस्तावपि क्रोधात्तस्य कर्मविचिन्तनात् ॥ १६ ॥

**भाषा—**कुंभकर्ण अपनी संपूर्ण संगतिको भष्ट देखके सोई वेप्रमाण क्रोध है ऐसे क्रोध करके रामलक्ष्मणको मारता भया, कुंभकर्णके कर्मका चिन्तवन राम लक्ष्मण करते भये कि इस दुष्टने सज्जनोंको खूब दुःख दिया है सोई चिन्तवन राम लक्ष्मणका क्रोध है ऐसा क्रोध करके राम लक्ष्मण कुंभकर्णको मारते भये ॥ १६ ॥

सुशिक्षासायकौर्दुष्टं कुभकर्णं मदाकुलम् ॥  
तयोर्युद्धं समीक्ष्याथ साधवो दुर्जनास्तदा ॥ १७ ॥

**भाषा—**रामजी दुष्टको सुंदर धर्म सिखाते भये सोई बाण करके दुष्टको मारते भये रामजी और कुंभकर्णके युद्धको देखके साधुजन तथा दुष्टजन ॥ १७ ॥

विस्मयं परमं जग्मुः किन्त्वेतद्वै भविष्यति ॥  
पुण्यपापौ च संज्ञातौ तेनापि राघवेण च ॥ १८ ॥

**भाषा—**बडे विस्मयको प्राप भये यह क्या होवेगा, पुण्यको तथा पापको रामजीभी जानते हैं तथा कुंभकर्ण जानता है ॥ १८ ॥

द्वाविमावीश्वराधीनाविति युद्धं त्रिवासरम् ॥  
बभूव च द्व्योर्ब्रह्म वीरयोर्वीरतापनम् ॥ १९ ॥

**भाषा—**कि यह दोनों कर्म भगवान् के अधीन हैं जिससे जो चाहे सो कर वावै ऐसा जानना सोई तीन दिन युद्धमें भये हैं ॥ १९ ॥

चतुर्थदिवसे प्रांतं द्योर्मानविवर्द्धने ॥

कुंभकर्णं महावीर्यन्दुसंगरौघैधनम् ॥ २० ॥

भाषा—रामजीको तथा कुंभकर्णको युद्धमें अभिमान बहुत है सोई अभिमान चौथा दिन भया है तिस चौथे दिन युद्धमें आया जो रौखनरक सो अभिभया तिसकी वृद्धि करनेवाले खोटी संग्रहप कुम्भकर्णको ॥ २० ॥

पूर्वोक्तसैनिकैः सर्वैः संयुतं मृतशैषिपैकैः ॥

युद्धं चक्रे पुनर्वीरो विवेको रघुनन्दनः ॥ २१ ॥

भाषा—मरेसे वची जो फौज तिसकरके संयुक्त कुम्भकर्णसे रामजी युद्ध करते भये ॥ २१ ॥

सत्कर्मशिक्षणैवर्णैस्तं जघान रघूतमः ॥

पैशुन्याद्यन्नश्वेशं जघान रघुनन्दनम् ॥ २२ ॥

भाषा—सुंदर कर्मका सिखावनरूप बाण करिके रामजी कुंभकर्णको मारते भये चुगली करना आदि लेके बुरे कर्मरूप बाण करिके रामजीको कुंभकर्ण मारता भया ॥ २२ ॥

बभूवतुश्च द्वौ वीरो बाणच्छवकलेवरौ ॥

स्वस्वकार्यस्य प्राप्त्यर्थचिन्तनं बाणछेदनम् ॥ २३ ॥

भाषा—अपने अपने काजकी प्राप्ति होनेका चिंतवन सोई बाण करिके देहज्ञो काटना दोनोंभी वीरोंका होता भया ॥ २३ ॥

सत्संगवासनासौख्यरक्तांगो रघुनन्दनः ॥

दुसंगचिन्तनारक्तरंजितो राक्षसोत्तमः ॥ २४ ॥

भाषा—सत्संगकी प्रीतिका सुख सोई रक्त भया है तिस रक्त करिके रामजीकी देह लाल होगई है । तथा कुंभकर्णको मालूम पडगया कि, दुःसंगका नाश रामजी करेंगे उसी दुःसंगका नाश होनेकी चिंता सो रक्त है तिस रक्त करिके कुम्भकर्णकी देह लाल होगई है ॥ २४ ॥

एवं युद्धे समद्भूते पृथिवी करुणा तदा ॥

स्वधर्मगिरिभिश्चैव वृक्षैश्चैव चचाल ह ॥ २५ ॥

**भाषा—**रामजीका तथा कुंभकर्णका ऐसा कठिन युद्ध देखिके जीवमात्रके ऊपर दया रखना सोई पृथ्वी है उस पृथ्वीका धर्म क्षमा आदि सुंदर कर्म सोई पर्वत तथा वृक्ष है तिन सहित पृथ्वी कांपती भई ॥ २५ ॥

विघूयमानाम्पृथिवीन्निरीक्ष्य जघान रामः खलु कुम्भकर्णम् ॥

सदौपदेशेन शरेण दुर्मार्ते पपात सा भूमितले सदालये ॥ २६ ॥

**भाषा—**दयारूप पृथ्वीको कंपायमान रामजी देखिके सुंदर कर्मका उपदेश-रूप बाण करिके कुंभकर्णको मारते भये । रामजी करिके मारा जो दुस्संगरूप कुंभकर्ण सो सुंदरधर्मरूप जो पृथ्वीतल तिसमें पडिके मरि गया खोटी संगतिका नाश भया । सुंदर संगतिकी वृद्धि भई यही कुंभकर्णका मरण भया ॥ २६ ॥

कुम्भकर्णे हते दुष्टे दुःसगे साधुदुःखदे ॥

रामेण धर्मजा देवाः पूर्वोक्ताः सज्जनादयः ॥ २७ ॥

**भाषा—**साधुजनोंको दुःख देनेवाला दुस्संगरूप कुंभकर्णके मरे पछे प्रथम वर्णन भये जो धर्मसे उत्पन्न देवता तथा सज्जन ये ॥ २७ ॥

चकुर्जयजयारावं ते वै दुंभयस्तदा ॥

नेदुस्तद्वर्षमतुलं सुमनास्तं निगद्यते ॥ २८ ॥

**भाषा—**सब जयजयकार करते भये सोई दुंदुभी बाजती भई तथा इन साधुजनोंको तथा देवताओंको बहुत हर्ष भया सोई पुण्य भया है ॥ २८ ॥

शंका विरहिता प्रीतिस्सज्जनानामभूत्तदा ॥

सत्संगे मुनिशार्द्दलपुष्पवृष्टिश्च साभवत् ॥ २९ ॥

**भाषा—**हे मुनिजी ! सत्संगमें सज्जनोंकी प्रीति दुष्टोंकी शंकासे हीन होती भई सो पुण्यवृष्टि होती भई ॥ २९ ॥

दुःसगरूपे खलु रावणानुजे हते च रामेण ससैन्यके खले ॥

सुखं प्रपेदुः खलु सज्जनादयो निश्शंकरागं परमेश्वरेऽचलम् ॥ ३० ॥

भाषा—खोटी संगतिरूप कुंभकर्ण रावणका छोटा भाई तिसको रामजीने मार डाला तब साधुजनोंको भयरहित भजनमें प्रेम होता है ऐसा सुख साधुओंको होताभया तथा शंकारहित प्रेम परमेश्वरमें होताभया ॥ ३० ॥

इति श्रीविदान्तरामायणे युद्धकांडे पं० शिवसहायबुधविरचिते संवर्तवरतन्तुसंवादे  
कुंभकर्णवधे तृतीयो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ ३ ॥

### वरतन्तुरुवाच ।

कुंभकर्णं हृतन्दङ्गा रामेण रावणस्तदा ॥

स्वसुतं च समाहूय दुश्चेष्टिमथात्रवीत् ॥ १ ॥

भाषा—वरतन्तुमुनि बोले रावण दुःसंगरूप कुंभकर्णको रामजीसे मरा जानिके खोटे कर्मका प्रेमरूप जो मेघनाद तिसको बुलायके बोलता भया ॥ १ ॥

दुश्चेष्टिमहावाहो याहि युद्धाय सत्वरम् ॥

विवेकेन हृतो भ्राता कुम्भकर्णो ममानुजः ॥ २ ॥

भाषा—हे खोटे कर्मके प्रेम मेघनाद ! मेरे भाई कुंभकर्णको विवेकरूप रामजीने मार डाला है सो युद्ध करने वास्ते जलदी जावो ॥ २ ॥

दुष्टकर्मणि यत्प्रेम तदिद्वर्मदनस्समृतः ॥

स श्रुत्वा स्वपितुर्वाक्यं शीश्रं युद्धाय निर्ययौ ॥ ३ ॥

भाषा—खोटे कर्मोंमें प्रेमरूप मेघनाद पिताका वाक्य सुनिके उसी समय युद्ध करनेको गया ॥ ३ ॥

चकार युद्धमतुलं ताभ्यां च कपिभिः सह ॥

जारद्यूतमहामोहहास्यास्मिग्धादिकर्मभिः ॥ ४ ॥

भाषा—व्यभिचार जुआ खोटे कर्मोंमें बड़ा मोह साधुओंकी मस्करी करना इन कर्मोंमें स्लेह आदि लेके बुरे कर्म बाण है इन बाणों करिके राम लक्ष्मण तथा वानरोंसे युद्ध इंद्रजित करता भया ॥ ४ ॥

मंदस्मितादिवाक्यैश्च शरैश्चिच्छेद वानरान् ॥

राघवौ च विशेषेण जघानैभिश्शरोत्तमैः ॥ ५ ॥

**भाषा—**मुसकुरायके बोलना यह बड़ा खोटा काम है इसीको बाण बनायके वानरोंको काटता भया इन्हों बाणों करिके राम लक्ष्मणकोभी मारता भया ॥ ५ ॥

एषाम्प्रीत्या महाशत्त्या चान्यैश्च विविधैरपि ॥

जघान लक्ष्मणन्तोपं राघवं च विशेषतः ॥ ६ ॥

**भाषा—**प्रथम वर्णन भये भुरे कर्मरूप बाण तिन बाणोंमें प्रीति निर्दया सोई सांग है उसी सांग करिके सन्तोषरूप लक्ष्मणको मारा तथा और अनेक बाण हैं तिन्हों करिके विवेकरूप रामजीको तथा और योधोंको मारता भया ॥ ६ ॥

कदा स्वकार्ये स्वस्यैव वर्द्धनं न्यूनता कदा ॥

आविर्धनन्तिरोधानन्तस्य तत्कथितमुने ॥ ७ ॥

**भाषा—**वीर मेघनाद अपने युद्धमें कभी अपनी जयकी वृद्धि देखता है तथा कभी जयकी हानि देखता है यही युद्धमें मेघनादका प्रगट होना तथा गुप होना है ॥ ७ ॥

एवं कृत्वा महायुद्धन्तयोः शोकविवर्द्धनम् ॥

मूर्छितान्कपिवीरांश्च राघवौ चापि दुर्मदः ॥ ८ ॥

**भाषा—**इस प्रकारका महायुद्ध करके वानरोंको तथा राम लक्ष्मणको मृच्छित करके ॥ ८ ॥

जगाम स्वाल्यं वीरः पिता पितृहर्षविवर्धनः ॥

रामेण घातितां सेनां सर्वा स्वस्य निरीक्ष्य वै ॥ ९ ॥

**भाषा—**पिता जो मनरूप रावण तिसके हर्षकी वृद्धि करनेवाला इन्द्रजित् अपने मंदिरको गया, दुष्टोंकी मंडली सो उसका महल है, अपनी फौजको राम करिके नष्ट भई देखके भाग गया ॥ ९ ॥

रामबाणैर्दितश्च जगाम पितुरन्तिकम् ॥

तदाभूच्च द्र्योः सायं संशयं मुनिसत्तम ॥ १० ॥

**भाषा—**रामजीके बाण करिके मारा मेघनाद भागिके पिताके पास गया तब

राम रावण दोनों शूरवीरोंको संशय है कि हमारा जय होवैगा कि नहीं ऐसा दोनों वीर विचारते हैं सोईं संशयरूप सायंकाल होगया ॥ १० ॥

**रामरावणयोरस्तं प्रतापभास्करोऽगमत् ॥**

**किं भविष्यति युद्धेऽस्मिन् चिन्तयेति विचिततोः ॥ ११ ॥**

भाषा—राम रावण ये दोनों अपने अपने चिन्तमें चिंतन करते हैं कि, युद्धमें क्या होवैगा कि हारेंगे ऐसा चिंतनरूप राम रावणका प्रताप भया है सो प्रतापसूर्य सामको अस्त होगया ॥ ११ ॥

**सन्तोषम्पतितन्दृष्टा शत्त्या निर्दयया क्षितौ ॥**

**घातितन्दुष्टकार्यस्य प्रेम्णा रावणमूर्चुना ॥**

**मोक्षप्रेमाकुलत्वेन निरीक्ष्य श्वासवर्जितम् ॥ १२ ॥**

भाषा—राम आदि लेके सुर्यवि विभीषण सुर्यीवसहित सब वानर रोते भये क्यों रोते भये खोटे कर्ममें प्रेमरूप ऐसा जो रावणका पुत्र मेघनाद तिसकरके लक्ष्मण संतोषरूपको मारा देखिके निर्दयरूप शक्ति करिके दुष्टने लक्ष्मणको मारा तब लक्ष्मण मोक्षके प्रेमसे कुछ थोरा व्याकुल होगये सोईं श्वाससे हीन मूर्छाको प्राप्त होगये हैं ॥ १२ ॥

**रामाद्या रुदुस्सर्वे सुर्यीवसविभीषणाः ॥**

**स्वस्वकार्येष्वधर्यैश्च तदेव रोदनं स्मृतम् ॥ १३ ॥**

भाषा—राम आदि अपने २ काजमें धरिजको छोड देते भये सो इन सबका रोना भया है । यह श्लोकयुग्म है ॥ १३ ॥

**सत्याचलस्वभावश्च रामस्य तेन वोधितः ॥**

**सुषेणन रघुश्रेष्ठो द्रौण्यानयनहेतवे ॥ १४ ॥**

भाषा—द्रोणपर्वतपर संजीवन नाम औषधि लेआने वास्ते रामजीका स्वभाव कभी सत्यसे चलायमान नहीं होता सोईं स्वभाव है रामजीने कहा द्रोणगिरिसे संजीवन औषधि मँगावो ॥ १४ ॥

सन्ताषजीविनार्थाय रावणस्य कुलान्तकम् ॥  
कर्तुं तेन प्रतिज्ञातं स प्रभातावधिः कृतः ॥ १५ ॥

**भाषा—**रामजीने प्रतिज्ञा की कि संतोषरूप लक्ष्मणको जिवायके पछे रावणके कुलको नाश करूंगा ऐसी रामजीकी प्रतिज्ञा सोई प्रातःकालकी मर्यादा भर्द है कि रातिमें लक्ष्मण जिआवे तब तो अच्छा है नहीं तो प्रातःकाल सूर्य दीखते समय मरजावेंगे राम रावणकी सेनाकी चिंता सोई राति है ॥ १५ ॥

रामेण सञ्जीवनन्दध्यानं द्रोणाच्चलः स्मृतः ॥

संजीवनन्तदानन्दमोषधश्च कृतम्भुने ॥ १६ ॥

**भाषा—**हे मुनिजी ! रामजी भगवान् का ध्यान करते हैं सोई द्रोणनाम पर्वत है तथा ध्यानमें आनंद होता है सोई संजीवनी नाम औषधी है ॥ १६ ॥

रामेण प्रेषणम्प्रेममोहरूपस्य कथ्यते ॥

गतिवेगो हनुमतो विवेकानुग्रहस्तथा ॥ १७ ॥

**भाषा—**रामजीके प्रेमके मोहरूप जो हनुमान तिसके ऊपर रामजीका प्रेम बहुत है सोई औषधि लेने वास्ते हनुमान् को भेजना भया है हनुमान् के ऊपर विवेकरूप रामकी रूपा बहुत है सोई संजीवन औषध लेआने वास्ते हनुमान् का दौड़ना भया है ॥ १७ ॥

रामध्यानमभूत्पंथा दुष्टार्थो मुनिसत्तमः ॥

भगवद्वाक्यशास्त्रस्य निन्दनं तत्कमंडलुः ॥ १८ ॥

**भाषा—**हनुमान् जी रामजीको ध्यान करते भये सोई औषध लेने वास्ते जानेका रस्ता है, तथा खोटे कर्मेंके अर्थ जैसा जाते २ अनेक दुःख सहना सोही विद्व करनेवास्ते कालनेमि मुनि भया है इश्वरका वाक्यरूप शास्त्र तिसकी निंदा करना सोई कालनेमिका कमंडलु है ॥ १८ ॥

ददौ हनुमते तोयं तत्सुखं बुद्धिनाशनम् ॥

तत्यत्त्वा हनुमानूचे विज्ञाय दम्भिनं मुनिम् ॥ १९ ॥

भाषा—हनुमान्‌को प्यासा जानिके शास्त्रनिंदनरूप कमंडलु है तिस कमंडलुका सुख सोई जल है सज्जनोंकी बुद्धिको नाश करनेवाला जल तथा कमंडलु हनुमान्‌को मुनिने दिया, और कहा कि जल पीओ, हनुमान् मुनिको चंडाल जानिके कमंडलु त्यागिके दुष्टमुनिसे बोले ॥ १९ ॥

नानेन मे भवेच्छांतिस्तृपस्सा च बलीयसी ॥

चित्तं तदौषधं दत्तं तदेव वचनं कपेः ॥ २० ॥

भाषा—हनुमान्‌का चित्त तो औषधिमें लगिरहा सोई हनुमान्‌का बोलना भया, यह बोले कि दुष्टमुनि ! इस जलसे हमारी प्यासकी शान्ति नहीं होवेगी क्योंकि हमारेको बड़ी प्यास लगी है ॥ २० ॥

संतोषलक्ष्मणस्यैव वर्द्धनेच्छा तृषा स्मृता ॥

इत्युक्तो दर्शयामास दुष्टार्थः कपये तदा ॥ २१ ॥

भाषा—संतोषरूप लक्ष्मणकी बृद्धि होनेकी इच्छा रामजीके प्रेममें मोहरूप हनुमान्‌की बनीरहती है सोई हनुमानकी तृषा भई है ऐसा कपिसे कहा जो मुनि सो हनुमानके वास्ते तलाव देखता भया ॥ २१ ॥

तडागं सज्जनानां वै दुःखरूपं विचिन्तनम् ॥

सदनादरतोयेन पूरितं सर्वदा सरः ॥ २२ ॥

भाषा—सज्जनजीवोंको दुःख देनेका चित्तवन सोई तलाव है साधु लोगोंका अनादर सोई जल है तिस करके हमेशा वह तलाव भरा रहता है ॥ २२ ॥

सदसद्विचारणम्पानन्तोयस्याभूत्कपेस्तदा ॥

छायया सज्जनप्रीत्या ग्रस्तस्तत्र कपिस्तदा ॥ २३ ॥

भाषा—खोटे कर्मका तथा सुंदर कर्मका निर्णय करना सोई हनुमानका जल पीना भया है ऐसा सुंदर कर्म तथा बुरे कर्मका निर्णय करते जो हनुमान तिसको साधु जीवोंमें अप्रीति सोई छाया नाम राक्षसी है सो छायाने हनुमानको खाने वास्ते पकड़लिया ॥ २३ ॥

तां हत्वागान्मुनेशशीघ्रमांतिकं गुरुदक्षिणा ॥

संतोषचितया मुष्ट्याहननं सत्सुभावना ॥ २४ ॥

**भाषा-**राक्षसीको मारिके मुनिके सामने गये तब मुनिने दक्षिणा मांगी तब हनुमानको संतोषकी चिंता बनी रहती है सोई मूठी है उसी मुष्टि करके दुष्टके अर्थरूप मुनिको मारे तथा साधुजीवोंमें प्रीतिरूप दक्षिणा देते भये तब दुष्टोंका अर्थ नष्ट होगया और सज्जनजीव भयसे रहित भये ॥ २४ ॥

संतोषपतनं कष्टमविज्ञानो वनस्पतेः ॥

विवेकसंगतौ हर्षं तद्वोणोत्पाटनं कृतम् ॥ २५ ॥

**भाषा-**युद्धमें संतोषरूप लक्षण बेहोश भये हैं ऐसा कष्ट सोई संजीवन औषधिका नहीं पहिचानना भया सोई विवेकरूप रामकी संगतियें जीवोंको बड़ा हर्ष होताहै सोई द्रोणपर्वतका मूलसे उखाड़ना भयाहै ॥ २५ ॥

सत्संगवर्द्धनमहासुखमौषधञ्च सत्याचलप्रकृतिजो गदहा सुषेणः ॥

तूर्णन्ददौ रघुपते खलु लक्ष्मणाय तज्जीवनं च समभूद्विमतौ वियोगः ॥ २६ ॥

**भाषा-**तब द्रोणपर्वतको देखके रामजीका सत्यसे अचलस्वभावरूप गदहा कहिये वैद्य सुषेण जो है सो सत्संगकी वृद्धिमें सुख सोई संजीवन औषधको जलदी लक्षणको देते हुए तब तुर्त लक्ष्मणजी जीविते भये खोटी मतिमें वियोग होना सोई लक्ष्मणका जीवन भया है बड़े वैद्यको शास्त्रमें गदहा लिखाहै कोई शंका मति करना ॥ २६ ॥

इति श्रीवेदान्तरामायणे युद्धकाण्डे पं० शिवसहायबुधविरचिते संवर्तवर-  
नन्तुसंवादे संतोषजीवनविधौ चतुर्थो मोक्षास्त्यः सोपानः ॥ ४ ॥

### वरतन्तुरुवाच ।

लक्ष्मणं जीवितन्दृष्टा हर्षिता वनचारिणः ॥

रामो विभीषणश्चैव तद्विरस्थापनम्पुनः ॥ १ ॥

**भाषा-**वरतंतुमुनि बोले लक्ष्मणको संजीवित देखके रामजी सुश्रीव विभी-

षण सब कपि क्रक्षोंको बड़ा हर्ष भया सोई फिर द्रोणपर्वतका द्रोणके स्थानपर  
टिकाना भया है ॥ १ ॥

**स्वस्वार्थलालसारात्रौ तद्वर्पं चिंतया द्वयोः ॥**

**पुनः प्रतापो ववृधे रामरावणयोस्तदा ॥ २ ॥**

भाषा—तब अपने अपने जयका विचार सब करते हैं सोई विचारकी इच्छा  
रात्रि भई है तिस रात्रिमें अपने अपने जयके सुखमें उसी हर्षकी चिंता करके  
राम रावणका प्रतापरूप सूर्य फिर उदय भया ॥ २ ॥

**एतत्प्रभातं संवीक्ष्य द्वयोल्लोभन्दिनन्तथा ॥**

**युद्धाय पुनराजग्मुः कपयो राक्षसास्तदा ॥ ३ ॥**

भाषा—ऐसा प्रतापरूप सूर्य उदयरूप प्रभातको देखिके तथा राम रावणकी  
अपने अपने काजमें लोभ सोई दिन भया है. ऐसे समयमें युद्ध करने वास्ते वानर  
राक्षस फिरि रणभूमिमें आते भये. अपने २ काजकी प्रीति सोई  
रणभूमि है ॥ ३ ॥

**चेद्विवेको वली रामः सन्तोषो लक्ष्मणोऽपि च ॥**

**तथापि नागपाशेन पञ्चेद्रियगुणेन वै ॥ ४ ॥**

भाषा—राम लक्ष्मण बडे बलवान हैं क्यों कि विवेक संतोष मोक्षके बडे  
मित्र हैं तो भी पांच खोटी इंद्रियोंका गुण जो है सोई नागपाश भया है तिस  
नागपाश करके ॥ ४ ॥

**बबंध राघवौ युद्धे मेघनादो महाबली ॥**

**किंचित् स्वकर्मचलनं तद्वयोर्बधनं मुने ॥ ५ ॥**

भाषा—मेघनाद राम लक्ष्मणको बांधता भया. कुछ थोरा विवेकभी अपने  
कर्मसे चलायमान होगये हैं और लक्ष्मणभी थोरा चलायमान होगये हैं  
क्योंकि मनरूप रावणका युद्ध सहज नहीं है बडे २ ज्ञानियोंको पकड़िके  
मनरावणने नरकमें पटाकि दियाहै सोई चलायमान रामलक्ष्मणको नाभपाशमें  
बांधना भया है ॥ ५ ॥

स्ववीर्यस्मरणैनैव गरुडेन विमोचितौ ॥

नागपाशविमुक्तौ द्वौ निरीक्ष्य रावणात्मजः ॥ ६ ॥

**भाषा—**राम लक्ष्मण अपने वीर्यका स्मरण करते भये सोई गरुड भया है उस गरुडने नागपाशसे छुड़ाय दिया मेघनादने राम लक्ष्मणको नागपाशसे छुटा देखिके ॥ ६ ॥

श्रुत्व्य युद्धान्विराशश्च पूर्वनं स्वजये तथा ॥

दुष्टानां संगतिं देवीं नाम्नोक्तां च निकुंभिलाम् ॥ ७ ॥

**भाषा—**अपनी जय होनेमें मेघनादने आशा छोड दिर्या साई मेघनादका भागना भया है सो युद्धमें भागिके दुष्टोंकी संगतिरूप निकुंभिला देवी है तिसके पास गया ॥ ७ ॥

स्वकर्मप्रेमकुंडं च तत्सुखोऽशिरितीर्यते ॥

तदुत्साहाश्च साहित्या हवने दारु तत्परम् ॥ ८ ॥

**भाषा—**मेघनादका जो कर्म बुरे कर्ममें प्रेम करना सोई होमका कुंड भया है उसी बुरे कर्मके प्रेममें सुख मानना सोई अशि है. मेघनादका उत्साह कि मैं बहुत सुखी हूं सोई होमकी सब सामग्री है मेघनादकी प्रतिज्ञा कि राम लक्ष्मणको मार डालूंगा ऐसा पण सोई होमका काष्ठ है ॥ ८ ॥

मरणे चिंतनं होमं कर्तुं तस्थौ च दुर्मतिः ॥

शमादिशिक्षावाणेन लक्ष्मणेन विनाशितः ॥ ९ ॥

**भाषा—**मेघनादको निश्चय अपने मरणको होगया कि मैं युद्धमें मर जाऊंगा सोई होमका करना भया है शम, दम, यम आदि सुंदर कर्म लक्ष्मण मेघनादको सिखाते भये सोई सिखाना बाण करिके लक्ष्मण मेघनादके होमको नाश करते भये ॥ ९ ॥

किञ्चित्सकार्ये म्लानत्वं तदेव तद्विनाशनम् ॥

पुनश्चक्रे महायुद्धं लक्ष्मणेन हतो भुविं ॥

स्वभावं पौर्विकं हित्वा सुखभावरतोऽभवत् ॥ १० ॥

भाषा—थोरा मेघनादका अपने कर्ममें लक्ष्मणकी शिक्षा पायके प्रेम नष्ट होगया। तथा सुंदर कर्ममें थोरा प्रेम भया सोई होमका नाश होनाहै होमके नाश भये पीछे फिर युद्ध करनेको आता भया तब लक्ष्मणने मारि डाला तब मेघनाद दयारूप पृथ्वीमें पड़ियाया। दयामें मिलि गया। प्रथमका स्वभाव खोटे कर्ममें प्रेम सो छूटि गया। सुंदर स्वभावमें प्रेम करने लगा यह मेघनादका मरण भया है ॥ १० ॥

तदेव मरणं तस्य पतनं धर्मसंस्थितिः ॥

भूमौ सद्ग्रावनयां च मेघनादस्य सक्षयः ॥ ११ ॥

भाषा—धर्ममें बुद्धि टिक गई सो मेघनादका भूमिमें पड़ना है सुंदर कर्ममें प्रति होगइ साइ भूमि है तिसमें पड़िके खोटे कर्ममें प्रेमरूप जो मेघनाद तिसका नाश हुआ। दोनों श्लोकोंका अर्थ मिला है युग्म है ॥ ११ ॥

एवं संतोषरूपस्तु लक्ष्मणो राघवानुजः ॥

निहत्य चेन्द्रजेतरं सुखमाप स्वकर्मणः ॥ १२ ॥

भाषा—संतोष लक्ष्मण इस प्रकारसे इन्द्रजितको मारिके अपना कर्म जो संतोष तिसका सुख जो भगवानमें प्रेम तिसको प्राप भये ॥ १२ ॥

सिद्धिं वीक्ष्य विवेकाद्या हर्षं चकुञ्च भूरिशः ॥

सा पुष्पवृष्टिः खाङ्गस्या द्वयोरुपरि पातिता ॥ १३ ॥

भाषा—विवेकरूप रामजी आदि सज्जन अपने कर्मोंकी सिद्धि देखिके बहुत हर्ष करते भये। सोई रामलक्ष्मणके ऊपर फलोंकी वर्षा आकाशसे होती भई ॥ १३ ॥

किञ्चित् किञ्चित्स्वमरणे कुलानां संक्षये तथा ॥

त्रासं प्राप दशग्रीवो विलापस्तस्य स स्मृतः ॥ १४ ॥

भाषा—रावण अपने मरणमें तथा कुलके क्षयमें थोरा थोरा डर मानता भया सोई रावणका विलाप हुआ है ॥ १ ॥

हते मेघनादे कुनादे सुवादे गते प्रापिते लक्ष्मणेनैव मृत्युम् ॥

सुखं साधवस्सज्जनाः पेदिरे वै मही सर्वदानंदयुक्ता बभूव ॥ १५ ॥

भाषा—लक्ष्मणने मेघनादको मार डाला खोटा बोलना दुष्टजीवोंका नष्ट होगया सब जीवोंमें सुंदर बोलना होता भया साधुजन भगवानके भजनरूप सुखको प्राप्त भये तथा दयरूप पृथ्वी दयाके वृद्धिरूप आनंदको प्राप्त होती भई ॥ १५ ॥

मेघनादं हतं दृष्ट्वा पुत्रं प्राणसमं तदा ॥

जीविताशाम्परित्यज्य स्वकर्मप्रीतिभावनाम् ॥ १६ ॥

भाषा—रावण मेघनादको मरा देखिके अपने कर्ममें प्रीति सोई रावणके जीनेकी आशा उसको छोड़ दिया जाना कि अब मैं नहीं जीऊंगा ॥ १६ ॥

पूर्वोक्तेरस्त्रशस्त्रैश्च सैनिकैश्चापि संयुतः ॥

बभूव सुमहद्युद्धं रामरावणयोरपि ॥ १७ ॥

भाषा—प्रथम वर्णन भई जो सेना तथा अस्त्र शस्त्र तथा तिनको लेके बड़ा युद्ध राम रावणका होता भया ॥ १७ ॥

असत्यादिशर्दूषो जघान रामवाहिनीः ॥

राघवौ च विशेषेण सुग्रीवं सविभीषणम् ॥ १८ ॥

भाषा—झूठ बोलना आदि जो अनेक बुरे कर्म हैं तिनको बाण बनायके रामजीकी सेना सुंदर कर्मरूप तिसको काटता भया तथा राम लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण इन चारोंको तो बहुत मारता भया ॥ १८ ॥

रामोऽपि सत्यादिशर्दूषाननं विभेदं सैन्यानपि तस्य चागतान् ॥

हता मृतास्संस्खलिताश्रष्टावितारस्वकर्मप्रसाशुभवृद्धयोऽभवन् ॥ १९ ॥

भाषा—तथा रामजीभी सत्यवचन आदि अनेक सुंदर कर्मरूप बाण करके रावणको मारते भये तथा रावणकी सेना दुष्ट कर्मोंमें प्रीतिरूप तिसको भी मारते भये सेना कोई तो धायल हुई पृथ्वीमें पड़ी है कोई मरगई कोई भागि गई रावणकी सेना दुष्टकर्म छोड़िके सुंदर कर्ममें बुद्धि लगाती भई सोई सेनाका मरना भागना पड़ना भयाहै ॥ १९ ॥

इति श्रीवेदान्तरामायणे युद्धकांडे शिवसहायबुधविरचिते संवर्तवरतन्तुसंवादे रामरावणकल्पोलयुद्धवर्णने पञ्चमो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ ५ ॥

## वरतन्तुरुवाच ।

युद्धे पराजयं प्राप्य रामेष रावणस्तदा ॥

स्वकर्मनाशचिन्तायां रात्रौ गत्वा च जानकीम् ॥ १ ॥

भाषा—वरतन्तु मुनि बोले रावण राम करके युद्धमें हानिको पायके अपने कर्मके नाशकी चिंता सोई रात्रि भई है तिस रात्रिमें जानकी प्रति जाता भया ॥ १ ॥

उवाच वचनं राजा सामदानादि संयुतम् ॥

अहं चापि जगद्व्याप्तस्तस्यांशः प्राणवल्लभे ॥ २ ॥

भाषा—साम दान भेद दंडरूप वधन बोलता भया है प्राणोंकी प्यारी जानकी ! संसारमें व्याप जो भगवान् तिसके अंशमें मैं भी हूँ ॥ २ ॥

कृपां करिष्यसे चेत्व तदा मुक्तो भवाम्यहम् ॥

अस्मात्कुतर्कनिचयन्नोचेत्वां ब्रह्मभावनाम् ॥ ३ ॥

भाषा—जो तू भगवान् की भक्ति भरेको देगी ऐसी कृपा मेरे ऊपर करेगी तौ इस संसारके अनेक प्रकारके कुतर्कके समूहसे मैं छूटि जाऊंगा यह सामवचन, जो नहीं कृपा करेगी तो मैं तो भट्ठी हो रहाहूँ पर तेरेको भी छष्टकी प्रतिमें ॥ ३ ॥

गमयिष्यामि दास्यामि निर्विघ्नं भजनं प्रभोः ॥

इत्याद्यनेकाविधिना तेनोक्ता जनकात्मजा ॥ ४ ॥

भाषा—प्राप कर देऊंगा यह दंड वचन, जो कृपा करेगी तो भगवान् का भजन निर्विघ्न देऊंगा तेरे भजनमें विघ्न नहीं होने पावैगा क्योंकि इन्द्रियोंका राजा तौ मैं हूँ यह दान वचन इन आदि और अनेक प्रकारके वचन जानकीसे रावण कहता भया परंतु जानकीने ॥ ४ ॥

तिरश्चकार तं दुष्टं ज्ञात्वा पक्षहृदं सती ॥

अनेकजन्मब्रह्मस्त्वं तत्तिरस्कारमुच्यते ॥ ५ ॥

भाषा—रावणका अनादर करके जानकीने विचार किया कि यह मन रूप रावण अनेक जन्मका भट्ठ है इसका हृदय बहुत ज्ञानसे कच्चा है इसको

जो कुछ उपदेशमी करें तौ सुन लेवेगा पण मानेगा नहीं इसवास्ते अनादर कर दिया मन बहुत जन्मसे बिगड़ रहा ह सोई रावणका अनादर है॥५॥

**आजगाम तदा दुष्टः स्वालयं स्वपराजयम् ॥**

**ज्ञात्वा रामाद्ध्रुवं दुष्टस्तत्स्य गमनालयम् ॥ ६ ॥**

**भाषा—**जानकीसे अनादर पायके युद्धमें हार जाना ऐसे अपने घरको रावण चलागया रावणने रामजीसे अपना हार निश्चयसे जानि लिया सोई रावणका घर जाना हुआ ॥ ६ ॥

**गते दशानने देवी ब्रह्मभक्तिस्वरूपिणी ॥**

**चक्र विलापं सुमहहुष्टानां मोक्षहैतुकम् ॥ ७ ॥**

**भाषा—**रावणके गये पीछे ब्रह्मकी भक्ति रूप जानकी दुष्टोंके मोक्ष होनेके वास्ते चिन्तवन करती है सोई विलाप जानकी करती भई ॥ ७ ॥

**ज्ञानविज्ञानवैराग्यं मुक्तिदानं चराचरे ॥**

**आचारश्च विचारश्च त्रासो दुष्टस्वभावतः ॥ ८ ॥**

**भाषा—**ज्ञान १ विज्ञान २ वैराग्य ३ आचार ४ विचार ५ खोटे स्वभावसे डर राखना ६ ॥ ८ ॥

**अनाहर्षालसो नित्यं श्रीमद्भगवदर्चने ॥**

**कुकर्मनाशने यतं स्वचित्तनियमन्तथा ॥ ९ ॥**

**भाषा—**भगवानके पूजनमें हर्ष त्यागना नहीं ७ तथा आलस्य करना नहीं ८ खोटे कर्मांका नाश होनेके वास्ते उपाय करना ९ तथा अपने चित्तको थिर राखना १० तथा और अनेक विद्वसे चित्तको बन्दोबस्तसे राखना ११ ॥९॥

**एते चैकादशा मासाः प्रोक्ता जनकनंदिनी ॥**

**स्थित्वा च रावणरामे विललाप भृशं सती ॥ १० ॥**

**भाषा—**येही ग्यारह मास जानकी रावणके बगीचमें टिकके बारंबार विलाप करती भई ॥ १० ॥

पूर्वोक्तां रजनीन्दृष्टा व्यतीतां रावणस्तदा ॥

पुनर्युद्धं च रामेण कर्तुं प्रायान्महाबली ॥ ११ ॥

भाषा—प्रथम वर्णन भई जो रात्रि तिसको जीवी देखके रावण रामसे युद्ध करनेको फिर आता भया ॥ ११ ॥

योगध्यानौ शमदमौ जीवानां सद्विशिक्षणम् ॥

परोपकारो मोक्षस्य चितनं सततं हृदि ॥ १२ ॥

भाषा—योग ध्यान शम दम जीवोंको सुंदरकर्म मिखाना दूसरे जीवका उपकार करना रातदिन मोक्ष होनेका चितन करना ॥ १२ ॥

दुष्ट्रासं सदा मौनी रामस्यैते महागुणाः ॥

दुष्टानां कर्मणां भावस्तेषु रागो निरंतरम् ॥ १३ ॥

भाषा—दुष्टजीवोंसे भय मानना खोटे कर्ममें कोई बुलावै तौ बोलना नहीं ये नव गुण रामजीके युद्धमें नौ दिन भये तथा खोटे कर्मोंमें प्रेम उसी प्रेममें नित्य श्वेह करना ॥ १३ ॥

अनृतं चञ्चलत्वं च सत्कर्मनाशचिन्तनम् ॥

सत्कर्मणि महालस्यं वेदनिन्दनमेव च ॥ १४ ॥

भाषा—झूठ बोलना स्वभावकी चंचलता बहुत राखना सुंदर कर्मका नाश करनेकी चिन्ता सदा राखना सुंदर कर्मोंमें सदा आलस्य करना वेदकी निंदा करना ॥ १४ ॥

जीवानां दुःखदायाशु रादोपायवितर्कनम् ॥

प्रसह्य करणं चैते गुणा रावणदेहजाः ॥ १५ ॥

भाषा—जीवोंको दुःख देनेवास्ते सदा उपाय करना सब जीवोंसे जबरदस्ती करना ये नव गुणोंकी उत्थनि रावणकी देहसे है सोई युद्धमें नव दिन भये हैं १५

अष्टादशादिनं युद्धं रामरावणयोरभूत् ॥

किञ्चिच्छेषान्निरीक्ष्यैव स्वसेनां राक्षसाधिपः ॥

हतपुत्रप्रपत्नैराच्च सत्रातृगण सयुताम् ॥ १६ ॥

**भाषा—**इस प्रकार अठारह दिन राम रावणका शुद्ध भया तब रावण अपनी फौजमें देखा तो भ्राता पुत्र पौत्र संग रहनेवाले सब मरगये अब थोड़ी फौज रही है ॥ १६ ॥

विद्वुत्य संगरान्मूढो व्याकुलत्वं च प्लावनम् ॥

स्वभावं स्वगुरुं शुक्रं पृद्वा यज्ञं समारभत् ॥ १७ ॥

**भाषा—**ऐसी सेना देखके रावण व्याकुल होगया सोई रावणका संश्नामसे भ्रागना है सो संश्नामसे भागिके रावणका स्वभाव सोई रावणका गुरु शुक्राचार्य तिससे पूछके यज्ञ करनेको प्रारंभ रावण करता भया ॥ १७ ॥

केनोपायेन विजयो मे भवेदिति चिन्तनम् ॥

शोकः कुंडं महामोहो काष्टमयिर्वितर्कनः ॥ १८ ॥

**भाषा—**मेरी जय गमसे युद्धमे किस प्रकारसे होवै ऐसा रातदिन रावण चिंतवन करता है सो चिंतवनरूप शोक सोई यज्ञमें होम करनेका कुंड भया है खोटे कर्मोंमें रावणका बड़ा मोह है सोई होमकी लकड़ी भई हैं तथा रामजीको मैं जीतूंगा कि रामजी मेरेको जीत लेवैंगे ऐसा रातदिन रावण तर्क करता भया सोई तर्क यज्ञमें अग्नि भई है ॥ १८ ॥

पुत्रपौत्रप्रपौत्राणां सेनानामपि घातनम् ॥

एवं विषादा बहवो होमसाहित्यमंडलाः ॥ १९ ॥

**भाषा—**पुत्र पौत्र प्रपौत्र भाई फौज इन सबका मरण देखके रावणके हृदयमें बहुत दुःख हुवा सोई दुःख होमकी अनेक प्रकारकी सामग्री भई है ॥ १९ ॥

एवं यज्ञं च संकर्तुं तस्थौ राक्षससत्तमः ॥

तदा गत्याशु कपयो भगवदज्ञानमाददुः ॥ २० ॥

**भाषा—**ऐसी यज्ञ करनेको रावण एकांतमें बैठता भया तब वानरोंने शीघ्र जायके रावणको भगवान् का ध्यानरूप ज्ञान देते भये ॥ २० ॥

तदेव यज्ञविग्रं च कृतं वानरसत्तमैः ॥

भगवद् ज्ञानरूपं वै विग्रं प्राप्य दशाननः ॥ २१ ॥

भाषा—सोई ज्ञान देना वानरों करके रावणके यज्ञका नाश करना भया,  
शोकरूप यज्ञ रावणका नाश होगया तब भगवान्‌का भजनरूप ज्ञान अपनी  
यज्ञका नाश रावण पायके ॥ २१ ॥

किंचिज्ञानं च संप्राप्य स्वकर्मस्मरणं कृतम् ॥  
रावणेन तदेवास्य विलापः प्रोच्यते बुधैः ॥ २२ ॥

भाषा—थोड़े ज्ञानको प्राप्त होके फिर पीछे अपना जो बुराकर्म तिसका  
स्मरण किया. तो पहिले तो अज्ञानसे बुरा कर्म अच्छा लागता रहा. अब थोड़ा  
ज्ञान प्राप्त भया तो वह बुरा कर्म खोटा मालूम पड़ा तो मनरूप रावणने विलाप  
किया. यह विलाप शोकरूप भया तथा परलोक वास्तेभी भया ॥ २२ ॥

संकृत्वैवं विलापं च रामेण संगरे हृतः ॥  
सञ्चिदानन्दरूपस्य ध्यानबाणेन तत्क्षणे ॥ २३ ॥

भाषा—ऐसा विलाप करके युद्ध करनेको आया तब रामजीने परमेश्वरका  
ध्यानरूप तिस बाण करके रावणको मारडाला तब मनरूप रावण मरगया ॥ २३ ॥

एवं हृतश्च रामेण सामात्यपुत्रपौत्रकः ॥  
ससैन्यः सकुटुंबश्च सदा सानुजसंयुतः ॥ २४ ॥

भाषा—इस प्रकारसे मंत्री पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, कुटुंब, सेना, दास, छोटा भाई  
सहित रावणको रामजीने मार डाला ॥ २४ ॥

मंदोदर्यादिभिः स्त्रीभिस्त्यकं कर्म च पौर्विकम् ॥  
विलापश्चैव तासाम्भो कथितो मुनिसत्तम् ॥ २५ ॥

भाषा—हे मुनिजी ! मंदोदरी आदि रावणकी जो स्त्री हैं सो सब राक्षसियोंने  
प्रथम खोटाकर्म त्याग देती भई सो राक्षसियोंको रावणके मरे पीछे विलाप  
करना भया ॥ २५ ॥

जनिष्यांति पुनर्दुष्टा दास्यांति व्यसनं महत् ॥  
जीवानामेतदर्थं हि लङ्काराज्यं विभीषणे ॥ २६ ॥

भाषा—रामजीने विचार किया कि ये दुष्टलोग फिर उत्पन्न होवेंगे तो जीवोंको दुःख देवेंगे इस वास्ते लंकाका राज्य विभीषणको देते भये ॥ २६ ॥

ददौ पूर्वोक्तभावं च लंकाराज्यं रघूत्तमः ॥

महानंदयुतो रामस्तदेव सैन्यजीवनम् ॥ २७ ॥

भाषा—प्रथम वर्णन भया जो लंकाका राज्य सो रामजी विभीषणको देते भये. और बहुत भगवान्‌के रूपका स्मरण करके बडे आनंदको प्राप्त भये. सोई रामजीका सैन्यको जिआना भया है ॥ २७ ॥

चराचरस्यैव हृते रिपौ तदा रामेण सत्कर्मविनाशने शठे ॥

प्रापुस्सुखं सर्वचराचरात्मका जीवा मनोरावणपातिते क्षितौ ॥ २८ ॥

भाषा—रामजीने चराचरका वैरी तथा सुंदर कर्मका नाश करने वाला शठ ऐसा जो मनरूप रावण तिसको मार डाला तब सब चराचर जीव बडे सुखको प्राप्त होते भये ॥ २८ ॥

इति श्रीवेदान्तरामायणे युद्धकांडे शिवसहायबुधविरचिते संवर्तवरतन्तुसंवादे  
रावणमरणरामविजयवर्णने षष्ठो मोक्षारब्दः सोपानः ॥ ६ ॥

### वरतन्तुरुवाच ।

रामचंद्रेण निहतस्सच्छिक्षासायकेन वै ॥

कुवासनां परित्यज्य संश्रितश्च सुवासनाम् ॥ १ ॥

भाषा—वरतन्तु मुनि बोले सुंदर भगवान्‌का कर्म मन रावणको रामजी सिखाते भये उस सिखावनरूप बाण करके रावण मारा गया, रावण खोटे कर्मकी प्रीतिको छोड़के सुन्दर कर्मोंकी प्रीतिका सेवन करने लगा ॥ १ ॥

तदेव मरणं प्रोक्तं मनसो रावणस्य वै ॥

अन्येषां चैव सर्वेषां राक्षसानामपीद्वशम् ॥ २ ॥

भाषा—सोई मनरावणका मरण भया है तथा और जो प्रथम वर्णन हुवा है गिनतीसे हीन खोटे कर्मरूप राक्षस वोभी सब बुरे कर्मको छोड़के भगवान्‌में प्रीति करने लगे, सोई सब राक्षसोंका मरण भया है ॥ २ ॥

मरणं शुद्धरूपं च बभूव मुनिसत्तम् ॥

मनसो रावणस्यैव दृष्ट्वा मरणमद्भुतम् ॥ ३ ॥

भाषा—तब बुरे कर्मरूप मलसे छूटके शुद्ध रूप होते भए, सोई राक्षसोंका मरण भया है मनरावणका मरण देखके ॥ ३ ॥

वेदशास्त्रपुराणोक्तास्सर्वे धर्मास्सनातनाः ॥

स्वस्वकर्मणि ते सौख्यं प्राप्नुः सुखमनेकधा ॥ ४ ॥

भाषा—वेदशास्त्र पुराणमें कथित जो सनातनधर्म है सो सब अपने २ कर्ममें अनेक प्रकारका सुख पाते भये ॥ ४ ॥

तदेव दुंदुभेः शब्दं पुष्पवर्षणमेव च ॥

सत्संगवृद्धिः संजाता सर्वयोनौ चराचरे ॥

सा स्तुती रामचंद्रस्य कृता देवैर्मुनीश्वर ॥ ५ ॥

भाषा—सोई दुंदुभीका बाजना तथा फूलोंकी वर्षा होती भई चराचर योनिके जीवोंमें सत्संगकी वृद्धि होती भई, सोई सब देवता आदि रामजीकी स्तुति करते भए ॥ ५ ॥

प्रीतिश्वराचराणां वै सत्संगे निर्भयाभवत् ॥

सर्वेषामेव वैदेहपुत्रीरामसमागमः ॥ ६ ॥

भाषा—सब जीवोंकी प्रीति मलसे हीन सत्संगमें भयरहित होती भई सोई रामजीका तथा जानकीका लंकामें मिलाप होता हुआ ॥ ६ ॥

धैर्याविचलनं रामस्सर्वेषां वै मुहुर्मुहुः ॥

चराचराणां प्रददौ दुःखितानां च भूरिशः ॥ ७ ॥

भाषा—हे मुनिजी ! अनेक जन्मसे मनरावण करके दुःखी जो चराचर जीव तिन सब जीवोंको रामजीने सुखी किया ॥ ७ ॥

जन्मजन्मान्तराद्विप्र मनरावणतापिनाम् ॥

सुखान्वितानां स्वेनैव कृतानां रघुनन्दनः ॥ ८ ॥

भाषा—धीरजमें स्थिर करके वारंवार वास देते भये कि हे जीव ! धीरज हृदयमें धरके ईश्वरको भजन करो यह युग्म है ॥ ८ ॥

तदेव कपिवीराणामृक्षाणां च तथैव च ॥

सलक्ष्मणस्य जानक्याः पुष्पकारोहणं स्मृतम् ॥ ९ ॥

भाषा—सोई जीवोंको धीरजमें स्थिरता देना वानरोंका तथा ऋक्षोंका लक्ष्मण-सहित जानकीकों पुष्पक विमानमें बैठना भया है ॥ ९ ॥

मृतावशेषिनां चैव राक्षसानां मतिः शुभा ॥

सर्वेषां राक्षसीनां च तद्रणस्थलदर्शनम् ॥ १० ॥

भाषा—युद्धमें मेरे नहीं जो राक्षस राक्षसी तिनकीभी सुंदर कर्ममें बृद्धि लगजाती भई सोई रामजीने पुष्पक विमानमें जानकीको ऊपरसे युद्धकी भूमि देखाते भये ॥ १० ॥

सत्संगवर्द्धनं दृष्टा दुष्टसंगक्षयं तथा ॥

पुनस्स्वपुर्यागमनमेतद्रामस्य कथ्यते ॥ ११ ॥

भाषा—रामजीने राक्षसोंका नाश करे पीछे सत्संगकी वृद्धि देखे तथा दुष्टोंकी क्षय देखते भये ऐसा देखना रामजीका सोई लंकासे फिर सुमतिरूप अयोध्या पुरीको चलना भया ॥ ११ ॥

सर्वेषां विमलञ्चितं जीवानां सततं हृदि ॥

सत्कर्मवर्द्धनं प्रेम तद्रामगमनं पुनः ॥ १२ ॥

भाषा—नित्य सब जीवोंका चिन हृदयमें मलहीन रहता है तथा सुंदर कर्ममें सब जीवोंके प्रेमकी वृद्धि भई ये कर्म रामजीका लंकासे भरद्वाज मुनिके आश्रमपर आना भया ॥ १२ ॥

स्थितिश्च रामचंद्रस्य भरद्वाजाश्रमेऽभवत् ॥

सत्कर्मशङ्कुहीनश्च बभूव मुनिसत्तम् ॥ १३ ॥

भाषा—हे मुनिजी सुंदर कर्म जो है सो वैरीसे हीन होगये सोई भरद्वाजके आश्रमपर रामजीका टिकना भया है ॥ १३ ॥

तदेव वायुपुत्रस्य प्रेषणं भरतं प्रति ॥

राक्षसोद्देगरहितान्दृष्टाजनकनन्दिनीम् ॥ १४ ॥

भाषा—सो रामजीको भरद्वाजके आश्रम वास करनेको सुख सो भरतके पास रामजी हनुमान्को भेजते भये तथा रामजीने परमेश्वरकी भक्तिरूप जानकीको राक्षसोंके दुःखसे रहित देखिके ॥ १४ ॥

इति प्रीतिर्विवेकस्य द्वयोरुक्तिश्च साभवत् ॥

निर्मोहवायुसुतयोर्महदानंदमेव च ॥ १५ ॥

भाषा—रामजीकी प्रीति परमेश्वरमें बहुत होती है सोई हनुमान्की तथा भरतजीकी वार्ता होती भई निर्मोहरूप भरतके आश्रमको देखिके हनुमान्को बहुत आनंद भया, तथा हनुमान्से रामजीकी कुशल मुनिके भरतको बहुत आनंद भया ॥ १५ ॥

तत्पुष्पकप्रयाणं च नंदियामे मुनीश्वर ॥

दुःकर्मणां विनाशश्च मोक्षस्य वर्द्धनं तथा ॥ १६ ॥

भाषा—हे मुनिजी ! यही जो दोनोंका आनंद है सोई भरद्वाजके आश्रमसे रामका दलसहित पुष्पकविमान नंदियाममें आना भया दुष्टकर्मोंका नाश तथा सत्संगकी वृद्धि होना ॥ १६ ॥

एषो हर्षः प्रजानां वै पूर्वोक्तपुरवासिनाम् ॥

राक्षसानां विनाशाय चक्रे रामोऽतिबुद्धिमान् ॥

प्रतिज्ञा सा जटा बद्धा रामेण जाह्नवीतटे ॥ १७ ॥

भाषा—प्रथम वर्णन हुए जो पुरवासी तिनको यही हर्ष भया है राक्षसोंका नाश करनेवाले रामजीने प्रथम प्रतिज्ञा किया है सोई प्रतिज्ञारूप जटा गंगाके तटपर रामजी भातासहित बांधेरहे हैं ॥ १७ ॥

शृंगवेरपुरे ब्रह्मन् लक्ष्मणेनापि तत्था ॥

ग्रंथं वृद्धिभयाच्चैवन्न तत्र लिखितं मया ॥ १८ ॥

**भाषा—**शृंगवेरपुरकी एक कथा जो वारंवार लिखिजावैगी तौ अंथ बड़ा हो जावैगा इस भयसे मैंने जटा बांधनेकी कथा शृंगवेरपुर वर्णनमें नहीं लिखा विचारा कि युद्धकांडके अंतमें तौ जटा उतारनेकी कथा आवैगी. इसवास्ते नहीं लिखा ॥ १८ ॥

**रामलक्ष्मणयोर्ब्रह्मजटाया बंधनं शुभम् ॥**

**रामस्य दुःखवृद्धिस्सा जटा चैव सहोदरैः ॥ १९ ॥**

**भाषा—**हे मुनिजी ! राम लक्ष्मणका जटाबंधन राक्षसोंका नाश करनेका सुंदर पण है तथा रामजकि दुःखकी वृद्धि सो भरतकी वा शत्रुघ्नकी तथा भाईका पक्ष मानके लक्ष्मणका भी जटाको बांधना है ॥ १९ ॥

**त्रिभिर्बद्धा च सेदार्नीं पूर्णा नष्टा वभूव च ॥**

**प्रतिज्ञा रामचंद्रस्य दुःखवृद्धिश्च पौर्विका ॥ २० ॥**

**भाषा—**रावणके मरे पछि रामजीकी प्रतिज्ञा पूर्ण होगई तथा दुःखकी वृद्धि भी नष्ट होगई ॥ २० ॥

**तज्जटाकृन्तनं तत्र भ्रातृणामभवन्मुने ॥**

**मोक्षेच्छा सर्वजीवानां वर्तते हृदयेनिशम् ॥**

**तदेव रामचंद्राय दत्तं राज्यं मुनीश्वरैः ॥ २१ ॥**

**भाषा—**हे मुनिजी ! सोई रामलक्ष्मण भरत शत्रुघ्नकी जटाओंका उतारना भया, जटा उतारिके राजपुत्रोंका रूप धारण करते भये रातदिन सब जीवोंको मोक्ष होनेकी इच्छा होने लगी, सोई सुमतिरूप अयोध्याका राज्य मुनिलोग रामजीको देते भए ॥ २१ ॥

**सत्कर्मचिन्तनसमाधिवनौषधैश्च रामस्य चकुरतिमोदयुता  
मुनीशा ॥ राज्याभिषेकमवनेः करुणान्वितायाः संरक्षणे सुमति-  
भूपाशिरोमार्णं च ॥ २२ ॥**

**भाषा—**सुंदर कर्मोंका चिंतवन तथा परमेश्वरका ध्यान आदि और सुंदरकर्म सोई बनकी दवा है तिस दवा करके मुनिजनोंने रामजीको राज्य देनेवास्ते दया-

रूप भूमिकी रक्षा करनेवास्ते सुमतिरूप अयोध्यापुरीका राजा करने वास्ते राम-  
जीको औषधिसे ज्ञान करवायके राजगद्वी पर बैठायके राज देते भए ॥ २२ ॥

रामे भूते सुमतिरूपतौ सच्चिदानंदप्रीतिर्जीवेजीवे समभवदतिप्रेम-  
संवृद्धिकर्त्ता ॥ सर्वे स्वस्थं सुखमयमहो साधवस्ते बभूवुद्गाने  
मग्रास्तुचरितसुधापूर्णचित्तास्तुचित्ताः ॥ २३ ॥

भाषा—सुमतिरूप अयोध्याके राजा रामजी हुए तब परमेश्वरकी प्रीति  
जीवजीवमें होती भई तथा भगवान्‌के प्रेमकी वृद्धि करनेवाली प्रीति होते लगी  
तीन लोक चौदह भुवन भगवान्‌में चिन्त लगाते हुए, साधुजन ज्ञानमें मग्न  
होगये भगवान्‌का चरित्र सोई अमृत भया है तिसको पीके भगवान्‌के भजनमें  
आनंद होरहे हैं ॥ २३ ॥

इति श्रीविद्वान्तरामायणं युद्धकाण्डं पं० शिवसहाय्यबुधविरचिते संवर्तवरतंतुसंवादे  
विवेकरामराज्याभिषेके सप्तमो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ ७ ॥

इति युद्धकाण्डम् ।

## अथोत्तरकाण्डप्रारंभः ।

### वरतन्तुरुवाच ।

स्वभावनिश्चलत्वं च सैवराज्यासनस्मृतः ॥  
पुष्टिस्तस्य समाख्याता स्थितिर्ज्यासने मुने ॥ १ ॥

भाषा—वरतन्तुमुनि बोले हे मुनिजी ! सुंदर कर्म्मोंमें रामजीके स्वभावकी वृत्ति  
निश्चल है सोई राजोंको बैठनेवास्ते समय है तिस निश्चल वृत्तिकी पुष्टाई जैसा  
कभी निश्चलवृत्ति भृष्ट नहीं होवै सो तखतपर बैठना है ॥ १ ॥

राज्यासनस्थं श्रीरामं पूर्वोत्ता मुनयस्तथा ॥

आजग्मुद्दृष्टुकामास्तं पुरस्कृत्य महामुनिम् ॥ २ ॥

भाषा—प्रथम वर्णन भये जो मुनिजन सो सब राज्यासनपर बैठे जो रामजी  
तिनका दर्शन करनेके वास्ते आते भये ॥ २ ॥

जीवस्वभावदीनं वै कुंभजं मुनिसत्तमाः ॥

ईश्वरे प्रेमानिर्विघ्नं पूजां चक्रे रघूत्तमः ॥ ३ ॥

भाषा—जीवका स्वभाव गरीब है सोई अगस्त्य मुनि हैं भगवान्‌में जीवोंका प्रेमरावणके मरे पीछे निर्विघ्नसे होता भया, सोई मुनियोंका पूजन करते भये ॥ ३ ॥

पूजिता मुनयः प्रेक्षुर्वचनं ब्रह्मकीर्तनम् ॥

ते प्रापिता वयं धर्मं निर्विघ्नं रघुनन्दन ॥ ४ ॥

भाषा—हे रामजी ! अब हम सर्व विघ्नसे हीन ऐसा भगवान्‌का भजनरूप धर्मको प्राप्त करते हुए ऐसी ब्रह्मकी कीर्तनरूप वचन रामजीसे पूजित जो मुनि हैं सो सब रामजीसे बोलते भये ॥ ४ ॥

मुनीनां वचनं श्रुत्वा कीर्तनं परमात्मनः ॥

प्रोवाच कुंभजं रामो जीवानां सद्विशिक्षणम् ॥ ५ ॥

भाषा—भगवान् कीर्तनरूप वचन मुनियोंका रामजी मुनिके मनरावणके राज्यमें भृष्टहुये जो जीव तिन जीवोंको भगवान्‌का भजन सिखावन सोई वचन रामजी अगस्त्य मुनिसे बोलते भये ॥ ५ ॥

विदेहजायाश्वोत्पत्तिं वालिसुश्रीवयोरपि ॥

वदत्वं श्रोतुमिच्छामि हृदये चिरकालतः ॥ ६ ॥

भाषा—हे मुनिजी ! जानकीकी उत्पत्ति तथा याली सुश्रीवकी उत्पत्ति मुन-बैकी इच्छा मेरेको बहुत दिनोंसे लगरही है सो आप रूपा करके कहो ॥ ६ ॥

रामचन्द्रवचः श्रुत्वा कुंभजो वाक्यमत्रवीत् ॥

सन्तोपवर्द्धनं जीवे निर्माहं कुंभजेरितम् ॥ ७ ॥

भाषा—जीवोंके हृदयमें संतोषकी वृद्धि करना सोई रामका वचन है तिस वचनको सुनके जीवोंके हृदयमें संसारसे मोह छुडाना सोई वचन अगस्त्य मुनि रामजीसे बोलते भये ॥ ७ ॥

एकदा मनरूपश्च रावणो रघुनंदन ॥

चक्रे विचारं दुष्टात्मा मुनयो दंडवर्जिताः ॥ ८ ॥

भाषा—अगस्त्यमुनि बोले हे रघुनंदन ! एकदिन मनरूप रावणने विचार किया कि सब जीवोंको मैंने दंड दिया पर मुनिजन मेरे दंडसे बचे हैं ॥ ८ ॥

चिंतकाः परमेश्वर्य सद्गम्मा मुनयो मया ॥

त्रासितास्तपसा हीना भक्षिताश्च कृता मया ॥ ९ ॥

भाषा—रावणने विचार किया कि भगवान्‌का चिंतवन करनेवाले सुंदर धर्मरूप मुनियोंको मैंने त्रास दिया तथा ईश्वरके भजनरूप तपस्यासे हीन कर दिया तथा ईश्वरके चिंतवन करनेसे बंद कर दिये सोई बंद करना मुनियोंका हमसे भक्षण करना भया ऐसी दुर्गति मुनिजनोंकी हमनें किया ॥ ९ ॥

न द्रव्यं दंडितास्ते वै तानद्य दंडयाम्यहम् ॥

एवं विचार्य दैत्येशः किञ्चिद्वृहणि भावनम् ॥ १० ॥

भाषा—परंतु मुनि लोगोंसे कोई चीज नहीं दंड लिया सो अब कोई चीज मँगवावैंगे जबरदस्तीसे किसी जन्मके पुण्यसे रावणके चित्तमें उस समय भगवान्‌में थोरा प्रेम भी उत्पन्न भया सोई प्रेम मुनिलोगोंसे कोई चीज मँगानेको रावणका विचार भया है ॥ १० ॥

राक्षसान्प्रेरयामास मुनीनां दुःखहेतवे ॥

ते गत्वा ब्राह्मणानूच्छुः किञ्चित्प्रेमबलं प्रभौ ॥

तदेव प्रेषणं तेषां गमनं तद्विवर्द्धनम् ॥ ११ ॥

भाषा—मुनिजनोंको दुःख देनेवास्ते राक्षसोंको रावण भेजता भया राक्षस जायके मुनियोंसे बोलते भये भगवान्‌के चरणमें थोड़ा रावणका प्रेम भया उसी प्रेमके बलसे राक्षसोंको भेजना भया है प्रेमके बलकी वृद्धि जो है सोई राक्षसोंको मुनि लोगोंके पास जाना भया है ॥ ११ ॥

बलसौख्यमभूलत्र राक्षसानां वचस्तदा ॥

युष्माकं चोत्तमं द्रव्यं देयं राक्षससत्तमे ॥ १२ ॥

भाषा—प्रेमके बलका सुख सोई राक्षसोंका वचन हुआ है मुनियोंसे राक्षस बोले कि तुम्हारे सबके पास जो उत्तम चीज है सो चीज रावणने मंगाया है शीघ्र देओ ॥ १२ ॥

श्रुत्वा तेषां वचो विप्रा ज्ञानातं चैव रावणे ॥

तदेव वचनं प्रोक्तं तद्वर्ष्णं श्रवणं तथा ॥ १३ ॥

भाषा—रावणको कुछ ज्ञानकी प्राप्ति भई सोई राक्षसोंका वचन है तथा रावणका थोरा ज्ञान प्राप्त होनेमें हर्ष मानना सोई राक्षसोंके वचनको मुनियोंसे सुनना भया ऐसे राक्षसोंके वाक्यको मुनि लोग सुनके ॥ १३ ॥

विचार्य मुनयस्ते तु किं दास्यामोऽद्य रावणे ॥

रावणाद्वयसनं प्राप्तं तन्मुनीनां विचारणम् ॥ १४ ॥

भाषा—मुनिजन आपसमें विचार करते भये कि रावणको अभी क्या वस्तु देवें हमारे लोगोंके पास तौ कुछ वस्तु है नहीं मन रावण मुनिजनोंको दुःख देना भया. सोई मुनिजनोंका विचार भया है ॥ १४ ॥

स्वस्वदेहाद्गवतो भञ्जनात्प्रीतिं रसम् ॥

सर्वेनिःकाश्यमुनयस्तदेव रुधिरं स्मृतम् ॥ १५ ॥

भाषा—ईश्वरका भजन सोई मुनिजनोंकी देह है ऐसा भजनरूप अपना अपना देह और जगवान् की प्रीतिसे उत्पन्न जो हर्ष सोही शरीरमें प्रेम होना. सो प्रेम-समूह रक्त भया है ऐसे रक्तको निकालके ॥ १५ ॥

सर्वेषां प्राणिनां विप्र शरीरं वर्द्धनाकरम् ॥

रुधिरं चेतदर्थं हि दृष्टान्तोऽत्र समीरितः ॥ १६ ॥

भाषा—सब प्राणियोंके शरीरकी वृद्धि करनेमें रक्त खानि है रक्त सूख गये पीछे शरीर नष्ट हो जाता है. इसवास्ते सुंदरकर्मीका रक्तका दृष्टांत वर्णन किया गया है ॥ १६ ॥

भगवद्गतिरूपस्य शरीरस्य विवर्द्धनम् ॥

भवत्यनेन रक्तेन कुंभन्तं निश्चयं मुने ॥ १७ ॥

आच्छाद्याज्ञानवस्त्रेण दूतेभ्यः प्रददुर्घटम् ॥ १७ ॥

भाषा—भगवान् का भजनरूप जो साधुजनों का देह है तिसकी वृद्धि इसी गद्दद आदि प्रेम रक्तसे होती है ऐसा निश्चय सो बड़ा भया है तिस घडेमें प्रथम वर्णन भया जो रक्त सो राक्षसों का अज्ञान सो वस्त्र है तिस वस्त्र करके घडेको ढाँपिके रावणके दूतों को मुनिजन देते भये ॥ १७ ॥

दूतैः पृष्ठाः किमस्मिन् भो रक्तमस्माकमद्गुतम् ॥

किं भविष्यत्यनेनैव रावणस्य कुलक्षयः ॥ १८ ॥

भाषा—दूत पूँछते हुए कि हे मुनिजनों ! इस घडेमें क्या चीज है तब मुनि बोले हमारा सबका बड़ा आश्वर्य रक्त है दूत बोले इस रक्तसे क्या होवेगा. तब मुनि बोले रावणके कुलका नाश होगा. ॥ १८ ॥

मददज्ञानहर्षं च रक्षसां प्रश्नमुच्यते ॥

भगवद्वक्तिजं ज्ञानं मुनीनां वचनं च तत् ॥

रक्तांकुरायां द्रोहं च रावणस्य कुलान्तकम् ॥ १९ ॥

भाषा—राक्षसों के हृदयमें बड़ा अज्ञान तथा उसी अज्ञानमें हर्ष सोई राक्षसों का मुनिजनों से पूँछना भया है तथा मुनियोंने विचार किया कि इसी रक्तसे भगवान् की भक्ति उत्पन्न होवेगी. ऐसा विचार सो मुनिजनों का राक्षसों से बोलना भया. तथा रक्तसे उत्पन्न भई जो परमेश्वरकी भक्ति तिसमें द्रोह करना सो रावणके कुलका नाश भया है ॥ १९ ॥

तद्वीत्वा गतास्ते तु प्रोचुः सर्वं च रावणे ॥

त्रासनिश्चयम्लानादि ग्रहणादि निगद्यते ॥ २० ॥

भाषा—दूतोंने घडेको लेके रावणके सामने जायके सब मुनियों का चरित्र रावणसे कहते हुए मुनिजनों के वाक्यको सुनके दूत डर गये सोई घडेको ग्रहण करना भया है दूत निश्चयसे जान लेते भये कि रावणका नाश होगा ऐसा जानना रावणके पास दूतों का जाना भया है तथा दूत लोग अपना नाश जानके उदास होगए सोई रावणसे मुनिजनों के चरित्रको दूत कहते हुए ॥ २० ॥

श्रुत्वा जनक जीवस्य राज्ये दीनस्वभावके ॥

दया बुद्धि क्षितौ कुंभं खानयित्वा च रावणः ॥ २१ ॥

**भाषा—**दूतोंके वचनको रावण सुनके जीवरूप जनकराजा तिस जीव राजाका गरीब स्वभाव सोई जीव जनकका राज्य है तिस राज्यमें दयारूप भूमिके खोदायके ॥ २१ ॥

दयायां स्थापयित्वा तं भूमावृद्धमृदा धिया ॥

जीवस्य पूरयित्वा च स्वनाशे निर्भयोऽभवत् ॥ २२ ॥

**भाषा—**तिस घडेको दयारूप भूमिमें धरायके ऊपरसे जीविकी बुद्धि सोई मृत्तिकासे पूर्ण करायके अपने कुलके नाशका भय छोडके लंकामें रावण आनंद करने लगा इस श्लोकका अर्थ यह है कि घडेको रावण जमीनमें गडाय लेता भया ॥ २२ ॥

जीवस्य जन्ममरणं सुख दुःखाद्यनेकधा ॥

एतद्वृपे व्यतीते च काले महाति चागते ॥ २३ ॥

**भाषा—**जन्ममरण दुःख सुख आदि लेके अनेक कर्म जीवरूप जनकराजाके होते हैं सोई पल घडी प्रहर दिन राति पक्ष मास वर्ष युग प्रलय काल हुए हैं ऐसे काल बडे बडे आये तथा गये घटा गाडे पछि बहुत दिन बीतगये ॥ २३ ॥

पञ्चेन्द्रियकृतं कर्म तथा द्विगुणसंभवम् ॥

पञ्चमु पञ्च रागाद्याश्वैतद्वादुशवार्षिकम् ॥ २४ ॥

**भाषा—**पांच ज्ञान इंद्रियों करके किये हुए जो पांच खोटे कर्म तथा रजोगुण तमोगुण करके किये हुए दो खोटे कर्म तथा पांच इंद्रियोंके पांच कर्ममें स्नेह आदि करना जैसा वाक्य मानवुक्त बोलना हाथसे खोटा कर्म करना इंद्रियोंसे भुरे कर्म करना पगसे भुरे रस्तेको जाना सुंदर जगहपर मल करदेना ये राग आदि पांच कर्म तथा पांच कर्म इन्द्रियोंका जिसमें राग आदि कर्म करना तथा दोऊ कर्म गुणका येही बारह कर्म बारह वर्ष हुए हैं ॥ २४ ॥

एषु प्रीतिरनाबृष्टिरभूज्जनकभूपतेः ॥

राज्ये पूर्वोत्तमावे तं द्वद्वाऽभूत्सोऽपि व्याकुलः ॥ २५ ॥

भाषा—इन खोटे कर्मोंमें जीवकी प्रीति सोई प्रथम वर्णन भया जो जीव रूप राजा जनकका राज तिसमें बारह वर्ष वर्षा नहीं होती भई ऐसी वर्षाहीन अपने राज्यको जीवरूप राजा जनक देखिके दुःखी होगया ॥ २५ ॥

**पूर्वोक्तब्राह्मणैरुत्कश्चिकीषुब्रह्मलयाजनम् ॥**

**तद्धर्षलांगलेनैव चकर्ष करुणां महीम् ॥ २६ ॥**

भाषा—प्रथम वर्णन भये जो ब्राह्मण तिन्होंका सुन्दर कर्मरूप वचन मानिके खोटे कर्मोंमें जीवकी प्रीतिरूप अनावृष्टि नाश होने वास्ते भगवानके विनय-रूप यज्ञ करने वास्ते उसी यज्ञमें हर्षरूप सुवर्ण है तिसको हल बनायके दयारूप भूमिका जीव जनक जोते भये ॥ २६ ॥

**जीवस्य यजने प्रेम लांगलं तन्निगद्यते ॥**

**फालं च तत्सुखं ज्ञेयं तदयाहीनभावनात् ॥ २७ ॥**

भाषा—यज्ञमें जीव जनकका प्रेम बहुत है सोई हल भया है उसी हलमें सुख मानना सोई फाल भया है जीवका सुभाव गरीब है सोई फालका अयभाग भया है तिस अयभागसे ॥ २७ ॥

**पूर्वोक्तं निःसृतं कुंभं तस्माज्जाता च बालिका ॥**

**ब्रह्मभक्तिः समाख्याता पालिता जनकेन सा ॥**

**अतः सा जानकी प्रोत्ता तवेयं प्राणवष्टभा ॥ २८ ॥**

भाषा—प्रथम वर्णन भया जो घडा सो निकसता भया, तिस घडेमेसे एक लडकी उत्पन्न भई उसको ब्रह्मकी भक्ति सज्जन कहते हैं जीवरूप जनक राजाने उस लडकीकी पालना की, इस वास्ते ब्रह्मकी भक्तिका जानकी नाम हुआ. सो जानकी यह आपकी प्राणप्यारी है ॥ २८ ॥

**एतां कथां रघुपतिर्मुनिवर्यगीतां संश्रुत्य हर्षमगमत्ससभस्समित्रः ॥**

**सत्संगरागजननं च तदेव हर्षं पप्रच्छ वालिशुभकण्ठजनेश्वरित्रम् २९**

भाषा—मुनिसे वर्णन भई सुन्दर कथाको विवेकरूप रामजी सभा मित्रस-हित सुनिके सब जीवोंको सत्संगमें लेहे बहुत उत्पन्न होता भया, सोई हर्ष

भया तिस हर्षको प्राप्त होते भये तथा रामजी वालिसुश्रीविके जन्मका चरित्र पूछते भये ॥ २९ ॥

इति श्रीवेदान्तरामायणे उत्तरकांडे शिवसहायबुधविरचिते संवर्तवरतन्तुसंवादे जानकीसंभववर्णने प्रथमो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ १ ॥

### वरतन्तुरुवाच ।

वालिसुश्रीवयोर्जन्म श्रोतुकामं रघृत्तमम् ॥  
तयोः स्नेहं च श्रवणं मुनिर्वाक्यमथाब्रवीत् ॥  
सत्कर्मणि विवेकस्य संगो मुनिवचस्समृतः ॥ १ ॥

**भाषा—**वरतन्तु मुनि बोले गुरुका वियोगरूप वालि तथा गुरुका उपदेशरूप सुश्रीव इन दोनोंके जन्मकी कथाके सुननेकी इच्छा है जो विवेकरूप रामजी तिससे मुनि बोलते भये वालिसुश्रीवमें रामजीका स्नेह है सोई रामजीका श्रवण करना भया, प्रथम वालिसे रामजीका द्रोह था सो महात्मा होगया वालि मेरे पछि तब रामजीका वालिसे स्नेह भया, सुंदर कर्ममें रामजीका प्रेम है सोई मुनिका वचन भया ॥ १ ॥

निर्दयायाच्च मायायाः स्वभावो रघुनन्दन ॥  
सैवक्षराट् समाख्यातो दुरानन्दकृतश्शठः ॥ २ ॥

**भाषा—**मायाका दयासे हीनस्वभाव सोई प्रथम वर्णन हुए वानर कक्षोंका उत्पाति करनेवाला राजा है राजाका राजा नाम है तथा गुरुके दादाकाभी राजा नाम है ऐसा जो वानर कक्षोंका दादा तिसका खोटे काममें आनंद मानता ऐसा जो ब्रह्मा सो रचता भया ॥ २ ॥

ब्रह्माम स दयाभूमौ भ्रमणं जीवतापनम् ॥

जीवानां तापनोपाये चैकस्मिन् दिवसे च सः ॥ ३ ॥

**भाषा—**हे रामजी ! दयारूप भूमिमें कक्षराज भ्रमण करता भया जीवोंको ताप देना सोई भ्रमण भया जीवोंको संताप देनेका उपाय सोई दिन भया है उसी एक दिन ॥ ३ ॥

स्वेच्छाचाराशुभे कूपे जडभावजलावृते ॥

जीवसंतापनेच्छां च ददर्शाशु महाबली ॥ ४ ॥

भाषा—बड़ा बलवान् मायाका निर्दय स्वभाव है सो अपनी इच्छामें आवे  
सोई कर्म करिलेना वेद पुराण और सज्जनके वाक्यको नहीं मानना ऐसा जो  
अशुभकर्म सोई कुआ भया उसी क्रक्षका मूर्ख स्वभाव सो जल है तिस जल  
करिके कूप भया है ऐसे कूपमें अपनी छायाको क्रक्ष देखता भया ॥ ४ ॥

छायां स्वस्य प्रकुर्वन्तीमृक्षस्य सदृशीं क्रियाम् ॥

कुकर्मागरनेत्राभ्यां दृष्ट्वा क्रोधसमाकुलः ॥ ५ ॥

भाषा—केसी छाया है क्रक्षके चिन्तमें रातिदिन सब जीवोंको संताप देनेकी  
इच्छा बरी रहती है तथा जैसा कर्म कुएके ऊपरसे क्रक्ष करता है तैसे कर्म  
जलमें छाया करिरही है ऐसी छायाको खोटे कर्मोंका संग सोई क्रक्षकी आंखि  
है तिस आंखि करिके देखिके अज्ञानरूप क्रोधसे व्याकुल होगया. यह दो  
श्लोकका अर्थ मिला है इसवास्ते युग्म है ॥ ५ ॥

महामानाभिसंयुक्तो मादृशोऽयं च कश्शठः ॥

एवं पपात कूपेऽसौ मानान्धम्पतनं प्रभो ॥ ६ ॥

भाषा—हे प्रभो ! रामजी क्रक्षराजने बड़ा अभिमान करके विचार किया  
कि मेरे सरीखा बलवान संसारमें दूसरा कोई नहीं है. यह मेरे सरीखा कौन है  
ऐसा विचारके उसी कुएमें क्रक्ष पड़िगया, अभिमानसे अंधा होरहा है क्रक्षराज  
सोई उसका कुएमें पड़ना भया है ॥ ६ ॥

नापश्यत्तत्र तं चापि व्याकुलत्वमदर्शनम् ॥

पश्यन्द्वियं स्वमात्मानं मायाप्रीतिस्वरूपिणीम् ॥

कूपान्निर्गत्य स तूर्णं ब्राम पूर्ववद्धुवि ॥ ७ ॥

भाषा—कुएमें उस अपने शत्रुको नहीं देखा, तब क्रक्षराज व्याकुल  
होगया, सोई नहीं देखना भया, तथा अपनी शरीरकी मायामें श्रीतिरूप सोई जी  
भयाहै तिसकूं देखिकै जलदी कुएसे निकसिके प्रथम सरीखे दयारूप भूमिमें  
होके भ्रमण करता भया ॥ ७ ॥

प्रमणन्तस्य कूरत्वमविचारो सतां सदा ॥

जीवत्रासे सतां चैव कूपात्स तद्विनिर्गमः ॥ ८ ॥

भाषा—क्रक्षका स्वभाव नूर है सोई क्रक्षका भ्रमण करना भया, तथा

मायाका निर्दयस्वभावरूप जो कक्षराज है तिनको ऐसा विचार नहीं है कि यह जीव खोटा है इसको त्रास देवे तथा यह जीव साधु है इसको त्रास नहीं देना चाहिये ऐसा विचार नहीं है सोई कुएसे कक्षका निकसना भया है ॥ ८ ॥

**नानाकुकर्माचरणास्ते तत्केशाश्च नीलिनः ॥**

**अविवेकशिरस्थाश्च जडभावजलार्दिणः ॥ ९ ॥**

भाषा—खोटे कर्मके आचरणका रूप काला है कक्षराज अनेक प्रकारके खोटे कर्मके आचरणको करते थे पुरुष रहे तब सोई आचरण नील सरीखे काले केश कक्षके होते भये, स्त्रीरूपमें कक्षके हृदयमें विवेक नहीं है सोई अविवेक कक्षका शिर भया, उसी शिरमें केश टिके हैं. कक्षका जडस्वभाव जो जल है तिस जल करके केश गले होरहे हैं ॥ ९ ॥

**केशादरो मज्जनश्च बालया च तया कृतः ॥**

**मज्जने पण्डुद्विश्च सा कार्या जानकीपते ॥ १० ॥**

भाषा—कक्षराज स्त्री होगया सो स्त्री अपने केशोंको आदर बहुत करती है सो बालोंका धोना भया. आदररूप बालके धोनेमें प्रतिज्ञा सोई केशका धोवना करना है इस प्रकारसे केश धोयके ॥ १० ॥

**शोषयन्ती च तान्वाला केशान् सज्जनदुःखदान् ॥**

**सर्वेषां प्राणिनां दुःखं केशशोषणमुच्यते ॥ ११ ॥**

भाषा—साधुजनोंको दुःख देनेवाले जो खोटे कर्म आचरण केश तिन्होंके धोये पछि सो स्त्री सुखाय रही है सब जीवोंको मायाके निर्दयपनसे दुःख होना सोई केशका सुखाना भया है ॥ ११ ॥

**कुधर्मस्सुरनाथश्च तान्दृष्टा काममोहितः ॥**

**एकत्वं तस्य तस्याश्च कामिनीदर्शनं च तत् ॥ १२ ॥**

भाषा—खोटा धर्म इंद्र प्रथम वर्णन भया है सो कक्षराज स्त्री होगया तिसको देखिके कामसे मोहित होगया इंद्रका तथा इस स्त्रीका एक लक्षण है जैसा किसी जीवको तप आदि सुंदरकर्म करते इंद्र देखेगा तो जानेगा कि मेरा राज्य लेनेवास्ते यह तप कर रहा है उसको अनेक यनसे भष्ट करेगा इसी वास्ते इंद्रका खोटा धर्म कहाता है तैसे उस स्त्रीका लक्षण है सोई इंद्रसे स्त्रीका देखना भया है ॥ १२ ॥

तस्या दुर्भावनं कामस्तेन ग्रस्तश्शचीपतिः ॥  
यावदायाति रंतुं ताम्प्रीतिरागं च मैथुनम् ॥ १३ ॥

भाषा—तिस श्वीका दुष्टकर्ममें खोह है सोई कामदेव भया है तिस कामदेव करके इंद्र मोहित होके जबतक उस श्वीके संग रमण करनेको आने लगा श्वीमें इन्द्रकी प्रीतिका मोह बहुत है सोई मैथुन भया है ॥ १३ ॥

तावत्पपात तद्वीर्यं सुकार्येणाप्रवंचनम् ॥

तत्केशो पूर्वकथिते तस्माद्वालिः प्रजाज्ञिवान् ॥ १४ ॥

भाषा—जबतक इन्द्रका वीर्य उस श्वीके प्रथम वर्णन भये केशोंमें पड़िया उस वीर्य तथा केशके संयोगसे वाली होता भया सुंदर कर्मोंमें इंद्रकी ईर्षा बनी रही है उसी ईर्ष्यामें कपट सोई इंद्रका वीर्य होता भयाहै ॥ १४ ॥

मायानिर्दयभावरूपवनिताकेशेषु जातो बली  
दौःकम्याचरणेषु वीर्यपतनादिद्रस्य काधार्मिणः ॥

सत्कार्येष्यप्रवंचनात्कपिपतिवालिर्वियोगो बली

जीवानां भवतारणस्य च गुरोर्यो वै त्वया घातितः ॥ १५ ॥

भाषा—मायाका दयासे हीन जो स्वभाव सोई श्वी भई है तिसके खोटे कर्मके आचरणरूप केशमें खोटा कर्मरूप इन्द्रका वीर्य पड़नेसे वाली होता भया कैसा वीर्य है सुन्दर कर्मों ईर्ष्या करके कपट रूप सोई वीर्य है कैसा वाली है जीवोंको संसारसे तारण करनेवाले जो गुरु तिसका वियोग है ॥ १५ ॥

सतां चैवासतां वापि सततं दुःखदाय च ॥

तस्या विचारो जीवानां स द्वितीयो दिनं स्मृतः ॥ १६ ॥

भाषा—मायाका निर्दयस्वभावरूप श्वीका नित्य रातिदिन ऐसा विचार रहता है कि सुंदर जीवोंको तथा दुष्टजीवोंको भी दुःख देना ऐसा विचार सोई दूसरा दिन भया है ॥ १६ ॥

तदिने पूर्ववत्केशमार्जनं साकरोत्सती ॥

आत्मप्रकाशः सविता दृष्टा तां कामतापितः ॥ १७ ॥

भाषा—तिस दिनमें पहिले वर्णन हुई श्वी पहिले सरीखे बालोंको धोयके

सुखाय रही है तिस श्रीको आत्मप्रकाशरूप सूर्य देखिके कामदेवसे जलने लगे ॥ १७ ॥

सज्जानशिक्षणं तस्यै दातुं सूर्यमनोरथः ॥  
तत्स्या दर्शनं प्रोक्तमुपकारश्च मन्मथः ॥ १८ ॥

**भाषा-**सूर्यका ऐसा विचार है कि इस श्रीको हम सुंदर ज्ञान सिखावे कि तू जीवोंके ऊपर निर्दयपन छोड़ दे और दया कर ऐसे सूर्यका विचार सोई श्रीको सूर्यका देखना भया तथा जो सूर्यके वाक्यको वो श्री मानि लेवे और मानिके जीवमात्रपर दया करे तब सब जीव मोक्षको चले जावेंगे और बड़ा उपकार होवे सोई उपकार रूप काम भया तिस करके सूर्य जलि रहे वह चिंतवनरूप जलना है कार्य सिद्ध जबतक नहीं होता तबतक मनको ताप होता है काज भये पर आनंद होता है ॥ १८ ॥

एवं कामार्दितस्मूर्यौ मैथुनं कर्तुमागतः ॥  
तया साद्वच तद्वर्षो मैथुनं गमनं सुखम् ॥ १९ ॥

**भाषा-**इस प्रकारसे जीवोंके उपकाररूप कामसे दुःखी होके आत्मप्रकाशरूप सूर्य तिस श्रीके संग रममाण होनेके बास्ते आते भये. उपकारमें हर्ष मानना सोई रममाण होना है उस हर्षमें सुख मानना सोई श्रीके पास आत्मप्रकाशरूप सूर्यका आना भया है ॥ १९ ॥

यावत्कर्तुं समुद्युक्तो हर्षमैथुनमद्गुतम् ॥  
तावत्पपात तद्वीर्यं भगवत्प्रेमनिर्मलम् ॥  
श्रीवायां स्मृतिरूपायां संस्था भगवत्स्तदा ॥ २० ॥

**भाषा-**सूर्य जबतक हर्षरूप क्रीड़ा तिस श्रीके संग करनेको तयार भये तबतक भगवानके प्रेमरूप मलसे हीन ऐसा जो सूर्यका वर्य है सो उस श्रीके श्रीवामें पड़ गया, तब श्रीभी कभी कभी विचारती है कि मैं भगवानकी दासी हूँ ऐसी सुरति सोई श्रीकी श्रीवा भई है. श्रीवा नाम गला ॥ २० ॥

ग्रहणं वर्यपतनं तस्माज्ञातो महाबली ॥  
गुरुपदेशस्मुग्रीवस्सखायं ते रघूत्तम ॥ २१ ॥

**भाषा-**हे रघुनंदन ! सूर्यकी शिक्षाको सो श्री ग्रहण करती भई सोई ग्रहण

सूर्यके वर्णिका पड़ना भयाहै. उसी वर्णिसे गुरुका उपदेशरूप यह आपका मित्र तथा नरकबाधासरीखे अनेक शूरवीरोंको नाश करनेको बड़ा बलवान् ऐसा सुग्रीव जन्मता भया ॥ २१ ॥

कपीशयोर्जन्मकथानकं त्विदं प्रोक्त्वा च रामाय गता मुनीश्वराः ॥

ध्याने सुखं तद्गमनं प्रकीर्तिं बभूव रामोऽपि सदावलीढः ॥ २२ ॥

भाषा—वाली सुग्रीवके जन्मकी कथा रामजीसे मुनिजन वर्णन करके भगवानके ध्यानके सुखमें मन हो गये सोई मुनिजनोंका रामजीके पाससे अपने अपने आश्रमको जानाभया, तथा रामजीभी गुरुके वियोगरूप वालीको तथा गुरुके उपदेशरूप सुग्रीवकी जन्मकथा सुनिके भगवानके रूपमें मन होगये सोई अवण करना भयाहै ॥ २३ ॥

इति श्रीवेदांतरामायणे उत्तरकांडे शिवसहायबुधविरचितं संवर्तवरतन्त्रुमंवादे  
वालिसुग्रीवजन्मकथनं द्वितीयो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ २ ॥

### वरतन्त्रुरुवाच ।

कुधर्माश्च कुकर्माणि विधिना निर्मितानि च ॥  
नाशमाप्तानि सर्वाणि सुमते राघवे नृपे ॥ १ ॥

भाषा—सुमतिरूप अयोध्याका राजा विवेकरूप रामजी भये तब ब्रह्मा करके रचे जितने खोटे कर्म तथा खोटे धर्म सो सब नाशको प्राप्त भये ॥ १ ॥

सर्वे जीवाः प्रकुर्वन्ति सत्संगादीनेकशः ॥

प्रापास्ते सञ्चिदानन्दतेजोरूपमयं वपुः ॥ २ ॥

भाषा—विवेकरूप रामजीके राज्यमें सब जीव सत्संग आदि गिनतीहीन सुंदर कर्म करते भये उसी कर्मके प्रभावसे तेजरूप जो ब्रह्मका शरीर तिसको प्राप्त होते भये ॥ २ ॥

न शरीरं भगवतस्तेजश्चापि न ज्ञायते ॥

अनेकजन्मनोऽभ्यासाद्गमन्ततथापि च ॥ ३ ॥

भाषा—न भगवान् के शरीर है तथा तेजभी जीवों करके नहीं मालूम होता है, बड़ा अद्भुत तेज है, अनेक जन्मतक ईश्वरके तेजकों मालूम करनेवाले सत्संग आदि लेके अनेक सुंदर कर्म करे तौभी बड़े कठिनतासे ईश्वरका तेज मालूम पड़ेगा ३॥

मुमुक्षवो बभूवस्ते सर्वे जीवाश्रगाचरे ॥  
तद्विग्रकारका नष्टाश्रैतद्राज्यं रघृत्तमः ॥  
चक्रे प्रेम सदा तेषामीश्वरे तत्प्रजासुखम् ॥ ४ ॥

**भाषा—**तीन लोक चौदह भुवनमें सब जीवोंकी मुक्ति होनेकी इच्छा होती भई तथा मोक्षके विद्धि करनेवाले दृष्ट जीव नष्ट होगये, यही राज्य विवेकरूप रामजी करते भये, सब जीवोंका प्रेम ईश्वरमें बहुत होताभया सो प्रजाका सुख भया है॥४॥  
कामादिशत्रवो नष्टास्ते पृष्ठमासा मुनीश्वर ॥  
जीवानान्निर्भयन्तेभ्यस्तन्तेषां गमनं स्मृतम् ॥ ५ ॥

**भाषा—**काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये छः जीवोंके वैरी हैं सो रामजीके राजमें ये छहों नष्ट होगये, सोई छः मास भये, तथा इन छः वैरियोंसे जीव निर्भय होगया सोई छः मासका बीतना भया है, विवेकरूप रामजीको राज्य करते इस प्रकार छः महीने बीत गये ॥ ५ ॥

पूर्वोक्ताः कपयश्चापि भगवत्प्रेमनिर्भराः ॥  
बभूः कृतवान्नरामस्तन्तेषां च विसर्जनम् ॥ ६ ॥

**भाषा—**पहिले वर्णन भये जो कपि ऋक्ष हैं सोभी भगवानके प्रेममें मन्त हो रहे हैं सोई रामजी कपि और सब ऋक्ष उनको बिदा करते भये ॥ ६ ॥

अनेके तारिता जीवा रामेण भुवनत्रये ॥  
त एव यज्ञा रामेण कृताश्च सुमतौ मुने ॥ ७ ॥

**भाषा—**हे मुनिजी ! तीन लोक चौदह भुवनमें विवेकरूप रामजी गिनतीहीन जीवोंको संसारसे उद्धार करिके मोक्ष करते भये सोई सुमतिरूप अयोध्यामें अनेक यज्ञ करते भये ॥ ७ ॥

जीवे जीवे ददौ भर्तिं चेश्वरस्य रघृत्तमः ॥  
स्वयं चापि विरक्तोऽभूदेष सत्याग उच्यते ॥ ८ ॥

**भाषा—**विवेकरूप रामजीने जीवोंका उद्धार होने वास्ते दया करिके सब जीवोंको परमेश्वरकी भक्तिका दान करते भये दान करना यह है कि सब जीवोंमें भक्तिको टिकाते भये तथा आप भगवानके चरणोंमें रमित भये सोई जानकीका त्याग रामजी करते भये ॥ ८ ॥

द्वौ पुत्रौ रामचन्द्रस्य जानक्यां च बभूवतुः ॥  
ज्ञानवैराग्यनामानो जीवोत्तारणकारको ॥ ९ ॥

भाषा—विवेकरूप रामजीके ईश्वरकी भक्तिरूप जानकीमें दो पुत्र होते भये, कैसे पुत्र हैं एक ज्ञान, दूसरा वैराग्य, कैसे हैं जीवोंको संसारसे उद्धार करनेवाले हैं ॥ ९ ॥

स्वपदं गन्तुकामस्य भगवद्वपदर्शनम् ॥  
विवेकराघवस्यैव चिंतनो मुनिसत्तमः ॥  
दुर्वासागमनं तस्य रामोत्साहश्च तत्पदे ॥ १० ॥

भाषा—परमेश्वरका दर्शनरूप जो विवेकका स्थान है तिसको प्राप्त होनेको रामजी चिंतन करते हैं कि मनरूप रावण आदि राक्षस नष्ट होगये अब अपने स्थान हम जावें ऐसा रामजीका विचार सोई दुर्वासा मुनि भया है ॥ १० ॥

आज्ञातो मुनिना तेन तद्वप्स्यावलोकने ॥  
गंतुं तल्लक्ष्मणस्यैव मुनिवाक्यम्परस्परम् ॥ ११ ॥

भाषा—रामजीके चिंतवनरूप दुर्वासामुनिने रामजीको भगवानके दर्शनरूप जो स्थान तिसपर जानेकी आज्ञा दी कि रामजी ! राक्षसोंका नाश होगया अब तुम भगवानका दर्शनरूप जो तुम्हारा स्थान तिसको जावो ऐसा मुनिका वाक्य सोई लक्ष्मणका तथा दुर्वासामुनिका संवाद भया है ॥ ११ ॥

स्वस्वकर्मणि हर्षेण बभूवुर्लक्ष्मणादयः ॥  
ब्रातरो रामचन्द्रस्य वियोगस्तोऽयमुच्यते ॥  
सर्वेषां लक्ष्मणादीनां ब्रातृणां राघवस्य च ॥ १२ ॥

भाषा—विवेकरूप रामके तीनों भाई लक्ष्मण संतोष संतोषकी वृद्धि देखिके हर्ष मानते भये निर्भीहरूप भरत निर्भीहकी वृद्धि देखिके हर्षित भये सहनरूप शत्रुघ्नि सब जीवोंमें क्षमाकी वृद्धि देखिके खुशी भये रामजीके भाइयोंका ऐसा हर्ष सो रामजीसे तीनों भाइयोंका वियोग होताभया ॥ १२ ॥

जानक्या प्रार्थिता भूमिर्दया रामे च निश्चला ॥  
स्थिर्तिर्ददौ च जानक्या विवरस्सैव कथ्यते ॥ १३ ॥

भाषा—दयालुप पृथ्वीकी प्रार्थना जानकीने की तब पृथ्वी रामजीमें अचलवास जानकीको देतीर्हि सोई रस्ता भया है ॥ १३ ॥

दयायां सर्वदा प्रीतिर्जानक्यास्सा च प्रार्थना ॥

दयादत्तेन मार्गेण वासश्चके च जानकी ॥

विवेके निश्चलत्वं च तस्यास्तदूमनं स्मृतम् ॥ १४ ॥

भाषा—सदा दयालुप पृथ्वीमें जानकीकी प्रीति है सोई पृथ्वीकी प्रार्थना जानकीने की दयापृथ्वी करिके दीन जो रस्ता सो अचलवास रामजीमें जानकीका है उसी रस्ता करिके विवेकमें जानकीने अचल वास किया सोई राम-जीके पाससे जानकीका जानाभया ॥ १४ ॥

सर्वेषां लक्ष्मणादीनाम्ब्रातृणां रघुनन्दनः ॥

वियोगं हर्षस्त्वं च जानक्याश्च तथैव च ॥

दृष्ट्वा प्रवर्द्धनं तेषां तद्वप्तो दर्शनं स्मृतम् ॥ १५ ॥

भाषा—रामजीने सब लक्ष्मण आदि लेके अपने भाइयोंका हर्षस्त्व वियोग देखिके तथा जानकीको देखिके अपने सत्संगवाले सब जीवोंको सबके कर्ममें हर्षकी वृद्धि भई सोई रामजीका भाइयोंका वियोग देखना भया है ॥ १५ ॥

स्वपदं भगवद्वपदर्शनं स्वात्मसंस्थितम् ॥

तत्प्रेम प्रापणं तस्य कथ्यते तं समुत्सुकः ॥ १६ ॥

भाषा—रामजी अपने हृदयमें विराजमान जो भगवानका दर्शनरूप स्थान तिसको जानेके वास्ते आवंद मानते भये सोई रामजीका परंपदको जाना भया ॥ १६ ॥

कौसल्याद्याश्च सम्ममा भगवच्चितने सदा ॥

तत्तासां गमनम्प्रोक्तं वैकुंठे भगवत्प्रिये ॥ १७ ॥

भाषा—कौसल्या आदि लेके रामजीकी सब माता जो हैं सो सब भगवानके चिंतवनमें राति दिन मन होरही हैं सोही तिन्होंकाभी भगवानको प्यारा जो वैकुंठ तिसमें जाना भया है ॥ १७ ॥

कुमतेर्निर्भयां चके सुमर्ति स्वाम्पुरीम्प्रभुः ॥

तदेव रामचंद्रस्य पुरीत्यागोऽभिधीयते ॥ १८ ॥

भाषा—खोटी मतिकी त्राससे सुमतिरूप अयोध्याकूँ रामजी निर्भय करते भये सोई रामजीका अयोध्याका त्यागना भया ॥ १८ ॥

सर्वान्मोक्षस्य सहित्यान्विवेको रघुनन्दनः ॥

चकार स्ववशे नित्यं प्रजानां ग्रहणं त्विदम् ॥ १९ ॥

भाषा—मोक्षकी संपूर्ण सामग्री ज्ञान ध्यान आदि लेके गिनतीसे हीन तिसको नित्य रामजी अपने वश्य करते भये सो प्रजाका संग लेना भया ॥ १९ ॥

तास्समादाय राजेन्द्रो जगाम सरयुतटम् ॥

तत्येम गमनं प्रोक्तं तज्जले निममज्ज ह ॥ २० ॥

भाषा—यहिले वर्णन भई प्रजाको रामजी संग लेके भगवानमें निश्चल प्रेम-रूप सरयुके तटपर जाते भये सुवासनारूप सरयुमें रामजीका प्रेम सोई रामका सरयुतटपर जाना भया अनिमानसे हीन कर्मरूप सरयुका जल तिसमें प्रजासहित रामजी गोता लगाते भये ॥ २० ॥

निर्मानभगवद्व्यानं राममज्जनमुच्यते ॥

मज्जित्वा सर्वजीवेषु चिदंशेषु तदा प्रभुः ॥

वासं चक्रे तदेवं वै गमनं सत्पदेऽभवत् ॥ २१ ॥

भाषा—विवेकरूप रामजी अनिमानसे हीन होके ईश्वरका ध्यान करते भये सोई रामजीका सरयुके जलमें स्थान करना भया ऐसा ध्यानरूप स्थान करके ईश्वरका अंरा जो जीव अनेक प्रकार करिके अनेक शरीरमें दुःख पाय रहा तिस सब जीवोंको मोक्षरूप देनेवास्ते सब जीवोंमें विवेकरूप रामजी टिकते भये सोई प्रजासहित रामजीका परमपदको जाना भयाहै ॥ २१ ॥

एवं रघुत्तमदशाननयोश्चरित्रं वेदांतसारगदितं च विश्रुत्य जीवः ॥

सम्यग्विचार्य गुरुणा च विशिष्य नित्यं मोक्षं प्रयाति रघुनन्दना-भाववद्धः ॥ २२ ॥

भाषा—इस प्रकारका विवेकरूप रामजीका तथा मनरूप रावणका चरित्र वेदांतका सार जो ज्ञान है तिसको आदि लेके अनेक प्रकारके जो सुंदर धर्मरूप जो

शास्त्र हैं तिन्हों कारके कथित हुआ है ऐसे चारित्रको जीव सुनके तथा मनमें विचार करके तथा गुरुके मुखसे ऐसे बहुत प्रकारसे सिखिके विवेकरूप जो रामजी हैं तिसका भाव जो सत्संग तिसमें बंधनरूप प्रेम लगाके जीव मोक्षको प्राप्त होवेगा॥२२॥

इति श्रीवेदान्तरामायणे उत्तरकाण्डे संवर्तवरतन्तुसंवादे पं० शिवसहायबृद्ध-  
विरचितं रामचन्द्रस्वपदप्राप्तिवर्णने तृतीयो मोक्षाख्यः सोपानः ॥ ३ ॥  
समाप्तश्चायमुत्तरकाण्डः ।

### श्रीमद्वेदान्तरामायणं समाप्तिमगमादिम् ।

बाणा १ विध ४ रंध ९ शशि १ वत्सरौक्रमीये चापाद्युक्तुर-  
विवासरशम्भुतिथ्याम् ॥ श्रीमन्महेशकृपया दयया च तस्य  
यंथस्समाप्तिमयमेवमगात्सुपूर्णः ॥ १ ॥ श्रीमच्छंकरार्पणमस्तु ॥  
प्रश्न—प्रच्छुस्सज्जना मां वै जीवश्वैकश्चिदंशवान् ॥

स चराचरवत्ती च त्वयोक्तो भूरिशः कथम् ॥ १ ॥

अर्थ—सज्जनलोग हमसे पूछे कि भगवान् का अंश जीव एक है तुमने इस ग्रन्थमें बहुत जीव वर्णन किये हैं इसका कारण क्या है ॥ १ ॥

उत्तर—जलद्रव्यन्यायाजीवाश्वानेकशः ॥

अर्थ—जैसा पानीका एक रंग है पर जिस चीजमें मिलावेगे उसी चीजसरी पानीका स्वरूप होजावेगा दूधमें दूध छाछमें छाछ काजरमें काला फ़िलमें फ़िला शक्रगमें मीठा कटु चीजमें कटु इस प्रकार गिनतीसे हीन चीजोंमें मिलके वैसाही होजाता है तैसेही जीव एक है पर जिस योनिमें जन्मेगा उसी प्रकारका हो जावेगा यह दृष्टांत महासांख्य आदि शास्त्रोंका है कपोलकल्पित नहीं है ॥

२०१०११६.

### पुस्तक मिलनेका ठिकाना—

गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास,  
रक्षभिंवङ्केश्वर, स्टीम् प्रेस-कल्याण-मुम्बई.

खेमराज श्रीकृष्णदास,  
'श्रीविङ्केश्वर' स्टी प्रेस-मुम्बई.











